



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 190]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 25, 2007/आश्विन 3, 1929

No. 190]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 25, 2007/ASVINA 3, 1929

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2007

संदर्भ सं. जी/18-सीडब्ल्यूए/9/2007.—कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउंटेंट्स एक्ट, 1959 के खण्ड 5 के अनुसरेण में, दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया की परिषद् की वार्षिक रिपोर्ट और उक्त संस्थान की 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के ऑडिट किए हुए लेखों को सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जा रहा है।

डॉ. डी. बागची, सचिव

## 48वीं वार्षिक रिपोर्ट, 2006-07

द काउंसिल ऑफ दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया की परिषद् दिनांक 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए आईसीडब्ल्यूएआई की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखाओं को प्रस्तुत करती है।

काउंसिल ने दिनांक 22 जुलाई, 2006 को हुई अपनी बैठक में वर्ष 2006-07 के लिए इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष पद के लिए धनन्जय वी जोशी, एम. काम., एल.एल.बी., एंड एफसीएस, एफआईसीडब्ल्यूए का और उपाध्यक्ष पद के लिए श्री चन्द्र. वधवा, एम. काम., एल.एल.बी., एफसीएस, एफआईसीडब्ल्यूए का चुनाव किया।

डॉ. एच. आर. सुब्रमण्य, पूर्व अध्यक्ष और सेन्ट्रल काउंसिल मेम्बर का दिनांक 6 दिसम्बर, 2005 को असामयिक एवं दुःखद निधन हो जाने के कारण परिषद् में एक पद रिक्त हो गया था। सीडब्ल्यूए विनियमन, 1959 के विनियमन 69 के अनुसरेण में वर्ष 2006 के उप चुनाव के परिणामों की घोषणा के परिणामस्वरूप वर्तमान काउंसिल 2004-07 के शेष कार्यकाल के लिए श्री ए. एन. रमन का दिनांक 20 नवम्बर, 2006 को दक्षिण क्षेत्र से इंस्टीट्यूट की काउंसिल में चयन किया गया था।

वर्ष 2006-07 के दौरान काउंसिल की नौ बैठकें हुईं।

## काउंसिल की समितियां

काउंसिल द्वारा गठित विभिन्न समितियों की संरचना अनुबंध-1 में दी गई है।

## प्रशिक्षण, शैक्षिक सुविधाएं और कंप्यूटरीकरण पंजीकृत विद्यार्थी

चालू वर्ष के दौरान इंस्टीट्यूट में 16,837 विद्यार्थियों का पंजीकरण किया गया। यह संख्या पिछले वर्ष पंजीकृत 14,343 विद्यार्थियों की तुलना में 17% अधिक है। वर्ष के अंत में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या 1,40,153 रही। वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान पंजीकृत विद्यार्थियों का क्षेत्रवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

क्षेत्र	2005-06	2006-07
पश्चिमी	2,798	2,838
दक्षिणी	5,663	2,230
पूर्वी	2,062	3,824
उत्तरी	2,362	6,630
कुल	12,885	15,522
नए	1458	1315
कुल योग	14343	16,837

**कोचिंग**

वर्ष के दौरान कोचिंग के लिए 39,412 विद्यार्थियों ने अपना नामांकन दर्ज कराया। यह संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 18% अधिक है। क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार है :-

**डाक द्वारा एवं मौखिक कोचिंग के आंकड़े**

पाठ्यक्रम	क्षेत्र	डाक द्वारा		मौखिक		कुल	
		05-06	06-07	05-06	06-07	05-06	06-07
फाउंडेशन	उत्तरी	875	1040	809	482	1684	1522
	पूर्वी	183	236	445	389	628	625
	पश्चिमी	303	298	1036	860	1339	1158
	दक्षिणी	3049	781	2263	2652	5312	3433
उप-योग		4410	2355	4553	4383	8963	6738
इंटर	उत्तरी	3204	3715	1363	2012	4567	5727
	पूर्वी	1279	1491	1840	2324	3119	3815
	पश्चिमी	1916	2190	3520	4545	5436	6735
	दक्षिणी	2306	5619	6192	6187	8498	11806
उप-योग		8705	13015	12915	15068	21620	28083
फाइनल	उत्तरी	496	832	78	229	574	1061
	पूर्वी	290	465	202	211	492	676
	पश्चिमी	304	546	339	606	643	1152
	दक्षिणी	424	1130	664	572	1088	1702
उप-योग		1514	2973	1283	1618	2797	4591
कुल योग		14629	18343	18751	21069	33380	39412

इंस्टीट्यूट ने छात्रों को क्षेत्रीय परिषदों की मार्फत अध्ययन सामग्री, परीक्षा-पत्रों की सप्लाई के रूप में डाक द्वारा कोचिंग हेतु आवश्यक सुविधाएं प्रदान कीं और छात्रों को उत्तरों का सुझाव दिया। डाक द्वारा कोचिंग के अलावा, यह इंस्टीट्यूट विद्यार्थियों को देशभर में फैले 107 केन्द्रों और दुबई स्थित एक विदेशी कोचिंग केन्द्र की मार्फत मौखिक कोचिंग भी प्रदान करता है।

**व्यावहारिक प्रशिक्षण योजना**

इंस्टीट्यूट में उद्योग, सेवा तथा अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त करने में छात्रों की सहायता हेतु एक व्यावहारिक प्रशिक्षण योजना चल रही है। प्रतिष्ठित संगठन अपने यहाँ लागत प्रशिक्षुओं को रख रहे हैं। इसके अलावा, लागत लेखापरीक्षक भी लागत प्रशिक्षुओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

**अध्ययन सामग्री का संशोधन करना/अद्यतन बनाना और पूरक सामग्री का प्रकाशन**

इमेशा की तरह, वित्त अधिनियम, 2006 के आधार पर प्रत्यक्ष कराधान एवं अप्रत्यक्ष कराधान के संबंध में पूरक सामग्री प्रकाशित की गई और उसे हमारी वेबसाइट पर डाला गया।

**विद्यार्थियों के साथ पत्र व्यवहार**

वर्ष के दौरान, विद्यार्थियों के साथ उचित पत्राचार बनाए रखा गया और उनकी पूछताछों का तत्काल उत्तर दिया गया। कोचिंग संबंधी

स्थिति को हमारी वेबसाइट पर नियमित तौर पर अपलोड किया गया ताकि विद्यार्थियों को सूचनाएं आसानी से मिल सकें।

#### कोचिंग स्थिति का कंप्यूटरीकरण

##### क. आवधिक अन्तरालों पर कोचिंग स्थिति अद्यतन बनाना

विद्यार्थियों की कोचिंग स्थिति को मुख्यालय के डाटाबेस में निरंतर अद्यतन बनाया जा रहा है। इस स्थिति को आवधिक अन्तराल पर वेबसाइट पर डाला जाता है।

##### ख. नए सिरों से पंजीकरण की स्थिति को दैनिक आधार पर अद्यतन बनाना

सात वर्षों की समाप्ति के बाद छात्र पुरानी पंजीकरण संख्याओं के रद्द हो जाने के फलस्वरूप, नए सिरों से पंजीकरण हेतु आवेदन करते हैं और संबंधित छात्रों को नए सिरों से पंजीकरण संख्याएं प्रदान की जाती हैं। नए सिरों से पंजीकरण की अद्यतन स्थिति वेबसाइट पर डाल दी गई है ताकि छात्र अपनी-अपनी पुरानी संख्याओं को फीड कर तदनुसूची पंजीकरण संख्याओं को देख सकें।

##### ई-लर्निंग योजना का सफल संचालन

इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों द्वारा वास्तविक शिक्षा को वास्तविक समय पर सुकर बनाने के लिए चालू वर्ष के दौरान इंस्टीट्यूट की अद्वितीय ई-लर्निंग योजना संबंधी पहल, में सुधार लाया गया और इस तरह की कोचिंग पद्धति पर छात्रों की प्रतिक्रिया काफी अच्छी रही। ई-लर्निंग के संबंध में प्रश्न संग्रह, मार्गदर्शी टिप्पणियों, ई-फैकल्टी आदि को आधुनिक वैश्वीकृत परिदृश्य में उद्योग की जरूरतों के अनुरूप सुदृढ़ किया गया है।

##### इंटरनेट आधारित शिक्षा प्रणाली का आरंभ

वैश्विक वातावरण के अनुरूप, आईसीडब्ल्यूआई ने भी इंटरनेट आधारित शिक्षा प्रदात्री प्रणाली के कार्यान्वयन की कार्यवाही आरंभ की है और ऐसा तत्काल पंजीकरण, कोचिंग, परीक्षा आवेदन पत्र आदि की पेशकश कर इंस्टीट्यूट के विभिन्न एककों की मार्फत विद्यार्थियों के लिए सेवा के एकीकरण द्वारा किया गया है और इसके फलस्वरूप विद्यार्थी समुदाय को त्वरित सेवा तथा विद्यार्थी डाटाबेस का ऑनलाइन अद्यतन सूचना उपलब्ध करायी जा रही है।

##### कैरियर काउंसलिंग पहल

विद्यार्थी समुदाय में पाठ्यक्रम के दायरे के प्रचार-प्रसार हेतु विशेष पहल की गई। स्कंधो/क्षेत्रीय परिषदों से कहा गया कि वे स्थानीय शैक्षिक संस्थानों के साथ समन्वय करें या वरिष्ठ विद्यार्थियों की बैठकें आयोजित करें जिनमें इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधि उपस्थित हुए और उन्होंने उभरते आर्थिक परिदृश्य में लागत एवं प्रबंधन लेखा व्यवसाय के दायरे पर प्रकाश डाला। वर्ष के दौरान अनेक कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

##### विद्यार्थियों का नियोजन और कैम्पस चयन

संस्थान ने नियोजन संबंधी कार्यकलापों का सुदृढीकरण करने की एक बड़ी पहल की और सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बड़े उपक्रमों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और सॉफ्टवेयर कंपनियों ने संस्थान के कैम्पस साक्षात्कार कार्यक्रमों में काफी रुचि दिखायी। दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई और चेन्नई में कैम्पस साक्षात्कार आयोजित किए गए जहाँ बैनडेटा, यूको बैंक, जीई, हाकिन्स, जैनपैक, विप्रो, इन्फोसिस इत्यादि जैसी कंपनियों ने लगभग 430 योग्य विद्यार्थियों की भर्ती की।

##### नया पाठ्यविषय शुरू करने हेतु पहल

इंस्टीट्यूट के नए पाठ्यविषय को भारतीय उद्योग की दक्षता संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से बनाया गया है और इसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन लेखा संस्थान के बराबर लाया गया है। नए पाठ्यविषय को बनाते समय आईएफएसी की शैक्षिक मार्गदर्शिका को अपनाया गया है। परिषद् द्वारा पाठ्यक्रम को अनुमोदित किया गया है ताकि प्रबंधन, कार्यनीति, वित्तीय रिपोर्ट और विनियामक पर्यावरण जैसे पाठ्यक्रम के चार स्तंभों का सुदृढीकरण किया जा सके। इसका उद्देश्य सेवा-सेक्टर के क्षेत्रों, जिसमें वित्तीय सेवाएं एवं पूंजीगत बाजार शामिल हैं, में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं (आईटीईएस) से बातचीत करके लागत एवं प्रबंधन लेखा सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करना है। नए पाठ्यविषय की वर्ष 2007 के अंत तक शुरू होने की संभावना है। इंस्टीट्यूट ने तीन नए अतिरिक्त योग्यता पश्चात पाठ्यक्रम जैसे प्रणाली लेखा परीक्षा, वित्तीय सेवा एवं मूल्यांकन की भी शुरुआत की है।

##### नई कोचिंग नीति

सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव के बीच अंतर को पाटन के उद्देश्य से नई कोचिंग नीति लागू की गयी थी। तदनुसार विद्यार्थी सामूहिक चर्चाओं/व्यवसाय संप्रेषण सेमिनारों, प्रभागीय प्रशिक्षण और कंप्यूटर प्रशिक्षण स्क्रीमों में भाग ले रहे हैं।

##### परीक्षाएं

जून एवं दिसम्बर, 2006 की परीक्षाएं क्रमशः 18 से 21 जून और 26 से 29 दिसम्बर तक आयोजित की गईं। ये परीक्षाएं 73 अंतर्देशीय एवं 2 विदेशी केन्द्रों पर सुचारु ढंग से कराई गईं। जून, 2006 और दिसम्बर, 2006 की परीक्षाओं के लिए आवेदकों के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं :-

		जून, 06	दिसम्बर, 06
इंटरमीडिएट	एकल चरण	14236	16286
	दोनों चरण	1946	2185
फाइनल	एकल चरण	4275	4453
	दोनों चरण	680	834
फाउंडेशन		2833	4257
कुल		23970	28015

चेयरमैन और परीक्षा समिति के सदस्यों एवं सभी संबंधितों के सक्रिय सहयोग से परीक्षाएं शांतिपूर्वक कराई गईं जिसमें समय-सारणी और कड़े मानकों को बनाए रखा गया। परीक्षा निदेशालय द्वारा सतत एवं वास्तविक प्रयास किए गए थे ताकि विद्यार्थियों को बेहतर एवं शीघ्र सेवाएं दी जा सकें और आंतरिक व्यवस्था को भी ज्यादा सक्रिय बनाया जा सके।

विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र समय से काफी पहले भेजे गए और परीक्षा फलों की घोषणा परीक्षा आरंभ होने के बाद लगभग दो माह के भीतर नियत तारीखों पर की गई। प्रवेश पत्रों और परीक्षाफलों को इंस्टीट्यूट की वेबसाइट [www.mycwai.com](http://www.mycwai.com) पर डाला गया। परीक्षा की समय-सारणी भी वेबसाइट पर डाली गई।

परीक्षा हेतु बेहतर तैयारी को सुकर बनाने के उद्देश्य से विद्यार्थी पत्रिका में प्रत्येक विषय पर विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन के संबंध में परीक्षा निदेशालय ने परीक्षकों एवं मुख्य परीक्षकों की टिप्पणियों का प्रकाशन

करना शरारत किया। इसे वेबसाइट पर भी डाला गया। इसकी विद्यार्थी समुदाय ने भी प्रशंसा की।

वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन जनवरी, 2007 के मध्य में हैदराबाद में हुए राष्ट्रीय लागत सम्मेलन के दौरान किया गया। यह समारोह एक भारी सफलता रही और इसमें सफल पुरस्कार प्राप्त लोग और उनके अभिभावकों ने भारी संख्या में भागीदारी की। सम्मेलन के दौरान भारी संख्या में गणमान्य व्यक्ति और तीनों इंस्टीट्यूटों के अध्यक्ष भी उपस्थित हुए थे।

वर्ष के दौरान, परीक्षा समिति द्वारा आठ बैठकें आयोजित की गईं ताकि विभिन्न परीक्षाओं से जुड़े कार्यों का निपटारा किया जा सके।

परीक्षा केंद्रों की सूची नीचे दी गई है।

#### परीक्षा केंद्र- जून, 2006 तथा दिसंबर, 2006

##### अन्तर्देशीय

पश्चिमी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	उत्तरी क्षेत्र
अहमदाबाद	बंगलौर	अगरतला	इलाहाबाद
औरंगाबाद	चेन्नई	आसनसोल	चंडीगढ़
बड़ौदा	कोयंबटूर	भुवनेश्वर	देहरादून
भिलाई	एर्णाकुलम	बेराहामपुर	दिल्ली (3 केंद्र)
भोपाल	हैदराबाद	बोकारो	फरीदाबाद
बिलासपुर	कोट्टायम	कटक	गाजियाबाद
इन्दौर	मदुरै	धनबाद	हरिद्वार
कल्याण	मंगलौर	दुर्गापुर	जयपुर
कोल्हापुर	मैसूर	गुवाहाटी	जालंधर
मुम्बई (3 केंद्र)	नईवेली	हावड़ा	जम्मू
नागपुर	पांडिचेरी	जमशेदपुर	जोधपुर
नासिक	राजमुंदरी	कोलकाता	कानपुर
पणजी (गोवा)	सलेम	नैहाटी	कोटा
पुणे	तिरुवनंतपुरम	पटना	लखनऊ
सूरत	तिरुचिरापल्ली	रांची	पटियाला
विद्यानगर	तिरुवेलविली	राउरकेला	उदयपुर
	त्रिसुर	शिलांग	
	वेल्लोर		
	विजयवाड़ा		
	वाल्तेयर		

##### विदेशी

	दुबई	मस्कट
--	------	-------

#### सदस्यों की सेवाएं तथा सदस्यों की सुविधाएं

वर्ष के दौरान 633 अभ्यर्थियों को एसोसिएट सदस्यों के रूप में प्रवेश दिया गया और 155 एसोसिएट सदस्यों को फेलो सदस्यों के पद पर पदोन्नत किया गया जबकि पिछले वर्ष के दौरान क्रमशः 659 एसोसिएट सदस्यों को प्रवेश दिया गया था और फेलो सदस्यों के पद पर पदोन्नति की संख्या 147 रही थी। दिनांक 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार, सदस्यों की कुल संख्या 24998 थी जिनमें से 21894 एसोसिएट सदस्य और 3104 फेलो सदस्य हैं जबकि दिनांक

31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार सदस्यों की कुल संख्या 15062 थी जिनमें से 12952 एसोसिएट सदस्य और 2110 फेलो सदस्य थे। प्रैक्टिस कर रहे सदस्यों की संख्या 1477 रही जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 1550 रही थी। वर्ष के दौरान भर्ती के लिए ग्रेजु. सीडब्ल्यू की संख्या 266 रही जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह संख्या 173 रही थी और 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार ग्रेजु. सीडब्ल्यू की कुल संख्या 13893 रही थी।

व्यौर निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं :-

विवरण	एसोसिएट	फेलो	प्रैक्टिस कर रहे सदस्य	ग्रेजु. सीडब्ल्यू
1.4.2006 की स्थिति के अनुसार शुरुआती सं.	12952	2110	1550	13853
जोड़िए: वर्ष के दौरान नए नामांकन	633	155	176	266
जोड़िए: वर्ष के दौरान बहाल	8320	844		
घटाए: वर्ष के दौरान हटाए गए	11	5	249	226
31.3.2007 की स्थिति के अनुसार अंतिम सं.	21894	3104	1477	13893

वर्ष के दौरान, इंस्टीट्यूट के उद्देश्यों के अनुरूप निम्नलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सदस्य सेवा एवं सदस्य सुविधा समिति द्वारा प्रयास किए गए थे :

1. सदस्यता शुल्क की बकाया 88.07 लाख रु. की राशि की वसूली करना।
2. सदस्यों से बकाया राशि वसूलने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया और उन्हें विभिन्न दिशा- निर्देशों की जानकारी उपलब्ध कराई गई, एक पुस्तिका जारी की गई और उस पर अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई।
3. ग्रेजु. सीडब्ल्यू से बकाया राशि वसूलने हेतु इसी तरह का अभियान चलाया गया। अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई और अनेक सदस्यों ने अपनी- अपनी देनदारियों का भुगतान किया।
4. दस्तावेजों की स्कैनिंग करके सदस्यों और ग्रेजु. सीडब्ल्यू के रिकार्ड को डिजिटल बनाया गया।
5. भुगतान सुविधा प्रणाली काफी लोकप्रिय रही जिसमें सदस्य क्रेडिट कार्ड द्वारा इंटरनेट के जरिए विश्वभर में अपने अपने शुल्कों का भुगतान कर सकते हैं।
6. ग्रेजु. सीडब्ल्यू को इंस्टीट्यूट के एसोसिएट सदस्य बनाने हेतु विशेष अभियान चलाया गया।
7. सदस्यता रिकार्ड के कंप्यूटरीकरण कार्य के आगे विकास हेतु कदम उठाए गए। प्रणाली में आगे और विकास करने के कार्यकलाप चल रहे हैं।
8. कागजी काम को कम करने और सदस्यों को ई- मेल का और अधिक प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उनकी पृष्ठताछ का ई- मेल के जरिए त्वरित उत्तर नियमित रूप से दिया जाता है।

सदस्यों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए वेबसाइट को सतत रूप से अद्यतन बनाया जाता है।

9. मौजूदा गतिशील आर्थिक परिदृश्य में व्यावसायिक कार्यकुशलता की अपेक्षाओं को नई कार्यकुशलताओं तथा पहलुओं से स्वयं को सुसज्जित करना चाहिए ताकि चुनौतियों का सामना किया जा सके और व्यवसाय, वाणिज्य तथा उद्योग जगत को अच्छी सेवाएं प्रदान की जा सकें। तदनुसार, प्रेक्टिस करने वाले सदस्यों को अनिवार्य प्रशिक्षण की मौजूदा योजना में संशोधन किया गया है ताकि योजना में लचीलापन लाया जा सके।

10. सदस्यों की सूची और प्रैक्टिस प्रमाण- पत्र धारक सदस्यों की सूची मुद्रित पुस्तिकाओं के अतिरिक्त सीडी में उपलब्ध कराई गई है।

समिति को आशा है कि किए गए उपायों के परिणामस्वरूप सदस्यों को निश्चित रूप से बेहतर सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इस बारे में आगे और सुधार हेतु बहुमूल्य सुझाव मांगे जाते हैं।

#### अनुसंधान

यह इंस्टीट्यूट एक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संगठन (एसआईआरओ) है जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है।

वर्ष के दौरान, देश के विभिन्न जगहों पर इंस्टीट्यूट के अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए बुनियादी सुविधाओं के सृजन करने हेतु व्यापक प्रयास किए गए हैं। आईसीडब्ल्यूआई अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र 84 हरीश मुखर्जी रोड, कोलकाता पर स्थित है, इसे शुरू किया गया है और उपयोगिताओं का आगे और सृजन जल्द ही किया जाएगा। संस्थान के अनुसंधान कार्यक्रमों का मुख्य जोर सरकारी एजेंसियों, मंत्रालयों एवं विनियामकों और संबंधित क्षेत्रों की प्रमुख उद्योग एसोसिएशनों और बाजारी पुरोधाओं द्वारा प्रायोजित प्रायोगिक अनुसंधान परियोजनाओं पर रहा है।

हमने रबड़ आधारित कॉटन एवं स्टील प्रबलित वाहक- पट्टों के लिए प्रमुख लागत अंतर फार्मूले पर अपना अध्ययन पूरा कर लिया है जिसे बाजार के एक प्रमुख उद्यम मै. फिनिक्स- यूल् लि. द्वारा प्रायोजित किया गया था। अमी श्रेष्ठता के लिए उद्योग संबंधी मानकों को निर्धारित करने में और कोरपोरेट बैंचमार्क के लिए काफी मेहनत करनी होगी। भारत के चाय बोर्ड द्वारा प्रायोजित दो बड़ी परियोजनाएं प्रगति पर हैं। एक परियोजना देश में 1600 बड़े बागों की उत्पादन लागत और विकास से जुड़े कार्यक्रमों की लागत के संबंध में है और दूसरी देश के लघु उपजकर्ताओं की उत्पादन लागत और क्रीत पत्ती फैक्टरियों की विनिर्माण लागत के संबंध में है। जब ये परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी तब इनसे देश में उद्योग के मानकों को निर्धारित करने में और चाय बगान एवं चाय उद्योग की वृद्धि एवं समृद्धि के लिए नीतिगत निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। भारत के प्रतिस्पर्धी आयोग ने इंस्टीट्यूट को चाय नीलामी बाजार संबंधी एक परियोजना प्रदान की है। केन्द्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित ई- लर्निंग संबंधी एक परियोजना चल रही थी।

इंस्टीट्यूट ने इन- हाउस परियोजनाएं भी शुरू की हैं जिनमें अनुसंधान निदेशालय की तकनीकी मानवशक्ति का सुदृढीकरण किया जा रहा है। लागत- लाभ और ई- लर्निंग प्रणाली की ज्ञान आधारित उत्पादकता संबंधी परियोजना प्रगति पर है। इंस्टीट्यूट का अनुसंधान बुलेटिन वर्ष में दो बार प्रकाशित किया जाता है जिसका विभिन्न क्षेत्रों

के विशेषज्ञों के सहयोग से दी गई सर्वोत्तम विषय वस्तु के लिए समूचे देश में स्वागत किया गया है।

#### पत्रिका

पत्रिका की व्यावसायिक उपयोगिता में और बढ़ोत्तरी की गयी है और प्रबंधन लेखा व्यवसाय के तीन प्रमुख संघटकों नामतः प्रबंधन, कार्यनीति और लेखा पर ध्यान केन्द्रित किया गया। लागत एवं प्रबंधन लेखाकारों के विशिष्ट क्षेत्रों के अलावा व्यावसायिक रूप से उपयोगी तथा अकादमिक रूप से समृद्ध लेखों तथा उभरते हुए क्षेत्रों में संयोजित करते हुए एक इष्टतम मिश्रण तैयार करने का प्रयास किया गया है। विचारधीन विभिन्न मुद्दों के राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय, दोनों आयामों पर समुचित सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में विधिवत विचार किया गया है। पत्रिका के लेखों, सम्पादकीय, विभिन्न अन्य विशेषताओं तथा सूचनाप्रद पृष्ठों की व्यापक प्रशंसा हुई है। विभिन्न पूछताछों का उत्तर देने तथा पत्रों के परिवर्तन संबंधी अनुरोधों पर कार्यवाही करने के लिए एक पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से पत्रिका की डिलीवरी में व्यापक सुधार आया है। संस्थान की वेबसाइट पर पत्रिका के पत्रों को डलावाने तथा अलग- अलग सदस्यों एवं अंशदाताओं के पत्रा परिवर्तन की नेट समर्थित प्रणाली से स्थिति में और सुधार आया है। पत्रिका का विद्यार्थी संस्करण छात्रोपयोगी मार्गदर्शिका बना हुआ है जो ज्ञान बढ़ाने तथा परीक्षाओं में निष्पादन को सुधारने के लिए अनिवार्य है।

#### आईसीडब्ल्यूआई राष्ट्रीय सम्मेलन, 2007

“ एकसीलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ- अनलॉकिंग वेल्थ बाइ मैनेजमेंट एकाउंटेंट्स ” विषय पर दिनांक 18-20 जनवरी, 2007 के दौरान हैदराबाद में 48वें राष्ट्रीय लागत सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन डा. सी रंगाराजन, चेयरमैन भारत के प्रधानमंत्री के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद् द्वारा किया गया था। सर्वश्री पॉल ए. शर्मन, आईएमए- यूएसए के अध्यक्ष एवं सीईओ और जिम गाउक, उपाध्यक्ष आईएमए- यूएस विदेशी मानद अतिथि थे जिन्होंने सम्मेलन को संबोधित किया। श्री देसायी नासयण राव, केन्द्रीय कोयला राज्य मंत्री ने विदाई समारोह सत्र को संबोधित किया और श्रीलंका की प्रमाणित प्रबंधन लेखाकार सोसायटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। श्री एल. आर. वाटावाला, सोसायटी के अध्यक्ष ने श्रोताओं को संबोधित किया। दिनांक 17.1.2007 को विद्यार्थी सम्मेलन में आईसीडब्ल्यूआई, आईसीएआई और आईसीएसआई के अध्यक्ष मंच पर आए और उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित किया।

#### सतत शिक्षा कार्यक्रम

सतत शिक्षा कार्यक्रम समिति समूचे भारत में और विदेश में अपने विभिन्न प्रबंधन विकास कार्यक्रमों का आयोजन करके प्रत्येक वर्ष भारतीय उद्योग के लगभग 2000 कार्यकारी अधिकारियों को अपने स्रोतों के जरिए ज्ञान का प्रचार करने में एक अहम भूमिका निभा रही है। समिति ने वर्ष के दौरान 60 इन- हाउस और स्वचालित प्रबंधन विकास कार्यक्रमों को आयोजित किया है जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	अवधि	स्थान
1.	उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा	14-16 अप्रैल	लखनऊ
2.	ओआईडीबी के लिए वित्तीय प्रबंधन	17-19 अप्रैल	नई दिल्ली

3.	भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण संबंधी कार्य	21 अप्रैल	नई दिल्ली
4.	एनएससी लि. के लिए गैर- वित्त कार्यकारी हेतु वित्त	6 मई	नई दिल्ली
5.	उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा	26-28 मई	पुणे
6.	आईएसआई कार्यक्रम-छः सिग्मा	23 जून	वेन्नई
7.	उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा	17-19 जून	नई दिल्ली
8.	वित्तीय प्रबंधन	20-23 जून	ऊँटी
9.	कनिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारियों के लिए वित्त	20-23 जून	ऊँटी
10.	एनईए के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा	21-30 जून	नई दिल्ली, मुम्बई
11.	एसजेवीएनएल के इंजीनियरों के लिए लागत	26-28 जून	शिमला
12.	भारत में वर्तमान लागत प्रबंधन प्रणालियाँ	15 जुलाई	नई दिल्ली
13.	नए लेखा मानक एवं आईएफआरएस	17-20 जुलाई	तिरुपति
14.	मानव संसाधन प्रबंधन पर एनईए कार्यक्रम	18-28 जुलाई	नई दिल्ली, मुम्बई
15.	एनजीओ के लिए वित्तीय प्रबंधन	27-28 जुलाई	नई दिल्ली
16.	प्रबंधकों के लिए मूल वित्त दक्षता पर ओएनजीसी कार्यक्रम	3-7 जुलाई	नई दिल्ली
17.	सेवा कर, वैट, टीडीएस और एफबीटी	6-7 जुलाई	नई दिल्ली
18.	राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स के लिए अध्ययन	जुलाई-अगस्त	जोधपुर
19.	कॉरपोरेट कर योजना	2-4 अगस्त	हैदराबाद
20.	लेखा वियोजन, मीटरिंग और बिलिंग शुद्धता एवं अन्य अनुपालनों पर ट्राई के विनियमन	3-4 अगस्त	नई दिल्ली
21.	एमएमटीसी लि. के गैर- वित्त कार्यकारियों के लिए वित्त	10-11 अगस्त	नई दिल्ली
22.	ठेका प्रबंधन	28-29 अगस्त	नई दिल्ली
23.	वित्त, कीमत और लेखा प्रणाली पर विद्युत क्षेत्र के लिए गहन कार्यक्रम	28-20 अगस्त	नई दिल्ली
24.	कराधान पर इस्कॉन कार्यक्रम	3-5 अगस्त	गुडगांव

25.	अग्रिम कर, टीडीएस और एफबीटी	12-14 सितम्बर	नई दिल्ली
26.	कॉरपोरेट वित्त में उभरते मुद्दे	18-20 सितम्बर	पुणे
27.	आंतरिक लेखा परीक्षा	9-12 अक्टूबर	गोवा
28.	कनिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारियों और गैर- कार्यकारियों के लिए वित्त	9-12 अक्टूबर	गोवा
29.	विदेशी मुद्रा और परियोजना मूल्यांकन पर इस्कॉन कार्यक्रम	12-14 अक्टूबर	नई दिल्ली
30.	सेवा कर, वैट, टीडीएस और एफबीटी	31 अक्टू- 3 नव.	पुणेचरी
31.	वित्त जोखिम प्रबंधन पर डीपीई कार्यक्रम	31 अक्टू- 3 नव.	पुणेचरी
32.	कॉरपोरेट वित्त	7-10 नवम्बर	दार्जिलिंग
33.	भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक	13-16 नवम्बर	ऊँटी
34.	पर्यटन मंत्रालय के लिए परियोजना मूल्यांकन	17-19 नवम्बर	नई दिल्ली
35.	कार्यनीतिक वित्तीय प्रबंधन	22 नव- 2 दिस.	सिगापुर, बैंगकॉक तथा क्वालालम्पुर
36.	लागत नियंत्रण एवं लागत कारगरता	5-7 दिसम्बर	चेन्नई
37.	अधिवासिकी हेतु योजना बनाने पर ओएनजीसी कार्यक्रम	13-15 दिसम्बर	देहरादून
38.	विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन	13-15 दिसम्बर	नई दिल्ली
39.	संगठनात्मक बजट पर ओएनजीसी कार्यक्रम (कैपेक्स और ओपेक्स)	18-22 दिसम्बर	नई दिल्ली
40.	अग्रिम कर, टीडीएस और एफबीटी	19-22 दिसम्बर	भुवनेश्वर
41.	कनिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारियों और गैर- कार्यकारियों के लिए वित्त	19-22 दिसम्बर	भुवनेश्वर
42.	सतर्कता अधिकारियों के लिए वित्त एवं लेखा परीक्षा	27-29 दिसम्बर	नई दिल्ली
43.	इष्टतम निष्पादन एवं प्रबंधन लेखा परीक्षा	3-5 जनवरी	कोलकाता
44.	ईआरपी और कल • का वित्त एवं नियंत्रण, मॉड्यूल	8 जन- 28 फरवरी	नई दिल्ली
45.	अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक और आईएफआरएस	16-19 जनवरी	काठमांडू

46.	हुडको के लिए कराधान	24-25 जनवरी	नई दिल्ली
47.	वित्तीय प्रबंधन में नवीनतम प्रवृत्तियाँ	29-31 जनवरी	हैदराबाद
48.	कॉरपोरेट लेखा नीतियाँ, विधियाँ एवं प्रणालियाँ	30 जन. - 2 फर.	पुडुचेरी
49.	प्रबंधकों के लिए मूल वित्त दक्षता पर ओएनजीसी कार्यक्रम	5-9 फरवरी	नई दिल्ली
50.	भारतीय नौसेना के लिए लागत प्रबंधन कार्यक्रम	19-23 फरवरी	नई दिल्ली
51.	डाक विभाग के लिए लागत क्रियाविधि	12-14 फरवरी	नई दिल्ली
52.	एनईए के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा	14-25 मार्च	दिल्ली एवं मुम्बई
53.	प्रतिस्पर्धा अधिनियम एमसी-21 और सेवाकर	6-7 मई	कोलकाता
54.	उच्च लाभ हेतु लागत प्रबंधन	2-3 जून	गुवाहाटी
55.	उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा	9-11 जून	कोलकाता
56.	अप्रत्यक्ष कराधान, एफबीटी सीमाशुल्क और एकिज्म नीति	15-16 अक्तूबर	कोलकाता
57.	वैट और ठेका प्रबंधन	3 नवम्बर	कोलकाता
58.	लागत नियंत्रण और सीएआरआर (दिल्ली कार्यालय कार्यक्रम) पर ओएनजीसी कार्यक्रम	13-16 नवम्बर	कोलकाता
59.	कंपनी अधिनियम एवं अधिनियम के निर्गमन पर लागत एवं प्रबंधन लेखों की भूमिका	12 जनवरी	कोलकाता
60.	बजट 2007 की तुलना में अप्रत्यक्ष कराधान में लागत एवं प्रबंधन लेखाकारों की संभावित भूमिका	27 मार्च	कोलकाता

समिति ने नई दिल्ली और मुम्बई स्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमांडू, नेपाल के कार्यकारी अधिकारियों के लिए प्रभावी प्रबंधन नियंत्रण हेतु आंतरिक लेखा परीक्षा पर एक अनन्य कार्यक्रम का आयोजन किया। भागीदारों को क्लास रूम में हुए सत्रों के अलावा व्यवहार्य जानकारी देने के लिए विभिन्न विद्युत संयंत्रों पर ले जाया गया। अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के लिए इन कार्यक्रमों को विगत दो वर्षों से नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा है।

समिति ने विदेशी फैंकल्टी के सदस्यों और विदेशी संस्थानों की सहायता से तकरीबन पिछले दस वर्षों से सिंगापुर, कुआलालम्पुर और बैंकॉक में प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस वर्ष उपरोक्त स्थानों पर एक अनन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का

आयोजन किया गया है। सिंगापुर और कुआलालम्पुर की अंतर्राष्ट्रीय फैंकल्टी ने इन सत्रों का संचालन किया। कुआलालम्पुर स्थित मलेशियन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक एकाउंट्स के अध्यक्ष और काउंसिल के सदस्यों के साथ एक विशेष विचार विनिमय सत्र का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रतिनिधियों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और सभी ने इसकी सराहना की।

भारतीय सांख्यिकी संस्थान के साथ मिलकर पहली बार सिक्स सिगमा- ग्रीन बैल्ट- ब्लैक बैल्ट के एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे अपार सफलता मिली। इंस्टीट्यूट ने रियायती शुल्कों पर ओरेकल इंडिया (प्रा.) लि. के प्रशिक्षण केन्द्र पर सदस्यों के लिए ईआरपी- वित्त एवं नियंत्रण मोड्यूल पर एक अनन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण और अन्य सेवा प्रदाताओं से ली गई फैंकल्टी की सहायता से दूरसंचार के अधिकारियों के लाभार्थ ट्राई के लेखा नियोजन, मीटरिंग और बिलिंग यथातथ्यता और अन्य मीटरिंग और बिलिंग यथातथ्यता और अन्य अनुपालन पर एक अनन्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परियोजना मूल्यांकन पर पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक अन्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।

डाक विभाग, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए लागत क्रियाविधि पर एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डाक विभाग की इच्छानुसार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के लाभार्थ विभिन्न क्षेत्रों में इस विषय पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विद्युत क्षेत्र के वित्त, कीमत एवं लेखों पर एक अनन्य गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्युत कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बढ़-चढ़ कर भाग लिया गया।

सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्यमों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, बीमा कंपनियों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं सरकारी विभागों के वित्त एवं अन्य क्षेत्रों के कनिष्ठ, मध्यम एवं वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रबंधन विकास कार्यक्रमों में भाग लिया गया। ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लि., ओएनजीसी लि., नेपाल विद्युत प्राधिकरण, इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, आवास एवं शहरी विकास निगम लि., डाक विभाग, भारत सरकार, भारतीय नौसेना, भारत सरकार, सतलुज जल विद्युत निगम लि. और एमएमटीसी लि. के लिए इन-हाउस कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

समिति अगले वर्ष के दौरान समूचे देश के विभिन्न स्थानों पर लगभग 75 इन-हाउस एवं स्वचालित कार्यक्रमों को आयोजित करने की योजना बना रही है ताकि विभिन्न क्षेत्रों के अधिकारियों के ज्ञान को अद्यतन बनाया जा सके। अधिकांश संगठनों के साथ उनके अधिकारियों के लिए ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित किए जाने पर पहले से ही बातचीत चल रही है।

#### व्यावसायिक विकास (तकनीकी)

वर्ष के दौरान, सदस्यों के लिए व्यावसायिक अवसर विकसित करने हेतु निम्नलिखित व्यावसायिक विकास कार्यक्रमलाप किए गए :-

1. सेवा कर के निर्धारण पर मार्गदर्शी टिप्पणी तैयार की गई और इसे वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया ताकि सेवा से संबद्ध सैद्धांतिक लागत के मूल्यांकन के लिए अपनाई जाने वाली सेवा मूल्य एवं लागत प्रणाली के निर्धारण में आई लागत के महत्व को स्थापित किया जा सके।

2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 14क के तहत लागत लेखाकारों को सेवा कर की लेखा परीक्षा हेतु अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए श्री एम. जयरामन, अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड को अभ्यावेदन दिया गया।

3. लेखाकारों की परिभाषा में लागत लेखाकारों को जोड़ने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन हेतु श्री पी. चिंदंबरम, माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार को अभ्यावेदन दिया गया।

4. निम्नलिखित उपबंध करने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 में संशोधन करने का प्रस्ताव कंपनी कार्य मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए :-

(i) कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट के प्रयोजनार्थ लागत लेखाकारों द्वारा स्टॉक के मूल्य का प्रमाणीकरण।

(ii) सही-सही खण्डवार रिपोर्टिंग के प्रयोजनार्थ सामान्य व्यय/परिसम्पत्तियों के आबंटन के लिए अनिवार्य लागत लेखा प्रणाली।

(iii) संबद्ध पक्षकार के लेन-देन के मामले में लागत-लेखाकारों द्वारा उचित हस्तांतरण कीमत-निर्धारण को अपनाने संबंधी प्रमाण पत्र।

5. दिनांक 2.2.2007 को माननीय कंपनी कार्य मंत्री की सलाह पर दिल्ली में “लागत लेखा परीक्षा-आगे की राह” पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया ताकि उद्योग, सरकार, उपभोक्ता, हितबद्ध पक्षकार इत्यादि जैसे लागत-लेखा परीक्षा के उपयोक्ताओं के साथ परस्पर बातचीत की जा सके और इसे विश्वसनीय मानकीकृत लागत आंकड़ों के आधार पर अधिक प्रभावी तंत्र की तरह प्रस्तुत किया जा सके और इसकी उपयोगिता में सुधार लाया जा सके। इस सेमिनार द्वारा कॉरपोरेट क्षेत्र, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों, उपभोक्ता कोरम इत्यादि को लागत लेखा परीक्षा के उपयोग पर काफी अच्छी निविष्टियाँ एवं सहायता प्रदान की गई।

6. श्री सी. के. सरीफ, निदेशक (वित्त), ओएनजीसी विदेश लि. की अध्यक्षता में पुरस्कार निर्णायक समिति द्वारा लागत प्रबंधन, 2006 में राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कारों से संबंधित प्रश्नावली की समीक्षा की गई और इसमें अच्छा सुधार हो सकता है। पुरस्कार विजेताओं का चयन करने हेतु माननीय न्यायमूर्ति श्री जे. एस. वर्मा की अध्यक्षता में एक जूरी का गठन किया गया। जूरी की बैठक दिनांक 1.3.2007 को हुई जिसमें बह निर्णय लिया गया कि मूल्यांकन रकीम की समग्र समीक्षा की जाएगी।

7. श्री चंद्र वधवा की अध्यक्षता में कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा गठित कार्यकारी समूह की रिपोर्ट, जिसमें कॉरपोरेट मूल्यांककों के लिए संस्थागत ढांचे पर सुझाव था, प्रस्तुत की गई और इस रिपोर्ट को मंत्रालय द्वारा काफी सराहा गया था। रिपोर्ट में भारत में विकासशील

विशेषीकृत कॉरपोरेट मूल्यांकक व्यावसायिकों के लिए एक ढांचे का प्रस्ताव किया गया और यह सिफारिश की गई कि इंस्टीट्यूट के तीन सदस्यों-आईसीडब्ल्यूआई, आईसीएआई और आईसीएसआई को कॉरपोरेट मूल्यांकक व्यावसायिकों के रूप में पंजीकृत करने के प्रयोजनार्थ मान्यता दी जा सकती है।

8. लागत रिकार्डों के रख-रखाव के प्रयोजनार्थ ईआरपी प्रणाली/एमआईएस से आंकड़ों के आसान संग्रहण में अधिक लोचशीलता दिए जाने के उद्देश्य से श्री एम. एल. मेहता, पूर्व अतिरिक्त मुख्य सलाहकार (लागत) द्वारा लागत लेखा रिकार्ड (सामान्य) नियमों पर एक मसौदा तैयार किया गया।

9. श्री के. जी. गोयल, समिति के चेयरमैन, श्री के. नरसिम्हा मूर्ति, प्रेक्टिसिंग लागत लेखाकार और अन्य सदस्यों द्वारा मुम्बई स्थित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों और वित्त, बैंकिंग मंत्रालय, भारत सरकार के राज्य मंत्री के समक्ष लागत लेखा रिकार्ड (बैंकिंग) नियमों के मसौदे को प्रस्तुत किया गया। आईसीआई और वित्त मंत्रालय दोनों का बैंकिंग क्षेत्र में लागत लेखा रिकार्ड नियमों की उपयोगिता के बारे में सकारात्मक रुख था।

#### लागत लेखा मानक बोर्ड

कार्टिसिल ने आर्म्स लेथ कीमत-निर्धारण पर सीएस 6 को अनुमोदित किया।

#### डब्ल्यूटीओ एवं अंतर्राष्ट्रीय मामले

डब्ल्यूटीओ के तहत सेवाओं में व्यापार संबंधी भारतीय एवं ब्रिटिश लेखा व्यावसायिकों के बीच संबंधों के सुधार में बेहतर सहयोग देने के लिए इंस्टीट्यूट ने भारत-यूके लेखांकन कार्यबल की कई बैठकों में प्रतिनिधित्व किया। श्री चंद्र वधवा, समिति के चेयरमैन ने दोनों देशों के बीच लेखा क्षेत्रों में व्यापार संबंधी लागत लेखाकारों के लिए अवसर बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। इंस्टीट्यूट ने यूके, यूएसए, कनाडा इत्यादि जैसे विकसित देशों के व्यावसायिक निकायों के साथ एमआरए के लिए बातचीत की प्रक्रिया अपनाई है। इंस्टीट्यूट ने मॉरिशस, सिंगापुर, कोरिया और अन्य देशों के साथ भी लेखा क्षेत्र में व्यापार में वार्ता प्रक्रिया में भाग लिया है।

#### कंपनी कार्य मंत्रालय

1. **ई-फाइलिंग :-** कंपनी कार्य मंत्रालय ने एक बड़ी ई-गवर्नेंस पहल की शुरुआत की है जिसे एमसीए-21 परियोजना के नाम से जाना जाता है। एमसीए-21 का महत्वपूर्ण संघटक यह है कि यह कंपनी अधिनियम, 1956 और इसके तहत बने नियम एवं विनियमों के तहत विभिन्न फार्मों और आवेदनों की ई-फाइलिंग को सुकर बनाता है। आईसीडब्ल्यूआई ई-फार्मों को अंतिम रूप देने हेतु कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा गठित समिति का एक तकनीकी सदस्य है। समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सफलतापूर्वक प्रस्तुत कर दी है।

2. **कार्यकारी समूह :-** कंपनी कार्य मंत्रालय ने कार्यकारी समूह का गठन किया है ताकि फार्म 8 के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले प्रभार लिखत पर सुझाव प्रस्तुत किए जा सकें। आईसीडब्ल्यूआई कार्यकारी समूह का सदस्य था। समिति ने फार्म-8 में परिवर्तनों को सफलतापूर्वक सुझाया है और सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।



**3. समन्वय समिति की बैठक :** - दिनांक 22 अगस्त, 2006 को आईसीडब्ल्यूआई भवन, नई दिल्ली-110003 में आईसीडब्ल्यूआई-आईसीएआई-आईसीएसआई समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता श्री धनन्जय वी जोशी, अध्यक्ष, आईसीडब्ल्यूआई द्वारा की गई जिसमें श्री टी. एन. मनोहरन, अध्यक्ष, आईसीएआई, श्री एच एम चौरसिया, अध्यक्ष, आईसीएसआई ने भाग लिया। श्री चंद्र वधवा, उपाध्यक्ष, आईसीडब्ल्यूआई, श्री राकेश सिंह, सीसीएम-आईसीडब्ल्यूआई, श्री के. जी. गोयल, सीसीएम-आईसीडब्ल्यूआई और आईसीएआई एवं आईसीएसआई की केन्द्रीय काउंसिल के कुछ सदस्यों ने भी इस बैठक में भाग लिया। भारत में लेखों के व्यावसायिकों की क्षमताओं का सुदृढीकरण करने हेतु तीनों इंस्टीट्यूटों के सदस्यों के साथ आम सहमति बनाने के लिए कई कदम उठाए गए ताकि डब्ल्यूटीओ के तहत लेखा क्षेत्र को खोलने के लिए चुनौतियों का सामना किया जा सके। बैठक में संयुक्त व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों के आयोजन, सामान्य संसाधनों की आपसी भागीदारी और बुनियादी सुविधाओं पर विचार-विमर्श किए गए।

दिनांक 7 मई, 2007 को आईसीएआई, आईसीएसआई भवन, इन्द्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली- 2 पर आईसीएआई-आईसीडब्ल्यूआई-आईसीएसआई समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। श्री सुनील तलटी, अध्यक्ष आईसीएआई ने बैठक की अध्यक्षता की। श्री डी वी जोशी, अध्यक्ष, आईसीडब्ल्यूआई, श्री के. जी. गोयल, सीसीएम-आईसीडब्ल्यूआई, श्री राकेश सिंह, सीसीएम-आईसीडब्ल्यूआई, श्रीमती प्रीति मल्होत्रा, अध्यक्ष आईसीएसआई और आईसीएआई एवं आईसीएसआई की केन्द्रीय काउंसिल के अन्य सदस्यों और तीनों इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ इन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया :- एमसीए द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की स्थापना करना, कॉरपोरेट मूल्यांकनों पर पाठ्यक्रम, पहले से ही विनिर्दिष्ट नियमों का जायजा लेना और संशोधित अधिनियमों के तहत बनाए जाने वाले विनियमन, बहु-सिद्धान्तों में साझेदारी और एलएलपी को बनाने से संबंधित नीति, तीनों इंस्टीट्यूटों द्वारा संयुक्त कार्यक्रमों के आयोजन की रूपरेखा; क्रेडिट अवधि की स्वीकृति इत्यादि।

**4. वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति को ज्ञापन एवं मौखिक अनुरोध प्रस्तुत करना :-** इंस्टीट्यूट ने सीमित देयता साझेदारी विधेयक, 2006 जिसे दिनांक 15 दिसम्बर, 2006 को राज्य सभा में पेश किया गया था, प्रस्तुत किया। ज्ञापन में विधेयक की धारा 11(1)(ग) में लागत लेखाकर के नाम को शामिल करने का अनुरोध किया गया था। हमारे द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन के आधार पर संसदीय स्थायी समिति ने इंस्टीट्यूट से दिनांक 27 जून, 2007 को उनके समक्ष मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा था। तदनुसार, श्री धनन्जय वी जोशी, अध्यक्ष और श्री चंद्र वधवा, उपाध्यक्ष ने मौखिक साक्ष्य दिए। श्री ए. पी. कैर, वरिष्ठ निदेशक (तकनीकी) और श्री एस. भास्कर, उप सचिव ने तकनीकी दिशा निर्देश एवं निविष्टियाँ प्रदान कीं।

#### क्षेत्रीय परिषदें और स्कंध समन्वय समिति

48वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान, स्कंध की बैठक दिनांक 17.1.2007 को आंध्र प्रदेश वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल परिसर, हैदराबाद में हुई। उक्त बैठक की अध्यक्षता श्री प्रावकर मोहंती, समिति के चेयरमैन ने की और सर्वश्री धनन्जय वी जोशी, अध्यक्ष, चंद्र वधवा, उपाध्यक्ष और केन्द्रीय परिषद के अन्य सदस्यों ने इस बैठक में भाग लिया। इसमें क्षेत्रों और स्कंधों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए और इंस्टीट्यूट के

व्यावसायिक विकास के विभिन्न मामलों के संबंध में रचनात्मक विचारों का आदान-प्रदान किया गया। वर्ष के दौरान प्रशंसनीय कार्य निष्पादन के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित स्कंधों को मनोपाधि तथा पट्टिका प्रदान की गई :-

क्षेत्र का नाम	स्कंध का नाम
डब्ल्यूआईआरसी	नागपुर, बड़ौदा और भिलाई
एसआईआरसी	बंगलौर, विजयवाड़ा और उदकुनगरम
एनआईआरसी	जयपुर, लखनऊ और जालंधर
ईआईआरसी	कटक, भुवनेश्वर, आसनसोल तथा रांची

#### पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद (डब्ल्यूआईआरसी)

डब्ल्यूआईआरसी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्यकलाप किए :-

(1) डब्ल्यूआईआरसी प्रत्येक माह समाचार बुलेटिन प्रकाशित करता है जिसमें क्षेत्र तथा इसके स्कंधों द्वारा किए गए कार्यकलाप एवं सूचना शामिल होते हैं। इसके सात लर्निंग केन्द्र हैं। मुख्यालय में फाउंडेशन, इंटर और फाइनल के लिए नामांकित विद्यार्थियों की संख्या 1605 थी। विद्यार्थियों और फैकल्टी के बीच बेहतर और निरंतर संपर्क बनाने के उद्देश्य से समन्वय समिति में दो विद्यार्थी प्रतिनिधियों को नामांकित किया।

(2) संस्थान द्वारा नए शुरू किए गए कार्यक्रम, सामूहिक विचार-विमर्श और व्यवसाय सम्मेलन सेमिनार मौखिक/डाक द्वारा प्रशिक्षण पाने वाले विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर, 2006 और अप्रैल, 2007 को आयोजित किए गए। मौखिक/डाक द्वारा प्रशिक्षण पाने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रभागीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन अक्टूबर, 2006 और मई, 2007 में किया गया। परिषद ने अक्टूबर, 2006 और मई, 2007 में लागत एवं प्रबंधन लेखा, व्यवसाय कराधान, प्रबंधन लेखा एवं निष्पादन प्रबंधन और उन्नत वित्त लेखा जैसे विषयों पर दिसम्बर, 2006 और जून, 2007 की इंटरमीडिएट स्टेज I और II की परीक्षाओं के लिए विद्यार्थी, हेतु मुफ्त पुनश्चर्या व्याख्यान कराए। सीएमए श्रीमती वर्षा पैडसे, श्री परेश रावल, सीएमए एमबी अष्टमकर और श्री सुरेश धूत फैकल्टी सदस्य थे। पत्राचार पाठ्यक्रम के तहत 3022 विद्यार्थियों को नामांकित किया गया था। सीएमए पी. बी. भट्ट, चेयरमैन, विद्यार्थी, सदस्य एवं स्कंध समन्वय समिति ने डाक द्वारा प्रशिक्षण पाने वाले विद्यार्थियों के लिए सेवाओं में सुधार लाने हेतु काफी प्रयास किए।

(3) मौखिक एवं डाक कोचिंग केन्द्रों पर पढ़ा रहे फैकल्टी सदस्यों की बैठक दिनांक 25.11.2006 को आयोजित हुई। सीएमए डा. एन. एम. वचलेकर, चेयरमैन ने फैकल्टी सदस्यों का स्वागत किया और कोचिंग की गुणवत्ता में आगे और सुधार लाने के लिए किए गए कार्यकलापों की रेखांकित किया। सीएमए संजय भार्गव, माननीय सचिव एवं कोषाध्यक्ष और सीएमए अश्विन डलवाड़ी पूर्व चेयरमैन ने फैकल्टी सदस्यों को संबोधित किया। सीएमए संजय भार्गव ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

(4) दिनांक 10.2.2007 को मौखिक एवं डाक द्वारा कोचिंग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएमए धनन्जय वी. जोशी, अध्यक्ष ने इस आयोजन का उद्घाटन किया। डा. सदानन्द दाते, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, मुम्बई और इंस्टीट्यूट के ग्रेजु. सदस्य मुख्य अतिथि थे। सीएमए डा. (श्रीमती) अंजली भावे माननीय अतिथि थीं। सीएमए संजय भार्गव और सीएमए अश्विन डलवाड़ी भी उपस्थित थे। इस आयोजन में गत वर्ष की

परीक्षाओं के मेधावी विद्यार्थियों को बढ़ाई भी दी गई। मुम्बई स्थित तीन केंद्रों पर परीक्षाएं सुचारु रूप से सम्पन्न हुईं।

(5) इंटरमीडिएट और फाइनल के विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया गया। 964 विद्यार्थियों ने प्रशिक्षण लिया। कंप्यूटर लैब नवीनतम सॉफ्टवेयर से सुसज्जित कराई गई और कंप्यूटरों के हार्डवेयर का उन्नयन किया गया। बैबसाइट को नियमित रूप से अद्यतन बनाया गया। विद्यार्थियों के लिए साइट के जरिए सेमिनारों/सीईपी हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उपलब्ध कराया गया। इसकी उपयोगिता में आगे और सुधार लाने हेतु सुझावों/टिप्पणियों के लिए अनुरोध किया गया। पुस्तकालय सुविधाओं से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और सदस्यों को लाभ हुआ है। जनवरी, 2007 से डब्ल्यूआईआरसी ने विद्यार्थियों और सदस्यों के संदर्भ के लिए अलग-अलग विदेशी एवं अंतर्देशीय पत्रिकाएं मंगाई हैं। पुस्तकालय सुविधाएं सभी लर्निंग केंद्रों में प्रदान की जा रही है।

(6) डब्ल्यूआईआरसी के पास विद्यार्थियों के लाभ के लिए कई प्रकार की रोजगार स्कीमें हैं। नियोजन संबंधी सेवाओं के जरिए बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को रोजगार मिला है। इस क्षेत्रीय परिषद के संपर्क में आने वाले प्रतिष्ठित संगठनों की सूची नीचे दी गई है :-

एपीडब्ल्यू प्रेजीडेंट सिस्टम लि., आशापुरा माइनकैम लि., वॉमर लॉरी कं. लि., भारत सिरम्स एंड वैकसींस लि., बीएचईएल, बिरला सन लाइफ लि., बीएसएन मैडिकल्स प्रा. लि., कैडबरी इंडिया लि., सिप्ला लि., कोरोमंडल फटीलाइजर लि., एमरकॉन (इंडिया) लि., इमरसन लि., मोर्स मोटर्स लि., गैमन इंडिया लि., गोल्डस्टार ज्वेलरी लि., हाकिन्स कुकर्स लि., हिन्डाल्को इंडस्ट्रीज लि., हिन्दुस्तान लिबर लि., इसैग्रो (एशिया) एग्रोकमिकल्स प्रा. लि., इस्पात इंडस्ट्रीज लि., कैनसाई नैरोलेक पैटर्स लि., कुमार बिल्डर्स लि., लोक स्मिथ इंडस्ट्रीज प्रा. लि., माइक्रो इक्स लि., मौर्या ग्लोबल लि., निकोलस पिरामल (इंडिया) लि., निर्मल लाइफस्टाइल लि., आरपीडी लाइफ साइंसेज लि., शैल ल्यूब्रीकैंट्स लि., विदेश संचार निगम लि.।

(7) कन्वेंसिस, एचसीसी लि., इस्पात इंडस्ट्रीज लि., कुमार बिल्डर्स, महाराष्ट्र इकोनोमिक डेवलपमेंट काउंसिल, निक्वेलस पिरामल इंडिया लि., ओनिडा-एमआईआरसी इलेक्ट्रॉनिक्स लि. आदि जैसे कई प्रमुख संगठनों ने बैबसाइट पर भी अपनी जरूरत संबंधित जानकारी दी है। यूके बैंक ने दिनांक 7.2.2007 को जुनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्कूल-। में जनरलिस्ट अधिकारी के पद के लिए अपनी विभिन्न शाखाओं में गए विद्यार्थियों की भर्ती करने हेतु कैम्पस साक्षात्कार किए। मैसर्स महिन्द्रा एंड महिन्द्रा फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी दिनांक 9.4.2007 को कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों के चयन हेतु कैम्पस साक्षात्कार किए हैं।

(8) प्रैक्टिस कर रहे और आम सदस्यों के लाभ के लिए सीईपी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जो इस प्रकार हैं :-

दिनांक	विषय	वक्ता
30.09.2006	व्यवसाय योजना पर एकीकृत दृष्टिकोण	सीएमए ए. एन. चौकसे
07.10.2006	कार्यनीतिक प्रबंधन	सीएमए गिरीश जखोतिया
28.10.2006	पूँजी बाजार	श्री प्रकाश गावा
11.11.2006	निर्यात वित्त	सीएमए देबाशीष मित्रा

25.11.2006	अद्यतन अप्रत्यक्ष कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर	सीएमए संजय भार्गव
26.11.2006	अद्यतन अप्रत्यक्ष कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर (थाणे में)	सीएमए संजय भार्गव और सीएमए ए. बी. नवल
02.12.2006	आपूर्ति शृंखला प्रबंधन के जरिए लागत कम करना	सीएमए प्रो. अनिल चौबाल
09.12.2006	एसईजेड और ईओयू-उभरते मुद्दे	सीएमए ए. बी. नवल
10.12.2006	अद्यतन अप्रत्यक्ष कर-फ्रिज बेनिफिट कर और एसईजेड (अहमदाबाद)	सीएमए ए. बी. नवल, सीएमए संजय भार्गव, सीएसी चिताले
22.12.2006	विशेष आर्थिक जोन-भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए उत्प्रेरक	सीएमए ए. बी. नवल, सीएमए मनोज बहेड़े, सीए श्रीमती मोनिका जोशी
06.01.2007	विदेशी मुद्रा में नवीनतम प्रवृत्तियाँ	श्री प्रकाश पठे
13.01.2007	बौद्धिक संपदा अधिकार	श्री संजय निफडकर प्रेक्टिसिंग कम्पनी सचिव
17.02.2007	क्षेत्रीय लागत सम्मेलन विशेष आर्थिक जोन, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर (इंदौर)	सीएमए वी. एस. दत्ते, सीएमए ए. वी. नवल, सीएमए संजय भार्गव
28.04.2007	लागत प्रतिस्पर्धा के कार्यनीतिक एवं संचालनात्मक पहलू	पीसीए श्री प्रदीप पाठक
23.06.2007	संतुलित स्कोर कार्ड-परामर्श के उभरते क्षेत्र-रियल लाइफ सीम्युलेशन	सीएमए आर एन भवे

(9) दिनांक 22.12.2006 को सदस्यों की एक बैठक आयोजित की गई। सीएमए धनन्जय वी. जोशी, अध्यक्ष, मुख्य अतिथि थे और सीएमए चंद्र वधवा, उपाध्यक्ष माननीय अतिथि थे। सीएमए डा. एन. एम. वचलेकर और सीएमए संजय आर. भार्गव भी उपस्थित थे। पूर्व अध्यक्ष सीएमए पी. डी. फडके और सीएमए वी वी देवधर ने भी उक्त बैठक में भाग लिया। पूर्व चेयरमैन सीएमए अजीत एन पटेल, सीएमए जी. आर. कुलकर्णी सीएमए एस. आर. काले सीएमए एन. एस. आचार्य, सीएमए वाई. आर. जोशी और सीएमए एस. आर. रे ने इस आयोजन की शोभा बढ़ाई। सीएमए डा. एन. एम. वचलेकर ने पिछले तीन वर्षों के कार्यकालों के बारे में एक संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण किया। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर आयोजित सीईपी कार्यक्रमों के बारे में संक्षेप में बताया। सीएमए धनन्जय जोशी, अध्यक्ष ने इंस्टीट्यूट के विभिन्न कार्यकालों के बारे में एक आकर्षक एवं सूचनाप्रद प्रस्तुतीकरण किया। सीएमए चंद्र वधवा, उपाध्यक्ष ने भी कई मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। सीएमए डा. एन. एम. वचलेकर, सीएमए धनन्जय वी जोशी, अध्यक्ष और सीएमए चंद्र वधवा, उपाध्यक्ष द्वारा दिए गए

प्रस्तुतीकरण को काफी सराहा गया। इस बैठक में नव निर्वाचित अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और सीएमए डा. एन. एम. वचलेकर का अभिनंदन किया गया। पूर्व अध्यक्षों और पूर्व चेयरमैनो एवं वरिष्ठ सदस्यों को भी बधाई दी गई।

(10) दिनांक 18.5.2007 को सदस्यों एवं प्रैक्टिशनरों की एक बैठक का आयोजन किया गया। सीएमए बी. बी. गोयल, सलाहकार लागत, कोरपोरेट मामला विभाग, मुख्य अतिथि थे। सीएमए धनन्जय जोशी, अध्यक्ष माननीय अतिथि थे। सीएमए श्रीमती अरुणा सोमैन, सदस्य द्वारा स्वागत भाषण दिया गया। सीएमए बी. बी. गोयल, मुख्य अतिथि ने उनके प्रश्नों के उत्तर दिए और सदस्यों और प्रैक्टिस कर रहे सदस्यों को सलाह दी कि वे व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए अपने को दक्ष बनाएं।

(11) सीएमए धनन्जय जोशी ने “ सीमित देयता साझेदारी अधिनियम ” और “ मूल्यांकनों की परिषद ” पर एक प्रस्तुतीकरण किया। उन्होंने सदस्यों को सूचित किया कि विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक अवसरों में पर्याप्त वृद्धि हुई है और सदस्यों को इन क्षेत्रों में विशेषता हासिल करनी चाहिए। इस बैठक में बड़ी संख्या में सदस्यों ने भाग लिया।

(12) इंदौर- देवास स्क्व ने दिनांक 17.02.2007 को विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर पर क्षेत्रीय लागत सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का उद्घाटन श्री अरविंद सिंह, आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क इंदौर द्वारा किया गया था। सीएमए धनन्जय वी. जोशी, अध्यक्ष, माननीय अतिथि थे। श्री अरविंद सिंह, आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि एसईजेड की अवधारणा का एक बहुत बड़ा महत्व है और वर्तमान परिदृश्य में इसकी काफी उपयोगिता है लेकिन इसके कार्यान्वयन में मुश्किलें आ रही हैं। सीएमए धनन्जय वी. जोशी, अध्यक्ष की भी राय यह थी कि एसईजेड की अवधारणा के कार्यान्वयन में कई समस्याएं आ रही हैं। सीएमए वी. एस. दाते, सीएमए संजय भार्गव, सीएमए अश्विन जी. दलवाडी, सीएमए ए. बी. नवल, सीएमए एस. जी. नरसिंहन, सीएमए राजेश शुक्ला और वी. के. महाजन सम्मेलन में प्रमुख वक्ता थे। उसी दिन स्क्वों की बैठक और सदस्यों की भी बैठक की व्यवस्था की गई थी।

(13) खादी कार्यक्रम एवं निगरानी निदेशालय, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग, महाराष्ट्र ने डब्ल्यूआईआरसी को अपने पाँच अलग-अलग स्थानों पर 8- कताई चरखा एवं कर्धों की लागत का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन कराने का कार्य सौंपा है। निदेशालय ने प्रायोगिक अनुसंधान अध्ययन परियोजना- वर्ष के दौरान मौजूदा खादी लागत चार्ट तंत्र के अध्ययन की तुलना में लागत सिद्धांत का कार्य भी सौंपा था और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई थी। खादी आयोग ने अल्प समय के भीतर किए गए कार्यों की सराहना की। सीएमए संजय भार्गव परियोजना के मुख्य समन्वयक थे आई जी मिंट, भारत सरकार ने इस क्षेत्रीय परिषद को एक परियोजना नामतः “ सिस्कोरिटी प्रीटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि., इकाई : भारत सरकार, मिंट- मुम्बई के लिए प्रायोगिक अनुसंधान परियोजना ” का कार्य सौंपा है ताकि मिंट द्वारा किए गए विभिन्न कार्यक्रमों की लागत का पता लगाने हेतु वैज्ञानिक आधार पर अपनाई जाने वाली लागत की प्रणाली को सरलीकृत करने में अपने सुझाव दिए जा सकें एवं इसका विकास किया जा सके। यह परियोजना पूर्ण हो चुकी है और अंतिम

रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। सीएमए डा. एन. एम. वचलेकर ने इस परियोजना का समन्वय किया था।

(14) रिलायंस इण्डस्ट्रीज लि. के अधिकारियों के लिए जामनगर पेट्रोलियम परिसर में “ रिलायंस प्रमाणित लेखाकार ” पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किया गया था। सीएमए अश्विन जी. दलवाडी, मुख्य समन्वयक थे और सीएमए पी. डी. मोघ, चेयरमैन, अहमदाबाद स्क्व ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में भरसक प्रयास किए। दिनांक 17 से 21 जुलाई, 2006 तक भारत सरकार, आई जी मिंट अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया जिसमें वित्तीय लेखा, लागत लेखा, कंपनी कानून और अन्य वाणिज्यिक कानूनों, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कराधान, लेखांकन प्रणाली में परिवर्तन जैसे एकल प्रविष्टि प्रणाली से दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में परिवर्तन जैसे विषय शामिल किए गए थे। सीएमए धनन्जय जोशी, अध्यक्ष, सीएमए वी. सी. कोठारी, सीसीएम और सीएमए संजय भार्गव ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के भरसक प्रयास किए थे। दिनांक 29.3.2007 को सीएमए धनन्जय वी. जोशी अध्यक्ष द्वारा आईपीसीएल लि. के कर्मचारियों के लिए दो वर्षीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित विषय थे :- लागत एवं प्रबंधन लेख, वित्तीय लेखा, कोरपोरेट कानून, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कराधान इत्यादि।

#### दक्षिण भारत क्षेत्रीय परिषद (एसआईआरसी)

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एसआईआरसी द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए :-

(1) “ आर्थिक वृद्धि का संवर्धन- अनलाकिंग वेल्यू बाई मैनेजमेंट एकाउंटेंट्स ” विषय पर 18 से 20 जनवरी, 2007 के बीच हैदराबाद में 48वाँ राष्ट्रीय लागत सम्मेलन आयोजित किया गया। उद्घाटन सत्र में श्री पॉल ए. शर्मन, अध्यक्ष/सीईओ, आईएमए, यूएसए द्वारा मुख्य भाषण दिया गया और डॉ. सी. रंगराजन, चेयरमैन, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति द्वारा उद्घाटन भाषण दिया गया। पूर्ण सत्र में श्री बी. रमेश कुमार, सीएमडी, एनएमडीसी अध्यक्ष थे और श्री ई. सुधीर रेड्डी, सीएमडी, आई. वी. आर. सी. एल. इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड प्रोजेक्ट लि. और श्री वी. श्रीनिवास, सीएफओ, सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेज लि. ने प्रतिनिधियों को संबोधित किया। डॉ. सुदर्शन पदम, प्रोफेसर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टॉफ कॉलेज ने तकनीकी सत्र 1ए की अध्यक्षता की जिसमें लाइफ साइकल इवैल्यूएशन एंड बिजनेस मॉडल्स और प्रबंधन लेखों के बारे में विचार विमर्श किए गए। सुश्री इंदु लिब्राहन, प्रो. सलाहकार (एफए एवं एफए), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने सत्र 1बी की अध्यक्षता की जिसमें श्री ए. एन. रमन, प्रबंधन परामर्शदाता ने प्रबंधन लेखा इंटरफेस पर प्रस्तुतीकरण किया। श्री के. आर. लक्ष्मीनारायणा, सीएफओ, विप्रो टेक्नोलॉजिज तकनीकी सत्र II के अध्यक्ष थे जिसमें श्री एम. नरसिम्हा राव, इंफोसिस टेक्नोलॉजिज लि. और डा. एन. कंदन, अध्यक्ष, एस. क्यू. एल. स्टार इंटरनेशनल लि. ने क्रमशः सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं पर प्रस्तुतीकरण किया। तकनीकी सत्र III की अध्यक्षता सर्व श्री एम. गोपालाकृष्णन ने की जहाँ ए. एस. दुर्गा प्रसाद, सीसीएम और जिम ग्राउका, वी पी (आईबीडी), आईएनए- यूएसए, ने लाइफ साइकल इवैल्यूएशन एंड बिजनेस मॉडल पर प्रस्तुतीकरण किया। श्री के. वी. बालासुब्रमणियन, एमडी, इंडियन इन्सुलोलोजिकल लि. ने तकनीकी सत्र IV की अध्यक्षता की जहाँ

लाइफ साइकल, बिजनेस मॉडल और प्रबंधन लेखा इंटरफेस पर प्रस्तुतीकरण किया गया। सीईओ के मंच पर, जिसकी अध्यक्षता श्री वी. जे. नारायणन, व्यवसाय प्रशासन के कनिष्ठ प्रोफेसर, हावर्ड बिजनेस स्कूल ने की, मुख्य वक्ताओं ने लक्ष्य लागत, कार्यपालक आधारित लागत प्रबंधन, ईआरपी कार्यान्वयन और लागत प्रबंधन के लिए संसाधन आधारित सक्रिय कार्यनीति पर अपने अनुभवों का आदान-प्रदान किया। विदाई-समारोह सत्र में श्री स्टीव वेग, अध्यक्ष एवं सीईओ, सीआईएमए, कनाडा गणपति सुब्रमणियन ने स्मारक व्याख्यान दिया। प्रो. एल. आर. वाटावाला, अध्यक्ष, सीएमए श्रीलंका ने भी प्रतिनिधियों को संबोधित किया। श्री देसारी नारायण राव, कोयला राज्य मंत्री, भारत सरकार मुख्य अतिथि थे।

(2) क्षेत्रीय लागत सम्मेलन जिसका आयोजन 23 से 24 मार्च, 2007 को प्रबंधन लेखाकरण के जरिए उद्योग उत्कृष्टता एवं मूल्य सृजन संबंधी कौयम्बटूर स्कंध द्वारा किया गया, जिसका उद्घाटन श्री डी. बालासुंदरम, अध्यक्ष, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडली द्वारा किया गया। श्री एस. महालिंगम, मुख्य वित्तीय अधिकारी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने मुख्य भाषण दिया। श्री धनन्जय वी. जोशी, अध्यक्ष ने अध्यक्षीय भाषण दिया। इससे पहले, श्री जे. श्रीधर, चेयरमैन, सम्मेलन समिति, ने प्रतिष्ठित लोगों का स्वागत किया। परिपूर्ण सत्र के दौरान सर्वश्री ए. वेकटेशन, वी.-पी. आई. टी., प्रीनकोल लि., टी. जी. धंधापाणी, सीआईओ, सुंदरम क्लेटन ग्रुप और सुशील बैद, सीएफओ, मैल्को लि. ने उद्योग उत्कृष्टता और मूल्य सृजन पर विचार व्यक्त किए और अपने-अपने दृष्टिकोण रखे। तीन तकनीकी सत्र हुए। विदाई-समारोह सत्र में सर्वश्री ए. वेलियनगिरी, मुख्य अतिथि थे और वी. कल्याणरमन, पूर्व अध्यक्ष, आईसीडब्ल्यूआई और एसएफए, अतिथि वक्ता थे। श्री के. आर. सुब्रमणियन, स्कंध के सचिव, ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

(3) पिछली वार्षिक आम बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसार प्रसिद्ध व्यक्तियों की याद में स्मारक व्याख्यान कराने के लिए एक न्यास निधि, गणपति सुब्रमणियन स्मारक निधि का सृजन किया गया और प्रायोजकों द्वारा 5 लाख रूपए की न्यूनतम राशि का अंशदान किया गया। पहला स्मारक व्याख्यान श्री स्टीव वेग, अध्यक्ष एवं सीईओ, सीएमए, कनाडा द्वारा दिनांक 20.1.2007 को दिया गया।

(4) दिनांक 29.4.2006 को सदस्यों की एक बैठक का आयोजन किया गया। श्री आर. नारायणन, चेयरमैन ने सदस्यों एवं उनके परिवार वालों का स्वागत किया। विद्यार्थियों, सदस्यों एवं उनके बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। टेलिविजन कलाकार “बोसकी” और श्री “आभास्वरम” मुख्य अतिथि थे और उन्होंने भागीदारों को इनाम बांटे। बैठक के दौरान चेन्नई के कनिष्ठ सदस्यों को सम्मान दिया गया।

(5) श्री गोपाल श्रीनिवासन, संयुक्त प्रबंध निदेशक, सुंदरम क्लेटन लि. द्वारा दिनांक 25.9.2006 को नवनिर्मित प्रबंधन हॉल का उद्घाटन किया गया। अपने भाव प्रवण संबोधन में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संस्थान का नाम बदलकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एवं मैनेजमेंट एकाउंट्स रखा जा सकता है। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में सदस्यों ने भागीदारी की।

(6) दिनांक 9 से 10 मार्च, 2007 को कॉरपोरेट गवर्नेंस पर्यावरण के तहत प्रबंधन लेखा प्रणाली पर “लागत कर्नीवल” शीर्षक पर दो

दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कर्नीवल में कॉरपोरेट और प्रेक्टिसिंग सदस्यों ने भागीदारी की।

(7) दिनांक 24.6.2007 को एमसीए-21, लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट (संशोधन) नियम, 2006 और वेट पर एक प्रेक्टिशनर बैठक का आयोजन किया गया। श्री नारायणस्वामी, इस व्यवसाय के सदस्य ने एमसीए-21 के विभिन्न मुद्दों का विस्तार से बताया। श्री एम. गोपालकृष्णन, सीसीएम ने लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट (संशोधन) नियम, 2006 के बारे में स्पष्टीकरण दिया। दिनांक 28.9.2006 को प्रेक्टिसिंग लागत एवं प्रबंधन एसोसिएशन के साथ संयुक्त रूप से एक अन्य बैठक का आयोजन किया गया। श्री धनन्जय वी. जोशी, अध्यक्ष और श्री चंद्र वधवा, उपाध्यक्ष ने बैठक में भागीदारी की। श्री एस. गोपालन, पूर्व चेयरमैन और अध्यक्ष, एपीसीएम ने प्रेक्टिसिंग सदस्यों को संबोधित किया।

(8) आईसीडब्ल्यूआई, आईसीएसआई और आईसीआई की दक्षिण भारतीय औषधि परिषदों ने दिनांक 2.9.2006 को एमसीए-21 पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का संयुक्त रूप से आयोजन किया जिसका उद्घाटन क्षेत्रीय निदेशक, कंपनी लॉ बोर्ड द्वारा किया गया था। इससे पहले श्री एस. विरायियम, उप-चेयरमैन, आईसीएसआई की एसआईआईसी ने अतिथियों और वक्ताओं का स्वागत किया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के प्रतिनिधियों ने प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया। तीन व्यावसायिक संस्थानों के सदस्यों ने भी इस कार्यक्रम में भागीदारी की। दिनांक 15.4.2006 को एमसीए-21 और लागत लेखा रिपोर्ट (संशोधन) नियम, 2006 पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन श्री ए. वी. रमणराव पूर्व-अध्यक्ष द्वारा किया गया। दिनांक 24.5.2006 को अप्रत्यक्ष कराधान पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को दो तकनीकी सत्रों में बांटा गया था। एसआईआईसी और उत्कृष्टता केन्द्र आईसीडब्ल्यूआई ने दिनांक 26-27 मई, 2006 को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पर एक दो दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार का उद्घाटन श्री एस. एन. बालाकृष्णन, आयुक्त-सह-अपर सीमाशुल्क महानिदेशक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर लेखा परीक्षा द्वारा किया गया। दो दिवसीय सेमिनार को चार तकनीकी सत्रों में बांटा गया। तकरीबन 25 प्रेक्टिसिंग सदस्यों ने सेमिनार में भाग लिया और तकनीकी सत्रों को सर्वोत्कृष्ट बताया गया।

(9) उत्कृष्टता केन्द्र, चेन्नई और भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कौयम्बटूर ने 23.6.2006 से 15.8.2006 तक “सिक्स सिगमा- ग्रीन बेल्ट” पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जिसका उद्घाटन डा. आर. रामारत्नम, प्रबंधन निदेशक, डालमिया इलेक्ट्रोड्राइन टेक्नोलॉजिज (प्रा.) लि. द्वारा किया गया। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के प्रो. ए. राजागोपालन ने कार्यक्रम की विशेषताओं के बारे में बताया।

(10) दिनांक 27.6.2006 को कॉरपोरेट कराधान पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। श्री एन. श्रीनिवासन, पूर्व चेयरमैन, डब्ल्यूआईआईसी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। दिनांक 15.7.2006 को पुडुचेरी स्कंध के साथ संयुक्त रूप से मिलकर एमसीए-21, टीडीएस और सेवा कर पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सर्वश्री वी. गोपालकृष्णन, स्कंध के चेयरमैन ने पदाधिकारियों का स्वागत किया और एस हरी कृष्णन, सचिव ने मूल विषय के बारे में बताया। श्री एम. गोपालकृष्णन, सीसीएम ने मुख्य भाषण दिया। सेमिनार को चार तकनीकी सत्रों में बांटा गया। दिनांक 3.11.2006

को निर्यात-आयात क्रियाविधियों और एसईजेड पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया और इसको दो तकनीकी सत्रों में बांटा गया। दिनांक 27-28 नवम्बर, 2006 को अप्रत्यक्ष कराधान-चरण-1 पर चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को दो चरणों में बांटा गया। पहला सत्र “केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम” पर था जिसका संचालन श्री पी. रवीन्द्रन, अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा किया गया। दूसरा सत्र केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सैनवेट के तहत मूल्यांकन नियमों पर था जिसका संचालन श्री एन. विश्वनाथन, वकील एवं परामर्शदाता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, ने किया था। कार्यक्रम का दूसरा दिन सीमाशुल्क अधिनियम पर केन्द्रित था। श्री ए. एस. हरि कुमार, सहायक निदेशक-लागत, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग ने सत्रों का संचालन किया। 7 से 9 दिसम्बर, 2006 को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पर तीन दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का पहला दिन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम पर आधारित था और सत्र का दूसरा और तीसरा दिन सेवा कर, केन्द्रीय बिक्री कर, वैट और धारा 14क/14कक के तहत विशेष लेखा परीक्षा पर केन्द्रित था। अप्रत्यक्ष कर पर कार्यक्रम का दूसरा चरण 8 से 9 दिसम्बर, 2006 को आयोजित किया गया था। पहले दिन का प्रशिक्षण सेवा कर पर केन्द्रित था और दूसरे दिन का प्रशिक्षण केन्द्रीय बिक्री कर, वैट और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के तहत विशेष लेखा परीक्षा पर केन्द्रित था। दिनांक 21.12.2006 को वैट पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया जिसे तीन सत्रों में बांटा गया था। पहले पैनल और बाद में तकनीकी सत्रों में विचार-विमर्श किए गए। उद्योग से आए 35 से भी ज्यादा प्रतिनिधियों और प्रेक्टिसनरों ने इस सेमिनार में भाग लिया।

(11) दिनांक 4-5 जनवरी, 2007 को गैर-वित्त कार्यकारी अधिकारियों के लिए वित्त संबंधी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिनांक 6.1.2007 को प्रेक्टिसनरों के लिए वैट पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार को चार तकनीकी सत्रों में बांटा गया - वैट-एक पर्यावलोकन, टीएन वैट दिशा निर्देश-प्रक्रियात्मक पहलू, फार्म और टीएन वैट एफ ए क्यू और टी एन वैट की मुख्य-मुख्य विशेषताएं/तकनीकी सत्र के बाद पैनल विचार विमर्श किए गए। दिनांक 31 जनवरी से 3 फरवरी, 2007 तक दक्षिण रेलवे के कार्यकारी अधिकारियों के लिए अप्रत्यक्ष कराधान पर 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन श्री एस. विजयराघवन, एफए एंड सीएओ, दक्षिण रेलवे द्वारा किया गया। श्री एन. जयचंद्रन एफ.ए. और सी.ए.ओ. दक्षिण रेलवे ने भी भागीदारों को संबोधित किया। अप्रत्यक्ष कराधान के प्रेक्टिसिंग व्यावसायिकों ने सत्रों के लिए उत्कृष्ट फीडबैक दिया। समापन समारोह के दौरान सुश्री सुजाता जयराज और डा. एस राम मोहन, एसफए एंड सीएओ, दक्षिण रेलवे ने समापन संबोधन किया और इंस्टीट्यूट की अच्छी व्यवस्था के लिए उनकी सराहना की और उनके अधिकारियों के लाभ के लिए ऐसे और अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का आश्वासन दिया।

(12) दिनांक 17.3.2007 को बीपीओ क्षेत्र में वित्त प्रबंधन एवं प्रबंधन लेखा के परिप्रेक्ष्य में एक अनन्य सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का उद्घाटन श्री श्रीनिवास गोपालन, सीईओ, लिस्टर टेक्नोलॉजिज प्रा. लि. द्वारा किया गया। श्री आर. नारायणन चेयरमैन, पी. डी. समिति ने वक्ताओं का परिचय कराया। यह सेमिनार पाँच सत्रों में बाँटा गया था- बीपीओ पर लागू होने वाले लेखा मानक, बीपीओ के हस्तांतरण कीमत-निर्धारण मुद्दे, बीपीओ क्षेत्र पर लागू होने

वाले कार्यकलाप आधारित लागत ढांचा, बीपीओ क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन ढांचा और बीपीओ क्षेत्र में कार्यनीतिक प्रबंधन मुद्दे। श्री डीएलएस श्रेष्ठि, चेयरमैन ने धन्यवाद ज्ञापित किया। बीपीओ कंपनियों के एक प्रतिनिधियों ने काफी रुचि दिखायी और सुविचारित कार्यक्रम के लिए इंस्टीट्यूट की सराहना की।

(13) वर्ष के दौरान आयोजित अन्य व्यावसायिक विकास बैठकों के ब्यौरों में आयोजित वित्तीय बाजार विश्लेषण, सेवाकर, कंटाई मिलों के लागत प्रबंधन में चालू प्रवृत्तियाँ, गुणवत्ता प्रमाण पत्र और व्यवहार में लागत लेखाकारों की भूमिका, लेखा मानक-एक अद्यतन स्थिति, वस्त्र विनिर्माण उद्योग में कार्यनीतिक लागत प्रबंधन, ईआरपी और व्यापार आसूचना के साधन-लागत लेखाकारों के लिए वैश्विक अवसर, प्रतिस्पर्धी के साथ लागत प्रबंधन, वैट, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक, बौद्धिक संपदा अधिकार, कनाडा में व्यावसायिकों के लिए अवसर सीमित देयता साझेदारी, फेमा-नवीनतम प्रवृत्तियाँ, पेपर मिलों में लागत प्रबंधन, सूचना का अधिकार अधिनियम-मूल्यांकन कार्यक्रम, कॉरपोरेट सिनर्जी, शॉप फ्लोर लागत पहलू, जोखिम प्रबंधन, व्यवसाय नीति, बीपीओ उद्योग में लागत निर्धारण, तमिलनाडु में वैट-कार्यान्वयन पश्चात् परिदृश्य कोर बैंकिंग की अवधारणा और केन्द्रीय बजट पर विचार-विमर्श जैसे विषय शामिल हैं।

#### पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद (ईआईआरसी)

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ईआईआरसी ने निम्नलिखित कार्यकलाप किए :-

(1) दिनांक 15.7.2006 को टीडीएस और विदेश व्यापार पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। श्री मृत्युन्जय आचार्य, प्रबंधक-कराधान, बॉमर लॉरी एंड कंपनी लि. ने टीडीएस पर विचार व्यक्त किए और श्री पी. के. घोष, सहायक महानिदेशक, विदेश व्यापार ने विदेश व्यापार पर भाषण दिया। सदस्यों ने अच्छी संख्या में इस कार्यशाला में भाग लिया।

(2) दिनांक 14.8.2006 को कुशल एवं अर्द्ध-कुशल लागत लेखाकारों के लिए एक कैम्पस साक्षात्कार का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन श्री सुदर्शन रॉय चौधरी, उच्च शिक्षा मंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किया गया। लगभग 200 उम्मीदवार इस कार्यक्रम में शामिल हुए और 16 कंपनियों ने भागीदारी की।

(3) दिनांक 01.09.2006 को चेयरमैन और सचिवों की समन्वय समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया। भिन्न-भिन्न मुद्दों पर बनी आम सहमति के विचारार्थ हेतु केन्द्रीय परिषद को प्रस्तुत किया गया। दिनांक 01.09.2006 को उपभोक्ताओं की संतुष्टि और आईसीडब्ल्यूआई पर आईएसओ 9001-2000 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें श्री एस. एन. पाइने, पूर्व चेयरमैन, वक्ता थे।

(4) दिनांक 19.9.2006 को एक प्रतिनिधिमण्डल, जिसमें चेयरमैन और वरिष्ठ सदस्य शामिल थे, ने आयुक्त, वाणिज्यिक कर, पश्चिम बंगाल से मुलाकात की और वैट अधिनियम, 2003 और इसके अंतर्गत बने नियमों के तहत लागत लेखाकारों को बराबर का दर्जा देने की अनुति प्रदान करने का अनुरोध किया। आयुक्त ने प्रतिनिधिमण्डल को आश्वासन दिया कि अधिनियम में संशोधन के लिए कदम उठाए जाएंगे। दिनांक 21.10.2006 को व्यावसायिक मामलों और इंस्टीट्यूट के नाम में परिवर्तन को लेकर चेयरमैन, सचिव और वरिष्ठ सदस्यों के

एक प्रतिनिधिमण्डल ने श्री अजय चक्रवर्ती, संसद सदस्य से मुलाकात की। लागत लेखा परीक्षा का औचित्य नाम में परिवर्तन को लेकर दिनांक 22.10.2006 को एक ऐसा प्रतिनिधिमण्डल श्री रूपचंद पाल, संसद सदस्य से मिला।

(5) दिनांक 27.10.2006 को चेयरमैन ने श्री सी आर चट्टोपाध्याय, पूर्व चेयरमैन के साथ श्री वासुदेव बनर्जी, चेयरमैन, चाय बोर्ड से भेंट की और लागत लेखा परीक्षा के तहत ज्यादा कंपनियों को शामिल करने के बारे में विचार-विमर्श किए गए ताकि चाय बोर्ड के आंतरिक लेखा-परीक्षा और प्रमाणन कार्यों के लिए प्रेक्टिसिंग सदस्यों की सेवाओं को भी उपयोग में लाया जा सके। उसी दिन, उन्होंने स्टॉक लेखा परीक्षा, जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा एवं बैंकों की समवर्ती लेखा परीक्षा के क्षेत्रों में सदस्यों की भूमिका के बारे में विचार-विमर्श किए।

(6) दिनांक 27.10.2006 को 146वीं मौखिक कोचिंग का उद्घाटन किया गया। सर्वश्री ए. के. बासु, चेयरमैन, टायर कॉरपोरेशन, सुब्रत घोष, जीएम (क्षेत्रीय सेवाएं), इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हरिजीवन बैनर्जी और अमल कुमार दास, पूर्व अध्यक्ष, सीआर चट्टोपाध्याय, पूर्व चेयरमैन और बिरवरूप बासु, क्षेत्रीय परिषद सदस्य उपस्थित थे और उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित किया। श्री एस. सी. मोहन्ती, चेयरमैन ने बैठक की अध्यक्षता की।

(7) लागत लेखा रिकॉर्ड (खनन एवं धातु विज्ञान) नियम, 2001 के तहत लागत लेखा परीक्षा हेतु भारत सरकार के लिए खनन, प्रसंस्करण, उत्पादन और विनिर्माण में लगी कंपनियों के नामों की सिफारिश करने के लिए श्री एस. सी. मोहन्ती ने दिनांक 4.11.2006 और 12.11.2006 को क्रमशः आयुक्त-सह-सचिव, इस्पात एवं खान विभाग और खान निदेशक, उड़ीसा सरकार से भेंट की।

(8) दिनांक 11.11.2006 को व्यावसायिक कर और फ्रिज बेनिफिट टैक्स पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। सर्वश्री एम. के. मंडल, अतिरिक्त आयुक्त, व्यावसायिक कर, पश्चिम बंगाल सरकार और अनिर्बाण, पुरकायस्थ, सहायक आयुक्त और पीआरओ, व्यावसायिक कर, पश्चिम बंगाल सरकार ने व्यावसायिक कर पर भाषण दिया जबकि श्री मृत्युंजय आचार्य, प्रबंधक, बॉमर लॉरी एंड कंपनी ने फ्रिज बेनिफिट टैक्स पर विचार व्यक्त किए। दिनांक 17.11.2006 को चेयरमैन और सचिव पश्चिम ने बंगाल विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष से भेंट की और विभिन्न व्यावसायिक मामलों पर विचार-विमर्श किए। दिनांक 25.11.2006 को चेयरमैन ने उड़ीसा विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष से भी मुलाकात की जिन्होंने लागत एवं प्रबंधन लेखाकारों के लिए उड़ीसा के विद्युत क्षेत्र के उद्योगों के लिए लागत लेखा परीक्षा के आदेश हेतु सरकार के पास प्रस्ताव भेजने का आश्वासन दिया।

(9) दिनांक 25, 26.11.2006 को विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के लिए एक आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पश्चिम बंगाल के विभिन्न विश्वविद्यालयों से 62 व्यक्तियों ने भागीदारी की। श्री गौतम भट्टाचार्य, संयुक्त सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। नेताजी सुभाष खुला विश्वविद्यालय, कोलकाता ने इंस्टीट्यूट के योग्य सदस्यों को विश्वविद्यालय में पीएचडी कार्यक्रम में शामिल सदस्यों के बराबर मानने पर विचार करने का फैसला लिया है बशर्ते उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए।

(10) दिनांक 10.12.2006 को कुशल/अर्द्ध-कुशल विद्यार्थियों के लिए ईआईआरसी ने आसनसोल स्कंध के साथ एक कैम्पस साक्षात्कार का आयोजन किया।

(11) दिनांक 23-24 दिसम्बर 2006 को "प्रबंधन लेखाकारों-उत्कृष्टता की चाह में" विषय पर 28वां क्षेत्रीय लागत सम्मेलन का आयोजन किया गया। श्री पी. एस. शोमि, प्रधानमंत्री के मुख्य वित्तीय सलाहकार ने सर्वश्री ए. के. महापात्रा, उद्योगपति; पी. एस. भट्टाचार्य, कोल इंडिया लि. के चेयरमैन और पी. मोहन्ती, पूर्व अध्यक्ष और सीसीएम की उपस्थिति में सम्मेलन का उद्घाटन किया विभिन्न क्षेत्रों के ख्यातिप्राप्त वक्ताओं ने भिन्न-भिन्न विषयों पर विचार व्यक्त किए।

(12) दिनांक 7.1.2007 को व्यवसाय और इंस्टीट्यूट से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर स्कंधों की एक बैठक का आयोजन किया गया। चेयरमैन ने दक्खि सदस्यों के साथ आयुक्त, वाणिज्यिक कर से भेंट की और पश्चिम बंगाल वैट अधिनियम के तहत लेखा परीक्षा/प्रमाणन के प्रावधानों के अधीन चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के साथ-साथ लागत लेखाकारों को अवसर प्रदान करने हेतु दूसरा ज्ञापन प्रस्तुत किया। कई अभ्यावेदनों के पश्चात सरकार ने अधिनियम के तहत लागत लेखाकारों को समान अवसर प्रदान करने की अनुमति दे दी है।

(13) दिनांक 28.1.2007 को मौखिक कोचिंग के 147वें सत्र का उद्घाटन किया गया जिसमें अन्य गणमान्य व्यक्तियों और वर्तमान एवं पूर्व पदाधिकारियों के साथ श्री प्रवाकर मोहन्ती, पूर्व अध्यक्ष और सीसीएम ने जन-समूह को संबोधित किया।

(14) दिनांक 28.1.2007 को कॉरपोरेट प्रबंधन की खासियत पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें अन्य गणमान्य व्यक्तियों और वर्तमान एवं पूर्व पदाधिकारियों के साथ श्री प्रवाकर मोहन्ती, पूर्व अध्यक्ष एवं सीसीएम प्रेरणा स्रोत थे। पटना स्कंध के अनुरोध पर चेयरमैन ने 29 से 31 जनवरी, 2007 के दौरान पटना का दौरा किया और स्कंध के लिए भूमि एवं शेष लेखा परीक्षा हेतु बिहार के वैट अधिनियम के तहत लागत लेखाकारों को शामिल करने, खनन/विद्युत उद्योगों के लिए लागत लेखा परीक्षा और बिहार के विश्वविद्यालयों द्वारा फाइनल परीक्षाओं के बराबरी की स्वीकृति से जुड़े भिन्न-भिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। दिनांक 30.1.2007 को चेयरमैन ने विद्यार्थियों और सदस्यों को संबोधित किया।

(15) 24.6.2007 को लेखा मानक और लागत लेखा मानक पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें वरिष्ठ सदस्यों ने भागीदारी की। दिनांक 24.3.2007 को प्रत्यक्ष कर एवं सेवा कर पर केन्द्रीय बजट 2007 के प्रभाव पर एक अन्य कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमें कुछेक गणमान्य व्यक्तियों ने उक्त विषय पर विचार व्यक्त किए।

(16) दिनांक 19.4.2007 को मौखिक कोचिंग के 148वें सत्र का उद्घाटन किया गया जिसमें श्री एस. बैनर्जी, उपाध्यक्ष, गिल्लेंडर्स अर्बुधनॉट एंड कं., मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर अन्य वरिष्ठ फैकल्टी भी उपस्थित थे।

**उत्तर भारत क्षेत्रीय परिषद (एनआईआरसी)**

एनआईआरसी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्यकलाप किए :-

(1) एनआईआरसी ने दिनांक 15.8.2006 को आईसीडब्ल्यूआई भवन, नई दिल्ली में 60वें स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया और राष्ट्रीय गीत गाया गया। सर्वश्री जे. के. पुरी, पूर्व अध्यक्ष, राकेश सिंह, सीसीएम, चंद्र वधवा उपाध्यक्ष ने इस अवसर पर उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सर्वश्री हरी कृष्ण गोयल, चेयरमैन, डी. सी. आर्य, उप- चेयरमैन, अतुल कुमार गुप्ता और यू. के. शुक्ला, सदस्य भी उपस्थित थे। श्री हरी कृष्ण गोयल ने भागीदारों को बधाई दी।

(2) व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने हेतु दिनांक 1 अगस्त, 2006 से 15 दिनों के लिए 11वां प्रभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 100 से ज्यादा विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। दिनांक 25.8.2006 को “ बौद्धिक संपदा अधिकारों के औचित्य ” पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। श्री अजय साहनी, एक वरिष्ठ पेशेवर वकील, ने सार्थक विचार व्यक्त किए। श्री संजय गुप्ता, सचिव ने सदस्यों का स्वागत किया। सर्वश्री डी. वी. जोशी, अध्यक्ष और के. जी. गोयल, सीसीएम ने भी सेमिनार में भाग लिया। श्री डी. वी. जोशी ने व्यवसाय के विकास पर एक लघु भाषण दिया। श्री एच. के. गोयल ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

(3) दिनांक 17.11.2006 को एमसीए-21 पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। श्री राजेन्द्र कपूर, एफसीएस सुविख्यात प्रवक्ता थे। सर्वश्री संजय गुप्ता, अतुल कुमार गुप्ता, यू. के. शुक्ला और राजेन्द्र कपूर ने पॉवर पॉइंट प्रस्तुतीकरण की सहायता से एमसीए-21 के पहलुओं की व्याख्या की।

(4) सामाजिक एवं मनोरंजन के मोर्चे पर दृष्टि बनाए रखने के उद्देश्य से दिनांक 28.12.2006 को नव वर्ष पार्टी का आयोजन किया गया था। श्री एच. के. गोयल ने श्री जे. के. पुरी, पूर्व अध्यक्ष और मुख्य सलाहकार (लागत) का स्वागत किया। सर्वश्री चन्द्र वधवा, उपाध्यक्ष, राकेश सिंह और के. जी. गोयल, सीसीएम ने इस समारोह में भागीदारी की। अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

(5) दिनांक 22.1.2007 को व्यक्तित्व विकास एवं हाव- भाव पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। विख्यात वक्ता श्री रवीश भटेजा थे। श्री भटेजा ने पॉवर पॉइंट प्रस्तुतीकरण की सहायता से व्यक्तित्व विकास के पहलुओं की पूर्ण रूप से व्याख्या की। अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

(6) मुख्य सलाहकार (लागत), भारत सरकार के पद से सेवानिवृत्ति के अवसर पर दिनांक 4.2.2007 को श्री जे. के. पुरी के सम्मान में एक विदाई पार्टी का आयोजन किया गया था। अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। सर्वश्री चंद्र वधवा, उपाध्यक्ष, राकेश सिंह और के. जी. गोयल, सीसीएम, आर. जे. गोयल, डी. सी. बजाज और के. एल. जयसिंह, पूर्व अध्यक्ष, सुभाष अग्रवाल, पूर्व चेयरमैन और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी उपस्थित थे।

(7) दिनांक 1.2.2007 से 16.2.2007 तक 15 दिनों के लिए 12वें प्रभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और दिनांक 18.2.2007 से 5.3.2007 तक तीसरे सत्र का आयोजन किया गया।

श्री मृदुल टंडन, वरिष्ठ अधिकारी ने अपनी उपस्थिति से इस अवसर की शोभा बढ़ाई।

(8) दिनांक 6.4.2007 को एक कैम्पस साक्षात्कार का आयोजन किया गया। मै. अभिषेक इंडस्ट्रीज लि. आगंतुक उद्योग था। सहायक प्रबंधक एवं उप- प्रबंधक के पद की जरूरत थी।

(9) दिनांक 17.3.2007 को फरीदाबाद स्कंध ने एनआईआरसी के साथ संयुक्त रूप से मिलकर कार्यकलाप आधारित लागत एवं सेवा कर पर एक पूर्ण दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। श्री आर. के. तनेजा, कार्यकारी निदेशक (वित्त), एनएचपीसी लि. मुख्य अतिथि थे। श्री अतुल कुमार गुप्ता, पूर्व चेयरमैन ने भी प्रतिनिधियों को संबोधित किया। सर्वश्री जे. के. पुरी और के. एल. जयसिंह, पूर्व अध्यक्ष, श्री चंद्र वधवा, उपाध्यक्ष, श्री राकेश सिंह, सीसीएम एवं अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

(10) दिनांक 2-3 जून, 2007 को एनआईआरसी ने तीसरे शिक्षा मेला- सह- सेमिनार में भागीदारी की। यह एक बड़ा आयोजन था जिसमें 100 से ज्यादा प्रबंधनों एवं व्यावसायिक संस्थानों ने भागीदारी की।

(11) दिनांक 15.6.2007 को वित्त अधिनियम पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। श्री बृजेश ग्रोवर, वरिष्ठ प्रबंधक- वाणिज्यिक अतिथि वक्ता थे। इस सेमिनार में बड़ी संख्या में सदस्यों ने भागीदारी की। दिनांक 23.06.2007 को सीमित देयता साझेदारी पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। श्री आशीष मरवीजा, एफआईसीडब्ल्यूए, एफसीए, अतिथि वक्ता थे।

(12) एनआईआरसी ने संभावित नियोक्ताओं की मानव संसाधन संबंधी आवश्यकताओं को सुस्पष्ट करने में सहायता की और तदनुसार विभिन्न संगठनों में औद्योगिक प्रशिक्षण एवं अंतिम नियोजन के लिए इंटर/फाइनल उत्तीर्ण विद्यार्थियों के नामों की सिफारिश की। एनआईआरसी ने विद्यार्थियों के लिए विभिन्न उच्चतर माध्यमिक स्कूलों/कालेजों में कैरियर काउंसेलिंग एवं कैरियर संबंधी मेलों का भी आयोजन किया।

(13) दिनांक 2.10.2006 को इलाहाबाद स्कंध परिसर में गांधी जयंती मनाई गई। श्री आर. सी. श्रीवास्तव, चेयरमैन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और गाँधीजी की मूर्ति पर फूल चढ़ाए।

(14) जयपुर स्कंध ने दिनांक 5 अगस्त, 2006 को वैट पंजीकरण एवं प्रलेखन पर एक सेमिनार का आयोजन किया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि श्री एच. एल. पाण्डेय, आयुक्त (अपील) ने वैट के प्रावधानों पर विचार- विमर्श किए। इस स्कंध ने दिनांक 23-24 सितम्बर, 2006 को इंटरमीडिएट विद्यार्थियों के लिए रिपोर्ट लेखन और व्यवसाय संबंधी पत्रों और संप्रेषण सामूहिक चर्चाओं एवं व्यवसाय सेमिनार पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। दिनांक 7.10.2006 को एक समारोह का आयोजन किया गया ताकि व्यावसायिक हित के विभिन्न मुद्दों पर विचार- विमर्श किया जा सके। सर्वश्री डी. वी. जोशी, अध्यक्ष और चंद्र वधवा, उपाध्यक्ष इस समारोह में उपस्थित हुए थे। एक प्रेस सम्मेलन का भी आयोजन किया गया जिसे अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ने संबोधित किया। श्री सुनील गोयल, अध्यक्ष, एसएएफ भी इस अवसर पर उपस्थित थे। सदस्यों की एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के अलावा सर्वश्री के. जी. गोयल और राकेश सिंह, सीसीएम, अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। दिनांक

15.12.2006 को एक कैरियर काउंसिलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री बी. एल. जैन ने इंस्टीट्यूट द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों की विस्तृत व्याख्या की। दिनांक 16.12.2006 को प्रशासनिक सेवाओं के प्रबंधन में लागत लेखाकार की भूमिका पर एक सेमिनार का आयोजन किया। दिनांक 23.12.2006 को भारतीय अर्थव्यवस्था में विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) की भूमिका पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता श्री बी. एस. मीणा, उपायुक्त सीमाशुल्क (एसईजेड) थे।

दिनांक 27.1.2007 को फाउंडेशन, इंटर एवं फाइनल के लिए मौखिक कोचिंग कक्षाओं के नए सत्र का उद्घाटन किया गया। प्रो. एन. पी. अग्रवाल, प्राचार्य, यूनिवर्सिटी कॉमर्स कॉलेज, राजस्थान विश्वविद्यालय मुख्य अतिथि थे। श्री जे. पी. सिंघल, पूर्व प्राचार्य, अग्रवाल पी. जी. कॉलेज द्वारा फाइनल के विद्यार्थियों के लिए प्रभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। दिनांक 18.2.2007 को (सारस) जयपुर डेयरी प्लांट (आरसीडीएफ) इकाई पर उद्योग/फैक्टरी का दौरा भी किया गया। दिनांक 10-11 मार्च, 2007 को इंटर के विद्यार्थियों के लिए "रिपोर्ट लेखन एवं व्यवसाय सम्प्रेषण में प्रवीणता" पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इंटर और फाइनल के विद्यार्थियों के लिए दिनांक 11.03.2007 को कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।

(15) दिनांक 8.7.2007 को श्री नीलांजन मुखर्जी यू. पी. हेड टाटा ए. आई. जी. द्वारा लखनऊ स्कंध की कोचिंग कक्षाओं का उद्घाटन किया गया। श्री सुधांशु द्विवेदी, चेयरमैन ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए गए। एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें वर्तमान एवं पूर्व पदाधिकारी शामिल थे, ने आयुक्त आयुक्त के साथ हुई बैठक में हिस्सा लिया। अन्य पदाधिकारियों के अलावा वरिष्ठ पदाधिकारी भी उपस्थित थे। दिनांक 30.7.2006 को सूचना का अधिकार अधिनियम पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। श्री ईश्वर चंद द्विवेदी, पूर्व महानिदेशक, पुलिस ने इस अवसर पर विचार व्यक्त किए। दिनांक 21.8.2006 को वित्तीय पुनर्गठन पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। श्री डी. वी. जोशी, अध्यक्ष ने कहा कि आईसीडब्ल्यूआई के संशोधित पाठ्यक्रम में लागत नियंत्रण संबंधी वित्त प्रबंधन के नए एवं उभरते हुए क्षेत्रों जैसे व्युत्पादक बाजार, अंतर्राष्ट्रीय वित्त और बीमा क्षेत्र पर जोर होगा। श्री चंद्र वधवा, उपाध्यक्ष ने लागत एवं प्रबंधन लेखाकारों द्वारा निर्माई जाने वाली बड़ी भूमिका पर जोर दिया क्योंकि सीएएम ने सभी प्रकार की लेखा-विधियों, वित्त प्रबंधन, लागत नियंत्रण और मूल्य प्रबंधन में अपनी खुद की दक्षता को सिद्ध किया है। श्री के. जी. गोयल, सीसीएम ने बीमा एवं बैंकिंग क्षेत्र में हो रहे नए सुधारों पर विचार व्यक्त किए। श्री द्विवेदी ने इस अवसर पर उपस्थित अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। दिनांक 5-6 अक्टूबर, 2006 को इंटर स्टेज I और II के लिए सामूहिक चर्चाओं का आयोजन किया गया।

दिनांक 23 से 24 दिसम्बर, 2006 को कॉरपोरेट प्रबंधन- उभरती प्रवृत्तियों पर दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन दिनांक 23.12.2006 को डा. अशोक वाजपेयी, माननीय कृषि एवं धार्मिक बंदोबस्त मंत्री द्वारा किया गया। अन्य गणमान्य व्यक्तियों के अलावा सर्वश्री चंद्र वधवा, उपाध्यक्ष, राकेश सिंह और के. जी. गोयल, सीसीएम ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई। इस सम्मेलन का उद्घाटन दिनांक 23.12.2006 को डा.

अशोक वाजपेयी माननीय कृषि एवं धार्मिक बंदोबस्त मंत्री, उ. प्र. सरकार द्वारा किया गया था। डा. दिनेश शर्मा, माननीय महापौर इस सत्र के मुख्य अतिथि थे। इसकी अध्यक्षता श्री राकेश सिंह, सीसीएम द्वारा की गई थी। श्री सुभाष अग्रवाल, पूर्व चेयरमैन ने कहा कि एमसीए-21 परियोजना से कॉरपोरेट कंपनियों/व्यावसायिकों को रिटर्न भरने और अन्य विधिक अपेक्षाओं को पूरा करने में आरओसी और अन्य एमसीए कार्यालयों में लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। श्री राकेश सिंह ने इन सब को मुख्य बातें बताई और माननीय महापौर को इस व्यवसाय में नवीनतम कार्यकलापों के बारे में संक्षिप्त में बताया। लेखा विधि मानकों में दूसरे सत्र की अध्यक्षता श्री के. जी. गोयल, सीसीएम द्वारा की गई थी। व्यावसायिकों के लिए वित्त के तीसरे सत्र की अध्यक्षता श्री चंद्र वधवा, उपाध्यक्ष द्वारा की गई थी।

श्री के. एल. जयसिंह, पूर्व अध्यक्ष मुख्य अतिथि थे। वित्तीय योजना एवं पोर्टफोलियो प्रबंधन के चौथे सत्र की अध्यक्षता एवं उसका समापन श्री सुधांशु द्विवेदी, डीजीएम, यूपीपीसीएल ने की।

दिनांक 7.2.2007 को आयोजित एक व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम में श्री एस. के. शर्मा, यूएस आधारित कॉरपोरेट प्रशिक्षक ने प्रशिक्षण प्रदान किया। इसमें काफी संख्या में भागीदारों ने भाग लिया जिसमें सदस्य, फैक्टरी के सदस्य और विद्यार्थी शामिल थे। दिनांक 11.1.2007 को उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन श्री सी. जे. टीकू, एजीएम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ सदस्य द्वारा किया गया।

(16) लुधियाना स्कंध ने सीमित देयता साझेदारी (एलएलपी) पर एक स्टडी सर्कल बैठक का आयोजन किया और एलएलपी संबंधी अवधारणा पत्र में शामिल विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया। इन विचार-विमर्शों की शुरुआत श्री आर. सी. सिंघल, कार्यरत कंपनी सचिव और पूर्व चेयरमैन द्वारा की गई थी। दिनांक 12.8.2006 और 13.8.2006 को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में लागत लेखा परीक्षा पर एक स्टडी सर्कल बैठक आयोजित की गई। दिनांक 17-18 मार्च, 2007 को एक व्यवसाय सम्प्रेषण और सामूहिक चर्चाओं का भी आयोजन किया गया। केन्द्रीय बजट पर एक वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें बजट प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। वर्तमान एवं पूर्व पदाधिकारी और अन्य व्यवसायों के सदस्यगण भी उपस्थित थे। सेवा कर पर एक स्टडी सर्कल बैठक का आयोजन किया गया जिसमें बजट में शामिल प्रस्तावों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। दिनांक 31 मार्च और 1 अप्रैल, 2007 को एक व्यवसाय सम्प्रेषण और सामूहिक चर्चाओं का आयोजन किया गया था।

(17) दिनांक 27.12.2006 को फरीदाबाद स्कंध ने फ्रिज बेनिफिट टैक्स के प्रावधानों के संबंध में एक सेमिनार का आयोजन किया। डा. राज के. अग्रवाल, एक प्रमुख व्यावसायिक मुख्य अतिथि थे। श्री के. एस. बर्क मुख्य फैक्टरी थे। कई उद्योगों के प्रतिनिधिमंडलों और स्कंध के सदस्यों ने भागीदारी की। श्री आर. के. तनेजा, पूर्व चेयरमैन को एनएचपीसी के कार्यकारी निदेशक के पद पर प्रोन्नत होने पर बधाई दी गई।

(18) हरिद्वार, उत्तराखंड में एक परीक्षा केन्द्र खोला गया। इस केन्द्र में प्रतिवर्ष हरिद्वार और ऋषिकेश एवं रुड़की सहित इसके आसपास के क्षेत्रों के तकरीबन 500 छात्र परीक्षा दे सकेंगे। इस केन्द्र का उद्घाटन श्री एस. सी. सिंघल, अतिरिक्त महाप्रबंधक (वित्त) द्वारा दिनांक 26.12.2006 को किया गया था। सर्वश्री सुबोध गुप्ता, उप-चेयरमैन,



इंदर कुनार, सचिव और मुकुल अग्रवाल, कोषाध्यक्ष और अन्य सदस्य इस अवसर पर उपस्थित थे।

(19) दिनांक 18.2.2007 को चंडीगढ़- पंचकुला स्कंध द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कराधान पर एक पूर्ण दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। श्री राजेश बिंदल माननीय न्यायमूर्ति, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, ने इस समारोह का उद्घाटन किया। सर्वश्री डी. वी. जोशी, अध्यक्ष, चंद्र वधवा, उपाध्यक्ष, राकेश सिंह और के. जी. गोयल, सीसीएम और हरिकृष्ण गोयल, एनआईआरसी के चेयरमैन मुख्य अतिथि थे। प्रमुख वक्ताओं ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। दिनांक 18.2.2007 को श्री पवन कुमार बंसल, माननीय वित्त राज्य मंत्री ने स्कंध द्वारा प्रस्तावित परिसर की आधारशिला रखी। दिनांक 1.4.2007 को जालंधर स्कंध ने इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए सामूहिक वाद-विवाद का आयोजन किया और इसमें चर्चा के विषय थे- वित्त लेखा, लागत नियंत्रण के उपाय, आंतरिक लेखा परीक्षा एवं नियंत्रण और बजट नियंत्रण।

(21) दिनांक 25.8.2006 को गाजियाबाद स्कंध द्वारा मूल्यांकन नियम और लागत लेखा मानक- 4 पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया और श्री चंद्र वधवा, उपाध्यक्ष जिन्होंने सम्मेलन का उद्घाटन किया, बधाई दी। सर्वश्री आलोक गोस्वामी, जीएम(वित्त), एनआईआरसी के एच. के. गोयल, राकेश सिंह और के. जी. गोयल, सीसीएम, नीरज शर्मा, स्कंध के चेयरमैन उपस्थित थे। श्री शर्मा ने मुख्य अतिथि एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम का समन्वय श्री प्रमोद शर्मा, स्कंध के सचिव द्वारा किया गया था।

#### अनुबंध- 1

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया  
12 स्यूडर स्ट्रीट, कोलकाता- 700016

वर्ष 2006-07 के लिए इंस्टीट्यूट की परिषद की स्थायी एवं अन्य समितियों का गठन

अध्यक्ष: श्री धनन्जय वी. जोशी उपाध्यक्ष: श्री चंद्र वधवा

#### स्थायी समितियाँ

##### 1. कार्यकारी समिति (कोरम- 3)

- (i) श्री धनन्जय वी. जोशी, अध्यक्ष- चेयरमैन
- (ii) श्री चंद्र वधवा, उपाध्यक्ष- सदस्य
- (iii) श्री वी. सी. कोठारी- सदस्य
- (iv) श्री के. जी. गोयल- सदस्य
- (v) श्री बिभवनन्द मजूमदार- सदस्य  
डा. देबाशीष बागची- सचिव

##### 2. अनुशासन समिति (कोरम- 2)

- (i) श्री धनन्जय वी. जोशी, अध्यक्ष- चेयरमैन
- (ii) श्री प्रवीण कुमार- सदस्य
- (iii) श्री वी. सी. कोठारी- सदस्य  
डा. देबाशीष बागची- सचिव

#### अन्य समितियाँ

##### 4. प्रशिक्षण, शैक्षणिक सुविधाएं एवं कंप्यूटरीकरण समिति (कोरम-3)

- (i) श्री ए. एस. दुर्गा प्रसाद - चेयरमैन
- (ii) श्री एम. गोपालकृष्ण - सदस्य

- (iii) श्री वी. सी. कोठारी - सदस्य
- (iv) डा. संजीवन बंद्योपाध्याय - सदस्य
- (v) श्री आर. के. जैन - सदस्य
- (vi) डा. असबोक जोशी - सदस्य (को-ऑप्टेड)  
श्री ए. पी. कर - सचिव

##### 5. अनुसंधान एवं पत्रिका समिति (कोरम- 2)

- (i) श्री ए. एस. दुर्गा प्रसाद - चेयरमैन
- (ii) श्री वी. सी. कोठारी - सदस्य
- (iii) डा. संजीवन बंद्योपाध्याय - सदस्य
- (iv) श्री एस. जी. वाई. नारायणन - सदस्य
- (v) श्री डी. सी. बजाज - सदस्य (को-ऑप्टेड)  
श्री सिद्धार्थ सेन, निदेशक - सचिव

##### 6. सतत शिक्षा कार्य समिति (कोरम- 3)

- (i) डा. संजीवन बंद्योपाध्याय - चेयरमैन
- (ii) श्री के. जी. गोयल - सदस्य
- (iii) डा. डी. जगन्नाथम - सदस्य
- (iv) श्री ए. एस. दुर्गा प्रसाद - सदस्य
- (v) श्री प्रभाकर मोहंती - सदस्य
- (vi) श्री आई. पी. सिंह - सदस्य (को-ऑप्टेड)  
श्री डी. चंद्र, संयुक्त निदेशक - सचिव

##### 7. व्यावसायिक विकास, बैंकिंग, बीमा एवं पीएसयू समिति (कोरम-2)

- (i) श्री के. जी. गोयल - चेयरमैन
- (ii) श्री एम. गोपालकृष्णन - सदस्य
- (iii) डा. संजीवन बंद्योपाध्याय - सदस्य
- (iv) श्री राकेश सिंह - सदस्य
- (v) श्री वी. कल्याणरमन - सदस्य (को-ऑप्टेड)  
श्री ए. पी. कर - सचिव

##### 8. सदस्य सेवाएं एवं सदस्य सुविधा समिति (कोरम- 2)

- (i) श्री बिभवनन्द मजूमदार - चेयरमैन
- (ii) श्री के. जी. गोयल - सदस्य
- (iii) श्री प्रभाकर मोहंती - सदस्य
- (iv) डा. संजीवन बंद्योपाध्याय - सदस्य
- (v) श्री पी. डी. फडके - सदस्य (को-ऑप्टेड)  
श्री कौशिक बनर्जी, उप निदेशक - सचिव

##### 9. क्षेत्रीय परिषदें एवं स्कंध समन्वय समिति (कोरम- 2)

- (i) श्री प्रभाकर मोहंती - चेयरमैन
- (ii) श्री के. जी. गोयल - सदस्य
- (iii) श्री बिभवनन्द मजूमदार - सदस्य
- (iv) डा. श्री राकेश सिंह - सदस्य
- (v) श्री हरिजीवन बनर्जी - सदस्य (को-ऑप्टेड)  
श्री एस. आर. साहा, संयुक्त निदेशक- सचिव

3979 GT/07-5

**10. डब्ल्यूटीओ और अंतर्राष्ट्रीय मामलों संबंधी समिति (कोरम 3)**

- |                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| (i) श्री चंद्र वधवा             | - चेयरमैन           |
| (ii) श्री आर. के. जैन           | - सदस्य             |
| (iii) श्री ए. एस. दुर्गा प्रसाद | - सदस्य             |
| (iv) डा. श्री प्रभाकर मोहंती    | - सदस्य             |
| (v) श्री बी. एम. शर्मा          | - सदस्य (को-ऑप्टेड) |
| (vi) श्री एम. के. आनंद          | - सदस्य (को-ऑप्टेड) |
- श्री ए. पी. कर निदेशक- सचिव

**11. लेखा परीक्षा समिति (कोरम- 2)**

- |                                |         |
|--------------------------------|---------|
| (i) श्री एस. जी. वाई. नारायणन- | चेयरमैन |
| (ii) श्री वी. सी. कोठारी -     | सदस्य   |
| (iii) श्री बिभवनन्द मजूमदार -  | सदस्य   |
- श्री आर. एन. पाल, निदेशक - सचिव

**12. कंपनी अधिनियम, औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं श्रम कानून (कोरम 3)**

- |                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| (i) डा. डी. जगन्नाथन -       | चेयरमैन           |
| (ii) श्री वी. सी. कोठारी -   | सदस्य             |
| (iii) श्री एम. गोपालकृष्णन - | सदस्य             |
| (iv) श्री राकेश सिंह -       | सदस्य             |
| (v) श्री बी. एम. शर्मा -     | सदस्य             |
| (vi) श्री आर. बालाकृष्णन -   | सदस्य (को-ऑप्टेड) |
- श्री एस. भास्कर उप सचिव - सचिव

**13. प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करान (कोरम 3)**

- |                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| (i) श्री बी. एम. शर्मा -        | चेयरमैन           |
| (ii) श्री एस. जी. वाई नारायणन - | सदस्य             |
| (iii) श्री वी. सी. कोठारी -     | सदस्य             |
| (iv) श्री के. जी. गोयल -        | सदस्य             |
| (v) श्री राकेश सिंह-            | सदस्य             |
| (vi) श्री वी. एस. दत्ते -       | सदस्य (को-ऑप्टेड) |
- श्री तरुण कुमार, सहायक निदेशक - सचिव

**14. लागत लेखा एवं लागत लेखा रिकॉर्ड (कोरम 2)**

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| (i) श्री राकेश सिंह-        | चेयरमैन           |
| (ii) श्री के. जी. गोयल-     | सदस्य             |
| (iii) श्री एस. गोपालकृष्णन- | सदस्य             |
| (iv) श्री के. सी. कोही -    | सदस्य (को-ऑप्टेड) |
- डा. अमरेंद्र कुमार, सहायक निदेशक - सचिव

**15. स्वी मुम्बई अनुसंधान परियोजना समिति (कोरम 2)**

- |                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| (i) श्री वी. सी. कोठारी-     | चेयरमैन           |
| (ii) श्री प्रभाकर मोहंती-    | सदस्य             |
| (iii) श्री बी. एम. शर्मा-    | सदस्य             |
| (iv) अध्यक्ष, डब्ल्यूआईआरसी- | सदस्य (को-ऑप्टेड) |
- श्री एस. सी. गुप्ता, उप निदेशक- सचिव

**16. जन संपर्क एवं प्रचार (कोरम 2)**

- |                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| (i) श्री आर. के. जैन -     | चेयरमैन           |
| (ii) श्री वी. सी. कोठारी - | सदस्य             |
| (iii) श्री के. जी. गोयल-   | सदस्य             |
| (iv) श्री बी. एम. शर्मा -  | सदस्य             |
| (v) श्री जे. के. पुरी-     | सदस्य (को-ऑप्टेड) |
- श्री एस. सी. गुप्ता, उप निदेशक- सचिव

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सचिव स्थायी समितियों को छोड़कर अन्य सभी समितियों में स्थायी आमंत्रिती हैं।

**आईसीडब्ल्यूआई का लागत लेखा मानक बोर्ड (कोरम 2)**

- |   |
|---|
| (i) श्री एम. गोपालकृष्णन- चेयरमैन       |
| (ii) डा. डी. जगन्नाथन- सदस्य            |
| (iii) श्री वी. सी. कोठारी- सदस्य        |
| (iv) श्री ए. एस. दुर्गा प्रसाद- सदस्य   |
| (v) श्री ए. के. कपूर- सदस्य (को-ऑप्टेड) |
| सलाहकार (लेखा), भारत सरकार              |
| (vi) आईसीएसआई का नामिती                 |
| (vii) आईसीएआई का नामिती                 |
| (viii) सीआईआई का नामिती                 |
| (ix) फिककी का नामिती                    |
| (x) एसोचैम का नामिती                    |
- श्री ए. पी. कर निदेशक - सचिव

गुप्ता एण्ड कं.

चाटर्ड एकाउंटेंट्स

53 ए, मिर्जा गालिब स्ट्रीट  
कोलकाता- 700016

**लेखा परीक्षा रिपोर्ट**

**दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउंटेंट ऑफ इंडिया की परिषद को प्रस्तुत**

1. हमने दिनांक 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउंटेंट ऑफ इंडिया (इंस्टीट्यूट) के संलग्न तुलन- पत्र और उसी दिन समाप्त वर्ष के लिए संलग्न आय तथा व्यय लेखों की भी लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय लेखों की जिम्मेवारी इंस्टीट्यूट के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेवारी यह है कि हम अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय लेखाओं के संबंध में राय व्यक्त करें।

2. हमने भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की। इन मानकों में यह अपेक्षा की गई है कि हम इस बारे में यथोचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और उसे निष्पादित करें कि क्या वित्तीय लेखे अथार्थ विवरण से मुक्त हैं। किसी लेखा परीक्षा में संगत राशियों के पुष्टिकारी साक्ष्यों और वित्तीय लेखाओं में किए गए खुलासों की परीक्षण आधार पर जांच करना शामिल होता है। लेखा परीक्षा में यह भी शामिल होता है- प्रबंधन मण्डल द्वारा प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों तथा किए गए विशेष प्राक्कलनों का आकलन करना और समग्र वित्तीय लेखाओं की प्रस्तुति का मूल्यांकन करना। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय हेतु यथोचित आधार प्रदान करती है।

3. लागत और संकर्म एकाउंटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथासंशोधित लागत और संकर्म एकाउंटेंट अधिनियम, 1959 की धारा 18(5क) में की गई अपेक्षा के अनुसार इन लेखों को इस प्रयोजनार्थ

बुलाई गई विशेष बैठक में परिषद द्वारा विचार कर अनुमोदित नहीं किया गया है।

4. हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं और अनुसूची 18 पर प्रबंधन द्वारा दी गई निम्नलिखित टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :-

(क) क्षेत्रीय परिषदों और स्कंधों को 21.32 लाख रु. के रजत जयंती पूंजी अनुदान हेतु तथा भवन निर्माण हेतु 102.02 लाख रु. के अग्रिमों के बारे में टिप्पणी ख.1 और ख.2 / यह राशि संबंधित क्षेत्रीय परिषदों तथा स्कंधों से आवश्यक दस्तावेजों और सूचना के अभाव में पिछले कई वर्षों से असमायोजित/गैर-पूँजीकृत बनी हुई है। लेखों में इसके प्रभाव का आकलन इस चरण पर तुरंत नहीं किया जा सकता है।

ख) वर्ष के दौरान सदस्यों/विद्यार्थियों से 2.33 लाख रु. की प्राप्तियों के बारे में टिप्पणी 10। इस राशि के लिए ड्राफ्ट लौटा दिए गए हैं किन्तु आय को कम नहीं किया गया है और परिणामस्वरूप नकद आधार पर लेखाकरण के बारे में लेखनीयता सं. 2(क) उल्लंघन का उल्लंघन हुआ है।

(ग) क्षेत्रीय परिषदों (ईआईआरसी से भिन्न) और स्कंधों की ओर वर्षात में बकाया राशि के अपुष्टिकरण तथा गैर-समाशोधन के बारे में टिप्पणी 12। इसके परिणामस्वरूप यथा आवश्यक समायोजनों का इस चरण पर अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

(घ) प्रबंधन ने हमें यह सूचना दी है कि नियत परिसम्पत्ति रजिस्टर के अभिज्ञान, वास्तविक सत्यापन तथा संकलन का कार्य लगभग पूरा होने वाला है और सत्यापन तथा समाशोधन से उत्पन्न विसंगतियों, यदि कोई हों, को अगले पाँच वर्षों में दूर कर दिया जाएगा।

(ड.) फ्री-होल्ड भूमि हेतु 18.28 लाख रु. तथा भवन हेतु 161.59 लाख रु. के हक विलेख हमारी जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

(च) जय वृंदावन ट्रस्ट फंड, मुम्बई में एक मालिकाना फ्लैट हेतु किए गए निवेश के संबंध में शेयर हमारी जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

(छ) 4.35 लाख रु. की विविध लेनदारियाँ इस चरण पर उस सीमा तक निर्धारणीय नहीं हैं जिस सीमा तक इन ऋणों की वसूली की जाएगी।

(ज) जिन स्कंधों को 23.27 लाख रु. का भवन ऋण (5% और 4%) तथा 5.73 लाख रु. का कंप्यूटर ऋण प्रदान किया गया है, वे मूलधन को चुकता करने तथा यथा-प्रयोज्य ब्याज का भुगतान करने में चूक कर रहे हैं। वसूली योग्य राशि की मात्रा का निर्धारण करने के लिए इस संबंध में आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं थी।

(झ) अन्य प्राप्त्य राशियों में चालू वर्ष के लिए आय के रूप में दर्शाई गई 1.81 लाख रु. की राशि सहित बकाया भवन ऋण पर ब्याज के संबंध में 16.19 लाख रु. की राशि शामिल है। उपलब्ध सूचना से हम इस राशि की वसूली के बारे में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

( ) मुद्रकों के पास पड़े हुए 10.04 लाख रु. के कागज के शेष स्टॉक की पुष्टि हमें उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

(ट) ईआईआरसी के लेखा परीक्षित लेखों के अनुसार आईसीडब्ल्यूआई से प्राप्त्य राशि 21.10 लाख रु. और आईसीडब्ल्यूआई को अदा की जाने वाली राशि 32.42 लाख रु. है। जबकि आईसीडब्ल्यूआई के लेखों में इन्हें क्रमशः 13.32 लाख रु. और 44.64 लाख रु. दर्शाया गया है। हमें यह बताया गया है कि इस राशि का समाधान किया जा रहा है और इसमें आवश्यक समाशोधन, जो इस चरण पर निर्धारणीय नहीं हैं, अगले वर्ष कर दिए जाएंगे।

(ठ) दिल्ली इकाई के संबंध में हम 120.27 लाख रु. की कार्यक्रम-वार आय का सत्यापन करने में असमर्थ रहे हैं। हमारी राय में इस

इकाई के लेखों के रख-रखाव को आगे और सुदृढ़ किए जाने की जरूरत है।

(ड) हमारी राय में और हमें प्रदत्त सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार शिक्षण एवं पंजीकरण शुल्क के समाशोधन, क्षेत्रीय परिषदों के अध्ययन सामग्रियों तथा सुझाए गए उत्तरों की बिक्री, क्षेत्रीय परिषदों तथा स्कंधों के साथ लेन-देनों के समाशोधन, विभिन्न लेखों तथा कागजों की खरीद के समाशोधन एवं दैनिक बही के रख-रखाव हेतु आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ किए जाने की जरूरत है।

(5) उपलब्ध सूचना से उपर्युक्त पैराग्राफ 4 में उल्लिखित मदों से उत्पन्न अनुमानित समायोजनों की उस सीमा का निर्धारण करना हमारे लिए संभव नहीं हुआ है जिसका बेशी एवं सामान्य निधि की वर्षात स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है सिवाय इस बात के, यदि उपर्युक्त पैराग्राफ 4(ख) में दिए गए अभिमतों पर विचार किया गया होता तो वर्ष के लिए बेशी राशि 207.79 लाख रु. (210.12 लाख रु. की सूचित आंकड़ों की तुलना में) रही होती और सामान्य निधि की शेष निधि 1027.77 लाख रु. (1030.10 लाख रु. के सूचित आंकड़ों की तुलना में) रही होती।

(6) इसके अतिरिक्त, उपरोक्त पैराग्राफ 4 से संबंधित अपनी टिप्पणियों के बारे में हम रिपोर्ट देते हैं कि :-

(i) उपरोक्त पैरा 4(क) से 4(ठ) के अध्यक्षीन हमने सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

(ii) हमारी राय में इस्टीमेट द्वारा लेखों का लागत एवं संकर्म एकाउंट (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथासंशोधित लागत एवं संकर्म एकाउंट अधिनियम, 1959 की जरूरतों के अनुरूप रख-रखाव किया गया है।

(iii) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन-पत्र तथा आय-व्यय लेखों को लेखा बहियों के अनुसार ठीक पाया गया है।

(iv) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त पैरा 4 में दी गई हमारी टिप्पणियों के अध्यक्षीन उक्त वित्तीय लेखों तथा लेखा सिद्धांत और उन पर की गई तथा संलग्न टिप्पणियाँ भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही और स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करती हैं :-

(क) दिनांक 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार इस्टीमेट के कामकाज के तुलन-पत्र के मामले में, और

(ख) लेखाओं की अनुसूची 18 की टिप्पणी क.2 में वर्णित आधार पर उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए जामा और आय-व्यय लेखा के मामले में।

कृते गुप्ता एंड कं.  
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स  
ह./-

एस. के. गांगुली  
भागीदार  
सदस्यता सं. 6622

कोलकाता, दिनांक: 21 जुलाई, 2007

## दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

गत वर्ष 2005-2006	विवरण	अनुसूची सं.	इस वर्ष 2006 - 2007	
रु.			रु.	रु.
	संस्था की निधि			
87,796,323	सामान्य निधि	(1)		103,010,405
12,529,000	कर्मचारी उपदान निधि	(2)		16,338,083
7,299,000	कर्मचारी छुट्टी नकदीकरण निधि	(3)		12,038,744
383,648	कर्मचारी कल्याण निधि	(4)		394,001
1,039,233	विविध पुरस्कार एवं अन्य निधि	(5)		1,035,772
	विद्यार्थी कल्याण निधि			500,000
	छवि निर्माण निधि			500,000
109,047,204	कुल			133,817,005
	निम्नलिखित द्वारा प्रतिफलित			
	स्थायी परिसंपत्तियाँ	(6)		
58,683,957	(क) सकल ब्लॉक		59,804,682	
35,720,294	(ख) घटाएं मूलहास		37,892,865	
22,963,663	(ग) शुद्ध ब्लॉक			21,911,817
500	निवेश	(7)		500
70,413,944	वर्तमान परिसम्पत्तियाँ	(8)	98,684,301	
18,526,366	ऋण एवं अग्रिम	(9)	20,738,862	
88,940,310			119,423,163	
3,738,194	घटाएं : वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	(10)	8,424,478	
85,202,116	निवल वर्तमान परिसम्पत्तियाँ			110,998,685
880,924	विविध व्यय (जिस सीमा तक बट्टे खाते नहीं डाला गया)			906,003
109,047,204	कुल			133,817,005
	लेखा संबंधी टिप्पणियाँ	(18)		

ऊपर उल्लिखित अनुसूचियाँ जो लेखा का भाग हैं।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते गुप्ता एंड कंपनी  
चार्टर्ड एकाउंटेंट्सचंद्र वधवा  
उपाध्यक्षधनंजय बी. जोशी  
अध्यक्षएस. फ़े. गांगुली  
भागीदारआर. एन. णल  
निदेशक (वित्त)डा. देवशीष बागची  
सचिव

सदस्यता सं. 6622

कोलकाता

दिनांक: 21 जुलाई, 2007

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया  
आय एवं व्यय लेखा 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए

गत वर्ष 2005 - 2006 रु.	विवरण	अनुसूची सं.	इस वर्ष 2006 - 2007 रु.
	आय		
8,195,135	सदस्यों का वार्षिक अंशदान	(11)	8,828,825
44,846,376	शिक्षण शुल्क एवं अन्य	(12)	65,264,507
25,450,616	परीक्षा शुल्क एवं अन्य	(13)	34,904,645
13,090,964	सीई कार्यक्रम आय		12,007,973
	ओरैकल प्रशिक्षण - आय		2,170,000
380,782	पत्रिका शुल्क (विज्ञापन सहित)		463,092
100,000	अनुसंधान अध्ययन		155,000
280,059	प्रकाशन आय		80,336
2,029,997	ब्याज		2,563,734
94,373,929	योग		126,438,111
	व्यय		
36,177,377	स्थापना	(14)	40,871,653
10,282,942	कार्यालय व्यय	(15)	13,179,119
44,080	विधिक लेखा परीक्षा शुल्क		56,180
55,423	आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क		56,150
2,168,791	यात्रा और वाहन		3,760,326
8,501,685	परीक्षा व्यय सु./उत्तरी एवं प्रयुक्त परीक्षा फर्म सहित		10,400,979
2,688,820	परिषद् एवं सामान्य बैठक संबंधी व्यय		3,443,191
1,111,319	चुनाव खर्च		1,412,852
2,373,103	पत्रिका खर्च		2,413,347
7,166,809	क्षेत्रीय परिषदों को अंशदान	(16)	9,067,537
119,212	स्वधो को अंशदान (अनुदान)		128,298
896,460	विदेशी निकायों को सदस्यता अंशदान		993,849
111,406	अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं बैठक		287,332
49,034	अनुसंधान अध्ययन परियोजना		91,100
9,386,768	सीई कार्यक्रम व्यय		8,489,211
	ओरैकल प्रशिक्षण- खर्च		1,972,855
576,148	व्यावसायिक विकास खर्च		727,052
1,445,006	अचल स्टॉक बढ़ते खालकर		296,157
	विविध कर्जदार- बढ़ते खाते खालकर		225,519
4,369,109	अध्ययन सामग्री प्रयुक्त प्रॉस्पेक्टस सहित		4,917,669
166,662	प्रयुक्त प्रकाशन स्टॉक		65,707
2,440,036	मूल्यहास		2,569,997
90,130,190	कुल		105,426,080
4,243,739	वर्ष के लिए अधिशेष सी/डी		21,012,031
94,373,929	कुल		126,438,111
4,243,739	वर्ष के लिए अधिशेष बी/डी		21,012,031
	छवि निर्माण निधि में अंशदान		500,000
	विद्यार्थी कल्याण निधि में अंशदान		500,000
20,000	पूर्व अवधि आय	(17)	299,556
618,965	पूर्व अवधि व्यय		8,113,000
3,644,774	सामान्य निधि में अंतरित निवल अधिशेष		12,198,587

ऊपर उल्लिखित अनुसूचियाँ जो लेखा का भाग हैं।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के  
अनुसार

कृते गुप्ता एंड कंपनी  
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

एस. के. गांगुली  
भागीदार  
सदस्यता सं. 6622

कोलकाता

चंद्र वधवा  
उपाध्यक्ष

आर. रम. पाल  
निदेशक (वित्त)

धनंजय बी. जोशी  
अध्यक्ष

3979 GI/07-6

## अनुसूची सं. 1 : सामान्य निधि : 31-3-2007 की स्थिति के अनुसार

गत वर्ष 2005-2006	विवरण	इस वर्ष 2006 - 2007
रु.		रु.
80,561,994	पिछले लेखों के अनुसार शेष	87,796,323
	जोड़िए:	
1,164,825	i) स्कंध भवनों का पूजीकरण	
71,274	ii) गैर-विशिष्ट जमा से हस्तांतरण	37,400
184,397	iii) बैंक खाता (शुद्ध) गैर संबद्ध लेन-देन	37,400
81,982,490		87,833,723
	घटाएँ:	
15,425	i) देनदारों का समायोजन	
81,967,065		87,833,723
	ii) क्षेत्रीय परिषदों का पूजीगत अनुदान	
86,726	पुस्तकालय के लिए	95,000
9,000	फर्नीचर के लिए	9,000
81,871,339		87,729,723
330,570	जमा : प्रवेश शुल्क (सदस्य)	350,775
1,949,640	प्रवेश शुल्क (छात्र)	2,731,320
84,151,549		90,811,818
3,644,774	जमा : वर्ष के लिए अतिरिक्त आय एवं व्यय लेखा	12,198,587
87,796,323	योग	103,010,405

## अनुसूची सं. 2 : कर्मचारी उपदान निधि : 31-3-2007 की स्थिति के अनुसार

10,784,000	गत लेखा अनुसार शेष	12,529,000
2,554,245	जमा: वर्ष के लिए अंशदान	4,447,250
13,338,245		16,976,250
859,711	जमा: वर्ष के लिए निधि के निवेश पर अर्जित ब्याज	990,638
14,197,956		17,966,888
1,668,956	घटाएँ: वर्ष के दौरान कर्मचारियों को दिया उपदान	1,628,805
12,529,000	योग	16,338,083

## अनुसूची सं. 3 : कर्मचारी नकद छुट्टी कोष : 31-3-2007 की स्थिति के अनुसार

6,890,000	गत लेखा अनुसार शेष	7,299,000
2,592,602	जमा: वर्ष के लिए अंशदान	7,255,135
9,482,602		14,554,135
	जमा: वर्ष के लिए निधि के निवेश पर अर्जित ब्याज	2,603
9,482,602		14,556,738
2,183,602	घटाएँ: वर्ष के दौरान कर्मचारियों को किया गया भुगतान	2,517,994
7,299,000	योग	12,038,744

## अनुसूची सं. 4 : कर्मचारी कल्याण कोष : 31-3-2007 की स्थिति के अनुसार

377,246	गत लेखा अनुसार शेष	383,648
	जमा: वर्ष के लिए अंशदान	
6,008	नियोक्ता	5,868
3,004	कर्मचारीगण	2,934
21,610	जमा: वर्ष के लिए निधि के निवेश पर अर्जित ब्याज	23,900
407,868		416,350
24,220	घटाएँ: वर्ष के दौरान कर्मचारियों को भुगतान	22,349
383,648	योग	394,001

## अनुसूची सं. 5 : 31-3-2007 की स्थिति के अनुसार विधि पुरस्कार एवं अन्य निधियाँ

पुरस्कार निधि का नाम	प्रारम्भिक शेष (रु.)	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (रु.)	क्रेडिट की गई आय (रु.)	कुल (रु.)	पुरस्कार की लागत (रु.)	अंतिम शेष (रु.)
बी. डी. पुरी पुरस्कार निधि	10,743.02		692.00	11,435.02	3,056.00	8,379.02
वजीर देवीपुरी पुरस्कार निधि	10,575.17		683.00	11,258.17	3,056.00	8,202.17
बी. सी. चक्रवर्ती पुरस्कार निधि	12,068.70		405.00	12,473.70		12,473.70
डी. डी. कालरा पुरस्कार निधि	14,418.30		374.00	14,792.30	293.00	14,499.30
ए. के. विश्वास पुरस्कार निधि	36,676.92		1,311.00	37,987.92	3,723.00	34,264.92
विक्रमजीत मजूमदार पुरस्कार निधि	12,022.30		276.00	12,298.30	416.00	11,882.30
बी. एन. गांगुली पुरस्कार निधि	8,569.30		240.00	8,809.30	300.00	8,509.30
के. समाचन्द्रन पुरस्कार निधि	6,619.26		376.00	6,995.26	600.00	6,395.26
श्रीमती राजम्म एम. आर. एस. आर्यंगर पुरस्कार निधि	6,646.70		287.00	6,933.70	400.00	6,533.70
यू. एन. सूर/डी. मैरी सूर पुरस्कार निधि	13,028.50		575.00	13,603.50	1,000.00	12,603.50
मौजीराम जैन पुरस्कार निधि	18,566.00		952.00	19,518.00	600.00	18,918.00
पुणे लागत लेखाकार पुरस्कार निधि	12,436.00		692.00	13,128.00	1,000.00	12,128.00
गंगादास मूंदड़ा पुरस्कार निधि	8,681.17		799.00	9,480.17	3,056.00	6,424.17
सी. श्रीनिवासन पुरस्कार निधि	9,788.17		829.00	10,617.17	3,056.00	7,561.17
वी. के. कंसल एड एस. पी. कंसल	33,656.00		1,572.00	35,228.00		35,228.00
जे. एन. बोस पुरस्कार निधि	8,904.17		656.00	9,560.17	3,056.00	6,504.17
सुमाष अय्या पुरस्कार निधि	4,876.52		294.48	5,171.00	400.00	4,771.00
एन. सरकार पुरस्कार निधि	14,113.06		567.75	14,680.81	600.00	14,080.81
जी. इंदिरा देवी पुरस्कार निधि	17,424.28		787.00	18,211.28	3,056.00	15,155.28
पुष्पारानी दे पुरस्कार निधि	11,506.72		900.00	12,406.72	2,588.58	9,818.14
श्री निवासन जगन्नाथ पुरस्कार निधि	26,967.79		1,258.00	28,225.79	3,056.00	25,169.79
सुल्तान चंद पुरस्कार निधि	44,109.00		1,312.00	45,421.00	1,530.00	43,891.00
के. के. दत्ता पुरस्कार निधि	22,087.19		630.00	22,717.19	1,528.00	21,189.19
केदारनाथ प्रह्लाद राय धनुका पुरस्कार निधि	26,893.00		787.00	27,680.00	612.00	27,068.00
स्वर्गीय श्रीमती धनपति गयेल पुरस्कार निधि	25,418.08		1,104.00	26,522.08	3,056.00	23,466.08
कांसी राम प्रमाकर पुरस्कार निधि	24,157.36		1,104.00	25,261.36	3,056.00	22,205.36
मंदाकिनी वसंत लिम्वे पुरस्कार निधि	3,946.50		263.00	4,209.50	400.00	3,809.50
ले. कर्नल अंबुज नाथ बोस पुरस्कार निधि	41,720.17		1,576.00	43,296.17	3,056.00	40,240.17
एम. कृष्णामूर्ति पुरस्कार निधि	10,508.00		524.00	11,032.00	500.00	10,532.00
लक्ष्मीबाई दशोवत कविशर पुरस्कार निधि	8,690.00		263.00	8,953.00		8,953.00
श्रीमती कमला मुखर्जी पुरस्कार निधि	16,701.00		798.00	17,499.00		17,499.00
पी. गांगुली मेमोरियल पुरस्कार निधि	126,915.00		5,752.00	132,667.00	5,000.00	127,667.00
प्राचार्य श्रीमती वी. जे. तल्लाटी पुरस्कार निधि	32,242.68		1,436.00	33,678.68	1,294.29	32,384.39
अन्नपूर्णा और रेवाती आर. भट्टाचार्य जी पुरस्कार निधि	24,155.00		1,152.00	25,307.00	765.00	24,542.00
एंड्रयुमेट लेक्चर निधि- ए. वी. एस. राव	12,609.00		624.00	13,233.00		13,233.00
नॉर्दन कोल फील्ड मेरिट पुरस्कार निधि	100,176.00		6,629.00	106,805.00	2,327.00	104,478.00
के. जी. गोयल हिन्दी माध्यम पुरस्कार निधि	21,649.00		2,376.00	24,025.00	633.00	23,392.00
रंजन कुमार बंसु मेमोरियल पुरस्कार निधि	20,148.00		1,636.00	21,784.00	527.00	21,257.00
हीरक जयंती पुरस्कार निधि	102,092.68		11,296.00	113,388.68	1,528.00	111,860.68
छात्र कल्याण निधि	76,727.00		1,876.00	78,603.00		78,603.00
गणपति सुब्रमण्यम मेमोरियल निधि		500,000		500,000.00	500,000	
					(वितरित)	
योग	1,039,232.71	500,000.00	55,664.23	1,594,896.94	559,124.87	1,035,772.07

अनुसूची सं. 6 : 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार स्थायी परिसम्पत्तियाँ

संपत्ति का विवरण	सालाना बर्बाद				वर्ष				कुल बर्बाद	
	1.4.2006 को आर्थिक साल	वर्ष के दौरान अतिरिद्ध	घटायें : वर्ष के दौरान स्थायी परिसम्पत्तियों की विक्री/समायोजन की विक्री/समायोजन पर ह्रास	31.3.2007 को कुल	1.4.2006 तक	इस वर्ष के लिए	घटायें : वर्ष के दौरान स्थायी परिसम्पत्तियों की विक्री/समायोजन की विक्री/समायोजन पर ह्रास	31.03.2007 तक	इस वर्ष 2006-2007	गत वर्ष 2005-2006
प्रौद्योगिक भवन										
मुख्यालय	140,000			140,000					140,000	140,000
क्षेत्रीय परिसरों एवं सहाय	3,488,583			3,488,583					3,488,583	3,488,583
प्रौद्योगिक भवन										
मुख्यालय	2,707,998			2,707,998	1,713,786	99,421		1,813,207	894,791	994,212
क्षेत्रीय परिसरों एवं सहाय	35,641,687			35,641,687	20,029,462	1,561,222		21,590,684	14,051,003	156,122,225
घरेलू व भूमि										
क्षेत्रीय परिसरों एवं सहाय	407,070			407,070	153,975	13,496		167,471	239,599	253,095
(दुर्गापुर, नागपुर, उदुपुत्राग्राम, विशाखापत्तनम, पुणे और बिलासपुर)										
कार्गो एवं सिस्टम										
मुख्यालय	2,676,189	310,202		2,986,391	2,125,799	86,059		2,211,858	774,533	550,390
पुस्तकालय पुस्तकें :										
मुख्यालय	882,330	22,431		904,761	551,203	35,355		586,558	318,203	331,127
कार्गो एवं उपकरण :										
मुख्यालय	3,482,272	172,270		3,654,542	2,249,810	210,710		2,460,520	1,194,022	123,246,2
लेजर/रेडर :										
मुख्यालय	280,545			280,545	276,938	902		277,840	2,705	3,607
सिस्टम :										
मुख्यालय (विआरसी परिसर)	416,062			416,062	360,525	13,884		374,409	41,653	55,537
मोटरकार :										
मुख्यालय	477,546	496,939	477,546	496,939	377,398	69,724	397,426	49,696	447,243	100,148
कम्प्यूटर										
मुख्यालय	8,083,675	596,429		8,680,104	7,881,398	479,224		8,360,622	319,482	202,277
कुल :	58,683,957	1,598,271	477,546	59,804,682	35,720,294	2,569,997	397,426	37,892,865	21,911,817	229,636,63



अनुसूची सं. 7 : 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार निवेश (लागत पर)

गत वर्ष 2005 - 2006	विवरण	इस वर्ष 2006 - 2007
रु.		रु.
	शेयर (सामान्य निधि) :	
500	जय वृन्दावन प्रीमियम ट्रस्ट फण्ड, मुम्बई में 100- 100 रु. के 5 शेयर	500
500	योग	500

अनुसूची सं. 8 : 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार चालू परिसम्पत्तियाँ

2,607,016	प्रकाशन स्टॉक (लागत पर)		2,183,598
812,506	पेपर स्टॉक (लागत पर)		1,004,214
2,084,212	प्रोस्पेक्टर स्टॉक सहित अध्ययन सामग्री (लागत पर)		1,679,270
4,735	स्टॉक सिल्वर टाईज		4,735
1,959,917	अन्य प्राप्तिरियाँ		2,053,686
9,755,240	विविध कर्जदार (1,60,158/- रु. नेट)		6,852,588
	रोकड़ एवं बैंक शेष		
38,205	हाथ में (रोकड़ और डाक स्टाम्प सहित)	16,624	
329,387	डाकघर में		
	अनुसूची बैंकों में जमा शेष		
10,928,497	चालू खाते में	16,975,083	
25,445	बचत खाते में	178,661	17,170,368
	सावधि जमा		
11,144,645	कर्मचारी उपदान निधि	15,175,000	
	कर्मचारी छुट्टी नकदीकरण निधि	5,000,000	
29,550,000	इंस्टीट्यूट निधि	46,353,046	
360,861	कर्मचारी कल्याण कोष	394,348	
813,278	विविध पुरस्कार निधि एवं अन्य निधि	813,448	67,735,842
70,413,944	योग		98,684,301

अनुसूची सं. 9 : 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार ऋण तथा अग्रिम

	स्क्रॉ को भवन निर्माण ऋण:	(क)	
2,236,441	5% भवन निर्माण ऋण	2,236,441	
96,241	4% भवन निर्माण ऋण	90,062	2,326,503
597,414	स्क्रॉ को कंप्यूटर ऋण	(ख)	573,306
10,202,000	भवन निर्माण के लिए क्षेत्रीय परिषदों और स्क्रॉ को अग्रिम	(ग)	10,802,000
2,132,138	स्क्रॉ को रजत जयंती पूंजीगत अनुदान (अग्रिम)	(घ)	2,132,138
811,101	क्षेत्रीय परिषदों को ऋण- ईआईआरसी		811,101
977,921	कर्मियों को भवन निर्माण ऋण		829,422
6,900	कर्मियों को वाहन खरीद अग्रिम		32,300
147,226	अन्य अग्रिम		474,433
181,485	कर्मियों को त्योहार अग्रिम		174,605
665,598	विदेशी निकायों को अग्रिम सदस्यता अंशदान- सीएपीए और आईएफएसी		715,200
2,370	कर्मियों को मविध निधि अंशदान के लिए वेतन अग्रिम		491,002
89,361	पूर्व संदत खर्च		830,796
380,170	जमा		546,056
18,526,366	योग		20,738,862

3979 GI/07-7

अनुसूची सं. 9(क) : 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार स्कंधों को भवन ऋण

गत वर्ष 2005 - 2006		स्कंध का नाम	इस वर्ष 2006 - 2007	
4% ऋण रु.	5% ऋण रु.		4% ऋण रु.	5% ऋण रु.
6,241		गोवा	62	
	100,000	कोल्हापुर- सांगली		100,000
	82,800	औरंगाबाद		82,800
	200,000	कोयम्बटूर		200,000
	150,000	रानीपेट वेलोर		150,000
90,000		हावड़ा	90,000	
	150,000	बोकारो स्टील सिटी		150,000
	200,000	दुर्गापुर		200,000
	200,000	आसनसोल		200,000
	200,000	घनबाद- सिदरी		200,000
	191,897	सेरामपुर		191,897
	186,744	कटक- भुवनेश्वर		186,744
	135,000	जयपुर		135,000
	200,000	उदयपुर		200,000
	100,000	कानपुर		100,000
	140,000	कोटा		140,000
96,241	2,236,441	योग	90,062	2,236,441
राशि रु०		वर्ष 2006 - 2007 के दौरान भवन ऋण की वसूली	राशि रु.	
		गोवा स्कंध	6,179	
-		कुल	6,179	

अनुसूची सं. 9(ख) : 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार स्कंधों को भवन ऋण

64,150	गोवा	64,150
62,150	अहमदाबाद	62,150
6,240	विशाखापत्तनम	
49,429	कोचीन	40,561
12,267	नेवेली	10,267
34,001	त्रिवेन्द्रम	27,001
64,150	हावड़ा	64,150
64,150	दुर्गापुर	64,150
64,150	आसनसोल	64,150
53,773	कटक- भुवनेश्वर	53,773
58,804	जयपुर	58,804
64,150	उदयपुर	64,150
597,414	योग	573,306
राशि रु०	वर्ष 2006 - 2007 के दौरान कम्प्यूटर ऋण की वसूली	राशि रु.
1,460	कोचीन स्कंध	8,868
2,000	नेवेली स्कंध	2,000
9,073	त्रिवेन्द्रम स्कंध	7,000
2,000	विशाखापत्तनम स्कंध	6,240
14,533	योग	24,108

अनुसूची सं. 9(ग) : 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार भवन निर्माण के लिए क्षेत्रीय परिषदों और स्कंधों को अग्रिम

3,892,000	एन.आई.आर.सी	3,892,000
2,700,000	डब्ल्यू.आई.आर.सी	2,700,000
300,000	भिलाई	300,000
300,000	उदयपुर	300,000
300,000	लखनऊ	300,000
200,000	नासिक- ओझर	200,000
300,000	कटक- भुवनेश्वर	300,000
300,000	दुर्गापुर	300,000
300,000	बोकारो स्टील सिटी	300,000
	हैदराबाद स्कंध	600,000
300,000	आसनसोल	300,000
200,000	कानपुर	200,000
300,000	घनबाद- सिदरी	300,000
300,000	मैसूर	300,000
300,000	सेरामपुर	300,000
210,000	कोटा	210,000
10,202,000	योग	10,802,000

अनुसूची सं. 9(घ) : 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार स्कंधों को रंजत जयंती पुंजीगत अनुदान (अग्रिम)

गत वर्ष 2005 - 2006	स्कंध का नाम	इस वर्ष 2006 - 2007
रु.		रु.
100,000	कानपुर	100,000
100,000	दुर्गापुर	100,000
100,000	आसनसोल	100,000
32,138	जयपुर	32,138
100,000	अहमदाबाद	100,000
100,000	हावड़ा	100,000
100,000	जमशेदपुर	100,000
100,000	नेहाटी इच्छापुर	100,000
100,000	फरीदाबाद	100,000
100,000	चंडीगढ़- पंचकुला	100,000
100,000	कटक- भुवनेश्वर	100,000
100,000	बोकारो स्टील सिटी	100,000
100,000	विजयवाड़ा	100,000
100,000	कल्याण- अम्बरनाथ	100,000
100,000	बड़ोदा	100,000
100,000	भोपाल	100,000
100,000	त्रिवेन्द्रम	100,000
100,000	नागपुर	100,000
100,000	गोवा	100,000
100,000	लखनऊ	100,000
100,000	नासिक- ओझर	100,000
100,000	मैसूर	100,000
2,132,138	योग	2,132,138

अनुसूची सं. 10 : 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार चालू देयताएं एवं प्रावधान

	चालू देयताएं	
455,186	पुस्तकालय जमा	455,286
2,347,009	विविध लेनदार	4,376,635
588,249	अन्य देयताएं- शुद्ध	2,402,557
27,750	बुक ओवरड्राफ्ट	-
320,000	प्रावधान	1,190,000
3,738,194	योग	8,424,478

#### अनुसूची 10 का संलग्नक

प्रावधानों की अनुसूची

प्रावधान		
30,000	को- ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी प्रा. लि. को अनुदान हेतु प्रावधान	40,000
140,000	क्षेत्रीय परिषदों और स्कंधों को स्वर्ण जयंती अंशदान हेतु प्रावधान	
	कर्मचारी कल्याण के लिए प्रावधान	1,000,000
150,000	दरों और करों के लिए प्रावधान	150,000
320,000	कुल	1,190,000

अनुसूची सं. 11 : आय : 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार सदस्यों का वार्षिक अंशदान

6,925,800	वार्षिक सदस्यता शुल्क	6,799,321
817,800	सदस्यों के प्रेक्टिस प्रमाण पत्र शुल्क	750,420
451,285	ग्रेजु. सीडब्ल्यूए शुल्क	966,574
250	सदस्य शिक्का शुल्क	50
	प्रमाणित सुविधा केंद्र शुल्क	43,060
	नामांकन शुल्क	269,400
8,195,135	योग	8,828,825

अनुसूची सं. 12 : आय

31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार शिक्षण एवं अन्य शुल्क

2,924,460	विद्यार्थी पंजीकरण शुल्क	4,099,325
23,712,503	शिक्षण शुल्क	39,412,957
3,346,093	कम्प्यूटर ट्रेनिंग (25,85,325/- रु. का नेट)	5,135,463
900	यता शुल्क	-
53,850	आवर्ती वार्षिक शुल्क	-
5,505,641	सेवा शुल्क	52,030
1,412,168	शिक्षा समापन प्रमाण- पत्र पुनः वैधीकरण शुल्क	6,521,835
2,515,683	प्रोसपेक्टस की बिक्री	1,645,214
5,345,953	अध्ययन नोट की बिक्री	2,529,610
29,125	डाक द्वारा कोविंग : पुनः वैधीकरण एवं नए फार्मों की बिक्री	5,834,638
44,846,376	योग	33,435
		65,264,507

अनुसूची सं. 13 : आय : 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार परीक्षा एवं अन्य शुल्क

22,513,309	परीक्षा शुल्क	30,945,974
264,725	उत्तरपत्रों के सत्यापन शुल्क	370,326
1,373,664	स्कैनर सहित सुझाए गए उत्तरों की बिक्री	1,790,286
1,011,237	परीक्षा फार्मों की बिक्री	1,058,063
287,681	विविध आय	739,996
25,450,616	योग	34,904,645

अनुसूची सं. 14 : स्थापना : 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार

26,866,280	वेतन और भत्ते	29,513,275
2,554,245	कर्मचारी कल्याण निधि में नियोक्ता का अंशदान	3,005,250
2,455,815	कर्मचारी मविध्य निधि में नियोक्ता का अंशदान	2,716,091
6,008	कर्मचारी उपदान निधि में नियोक्ता का अंशदान	5,868
2,592,602	कर्मचारी छुट्टी नक्कीकरण में नियोक्ता का अंशदान	3,385,135
1,191,126	विविध खर्च	1,583,012
163,000	कार्मिकों को छुट्टी यात्रा भत्ता	385,000
52,070	ईडीएलआई कर्मियों को नियोक्ता का अंशदान	53,934
37,288	आरपीएफसी प्रशासन और ईडीएलआई निरीक्षण प्रभार	41,191
258,943	प्रशिक्षण और विकास (एचआरडी)	182,897
36,177,377	योग	40,871,653

अनुसूची सं. 15 : 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार कार्यालय खर्च

1,604,880	मुद्रण एवं स्टेशनरी	2,205,647
2,644,855	डाक, तार, दूरभाष और फैक्स	2,353,496
729,124	विद्युत खर्च	838,019
31,278	जेनरेटर खर्च	20,924
147,510	दर और कर	167,858
46,560	बीमा	46,102
1,405,904	मरम्मत एवं रखरखाव	2,698,701
797,569	मोटरगाड़ी खर्च	1,116,872
6,800	प्रतिभूति जमा पर व्याज	6,800
553,532	अध्ययन सामग्री वितरण खर्च	757,530
742,707	कानूनी खर्च	107,090
154,237	बैंक खर्च	66,290
322,246	कम्प्यूटर खर्च जिसमें भाड़ा खर्च भी शामिल है	295,252
55,910	जनसम्पर्क खर्च	59,020
52,776	सुरक्षा खर्च	65,045
130,494	पुस्तकें तथा पत्रिकाएं	130,580
52,750	प्रतिनिधि खर्च	10,000
204,180	राजपत्र अधिसूचना	221,415
206,276	कर्मचारी कल्याण	1,259,923
268,175	प्रशासनिक खर्च	490,379
125,179	विविध खर्च	262,176
10,282,942	योग	13,179,119

अनुसूची सं. 16 : 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व व्यय की प्रतिपूर्ति सहित क्षेत्रीय परिषदों को राजस्व अनुदान  
(क) वर्ष के दौरान निम्न लेखों से क्षेत्रीय परिषदों को प्रतिपूर्ति की गई और आय एवं लेखा में आनेलित किया गया धन

गत वर्ष 2005 - 2006	विवरण	इ.आई.आर.सी.	एस.आई.आर.सी.	डब्ल्यू.आई. आर.सी.	एन.आई. आर.सी.	इस वर्ष 2006-2007
रु.		रु.	रु.	रु.	रु.	रु.
22,466	मरम्मत एवं रखरखाव	31,767	32,643	6,000	17,683	88,093
65,910	दरे एवं कर		885		28,217	29,102
88,376	कुल (क)	31,767	33,528	6,000	45,900	117,195
300,000	टी. ए. अनुदान	100,000	100,000	100,000	100,000	400,000
240,000	छालू खर्च अनुदान	60,000	60,000	60,000	60,000	240,000
6,626,809	राजस्व अनुदान एवं अन्य	1,045,037	3,296,350	1,477,900	2,608,250	8,427,537
7,166,809	कुल (ख)	1,205,037	3,456,350	1,637,900	2,768,250	9,067,537
7,255,185	कुल (क) + (ख)	1,236,804	3,489,878	1,643,900	2,814,150	9,184,732

अनुसूची सं. 17 : 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार पूर्व अवधि की आय/खर्च

गत वर्ष 2005 - 2006	विवरण	इस वर्ष 2006 - 2007
रु.		रु.

आय		
20,000	सीई कार्यक्रम- आय	35,000
	- ब्याज	27,972
	- सेवा शुल्क	282,300
	- चेक वापसी एवं अन्य	(45,716)
20,000	योग	299,556

खर्च		
228,784	कार्यालय व्यय	631,730
20,668	पत्रिका व्यय	
295,939	विदेशी निकाय (एसएएफए) को सदस्यता अंशदान	
32,133	सीई कार्यक्रम व्यय	40,838
9,441	सीसीएम	
	- स्थापना	13,132
	- राजस्व अनुदान	2,115,300
	- कर्मचारी उपदान निधि को नियोक्ता का अंशदान	1,442,000
	- कर्मचारी छुट्टी नकदीकरण निधि में नियोक्ता का अंशदान	3,870,000
32,000	पीडी खर्च	
618,965	योग	8,113,000

3979GI/07-8

द इस्टीमेट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  
दिनांक 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग स्वरूप टिप्पणियाँ  
अनुसूची संख्या 18

#### क. महत्वपूर्ण लेखा नीति

##### 1. अचल परिसंपत्तियाँ

(क) लेखों में अचल परिसंपत्तियों का उल्लेख हासमान मूल्य पद्धति में प्रदत्त लागत घटा मूल्यहास के आधार पर किया गया है भले ही समय-समय पर आयकर नियमावली के तहत निर्धारित दर पर खरीद की तारीख कोई भी हो।

(ख) पट्टे वाले जमीन का पट्टा अवधि के दौरान परिशोधन किया जा रहा है।

(ग) सृजनकारी संपरिसंपत्तियों को प्रगतिशील पूंजी कार्य के रूप में दर्शाया गया है।

##### 2. आय एवं व्यय संबंधी स्वीकार्यता

(क) आय को लेखों में आमतौर पर नकद आधार पर माना जाता है। इसमें क्षेत्रीय परिषदों तथा स्कंधों के साथ इस्टीमेट के कार्यक्रम शुल्क और विभिन्न प्रकाशनों की बिक्री संबंधी व्याज आय और लेन-देन शामिल नहीं हैं।

(ख) स्कंधों को वार्षिक अनुदान से भिन्न स्कंधों को व्यापारिक आधार पर माना गया है। चुनाव संबंधी व्यय को तीन वर्षों की अवधि में प्रभारित किया जाता है।

##### 3. पूंजी निवेश

पूंजी निवेश को लागत के आधार पर दर्शाया गया है।

##### 4. भंडारसूची

भंडारसूची में प्रकाशन, कागजात और अध्ययन सामग्री शामिल है, जिनका मूल्य क्रय लागत जमा अन्य ऐसे ही प्रभारों के आधार पर निर्धारित किया गया है। प्रकाशन तथा अध्ययन सामग्री के स्टॉक का मूल्य भारत औरसत लागत के आधार पर निर्धारित किया जाता है और कागज के स्टॉक का मूल्यांकन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की पद्धति के प्रयोग द्वारा किया जाता है। किंतु, खपत के अयोग्य/बिक्री के अयोग्य प्रकाशनों और अध्ययन सामग्री को स्टॉक मूल्य में शामिल नहीं किया जाता है।

##### 5. कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ

(क) उपदान (ग्रैजुटी) भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार उपदान के वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर लेखा में उपदान का प्रावधान किया गया है।

(ख) न्यासियों को भविष्य निधियों का भुगतान इस संबंध में बनी संस्थान की नियमावली के अनुसार किया जाता है और इस्टीमेट का अंशदान प्रत्येक वर्ष के राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

(ग) सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नकदीकरण लाभ वास्तविक मूल्यांकन आधार पर प्रदान किया जाता है।

##### विदेशी मुद्रा का लेन-देन

लेखों में विदेशी मुद्रा के लेन-देन के रूप में संग्रहण/भुगतान में दर्शाया जाता है अर्थात् जब उसकी प्राप्ति और खर्च रूप में मूल्य में होती है तब उसका उल्लेख किया जाता है। मानिटीरी मदों के लिए विदेशी मुद्राओं में किए गए सभी लेन-देनों को लेन-देन की तारीख को चल रही दर अथवा अन्तिम दरों पर किया जाता है।

##### (7) पूर्व समयावधि आय/व्यय

पूर्व समयावधि के विशिष्ट राजस्व भाग को आय और व्यय संबंधी लेखों की पंक्ति के नीचे दर्शाया जाता है और पूर्व-समयावधि संबंधी समायोजन सामान्य निधि में तथा उसी में से किए जाते हैं।

##### (ख) लेखों के भाग स्वरूप टिप्पणियाँ

(1) रजत जयंती पूंजी अनुदान (अग्रिम) से संबंधित 21,32,138/- रु. (पिछले वर्ष 21,32,138/- रु.) की असमायोजित शेष राशि का संगत कागजात के अभाव में समायोजन नहीं किया जा सका।

(2) भवन-निर्माण के लिए क्षेत्रीय परिषदों तथा स्कंधों को दिए गए अग्रिम में असमायोजित शेष राशि 1,02,02,000/- रु. (पिछले वर्ष 1,02,02,000/- रु.) है जो संगत कागजात तथा जानकारी के अभाव में पूंजीकरण हेतु लंबित है।

(3) आयकर का छूट, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के साथ पठित धारा 10(23क) के तहत दी गई है। तदनुसार, आयकर के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है।

(4) दिनांक 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार, कर्मचारी छुट्टी नकदीकरण निधि वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर 1,20,38,744/- रु. (पिछले वर्ष 72,99,000/- रु.) है जबकि निवेश और उस पर प्राप्त ब्याज सहित 50,02,603/- रु. का रहा। इस प्रकार निवेश में 70,36,141/- रु. (पिछले वर्ष 72,99,000/- रु.) की कमी रही। निधि प्रबंधन का कार्य पहले ही भारतीय जीवन बीमा निगम को सौंप दिया गया है।

(5) दिनांक 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी उपदान निधि वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर 1,63,38,083/- रु. (पिछले वर्ष

1,25,29,000/- रु.) की रही जबकि पूंजी निवेश, उस पर प्राप्त ब्याज सहित 1,52,08,332/- रु. का रहा। इस प्रकार पूंजी निवेश में 11,14,340/- रु. (पिछले वर्ष 12,13,764/- रु.) की कमी रही। निधि प्रबंधन का कार्य पहले ही भारतीय जीवन बीमा निगम को सौंप दिया गया है।

(6) दिनांक 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी कल्याण निधि की राशि 3,94,000/- रु. (पिछले वर्ष 3,83,648/- रु.) रही जबकि निवेश, उस पर प्राप्त ब्याज सहित 4,38,019/- रु. (पिछले वर्ष 4,13,906/- रु.) का रहा।

(7) इस्टीमेट द्वारा रखी गई सभी पुरस्कार निधियों और विद्यार्थी कल्याण निधि को परिषद के निर्णय के अनुसार, उनके संगत निवेश सहित लेखों में शामिल किया गया है। चूंकि इन निधियों को विभिन्न दान दाताओं द्वारा प्रायोजित किया गया है, अतः तत्संबंधी आय/व्यय के आंकड़ों का इस्टीमेट के लेखों से कोई संबंध नहीं है।

(8) कार्यकारी समिति की सिफारिश के अनुसार विद्यार्थी कल्याण निधि के लिए 5,00,000/- रु. छवि निर्माण के लिए 5,00,000/- रु. और कर्मचारी कल्याण के लिए 10,00,000/- रु. का प्रावधान किया गया है।

(9) पिछली प्रक्रिया के अनुसार, क्षेत्रीय परिषदों और स्कंधों के लेखों को इन लेखों में शामिल नहीं किया है, हालांकि आयकर अधिनियम, 1961 के तहत इन पर ट्रस्ट की आय की गणना के समय इन पर विचार किया जाता है।

(10) चालू वर्ष के लिए सक्षम/विद्यार्थियों से प्राप्त राशियों में 2,33,205/- रु. की राशि के वापसी झपट शामिल हैं। इसकी वसूली के लिए कदम उठाए गए हैं।

(11) 8,80,924/- रु. (2004-07) की राशि के चुनाव संबंधी व्यय (1/3 भाग) और दक्षिण क्षेत्र के उप-चुनाव से संबंधित 5,31,928 रु. की राशि आय तथा व्यय लेखा में प्रभारित की गयी है और 9,06,003/- रु. (2007-2011) की राशि विवध व्यय शीर्ष के तहत दर्शायी गयी है जिसे लेखा नीति सं. 2(ख) के अनुसार अगले वर्ष प्रभारित किया जाएगा।

(12) विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों एवं स्कंधों से लेखा शेष की पुष्टि प्रतीक्षित है और इन लेखों में प्रदर्शित शेष राशियां बहियों के अनुसार हैं।

(13) अन्य अग्रिमों में एमसीए, भारत सरकार द्वारा अस्वीकृत किए जाने के कारण परिषद के कुछेक पूर्व सदस्यों से 2,88,384/- रु. की बकाया राशि शामिल है और यह मामला इस समय न्याय निर्णयाधीन है।

(14) वर्ष के दौरान स्टॉक का मूल्यांकन वास्तविक मात्रा के आधार पर किया गया है जबकि पिछले वर्ष इसका मूल्यांकन बहीगत मात्रा के आधार पर किया गया था। स्टॉक के मूल्यांकन की प्रणाली में परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप स्टॉक में 3,77,498/- रु. की कमी आई।

(15) क्षेत्रीय परिषदों और स्कंधों को स्वर्ण जयंती अंशदान हेतु 1,40,000/- रु. की राशि का प्रावधान किया गया जिसकी अब आवश्यकता नहीं है और इसे वापस लेख में ले लिया गया है और इसे चालू वर्ष में विविध आय में शामिल किया गया है।

(16) दिनांक 8-9/5/93 को हुई कार्यकारी समिति की 238वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार वर्ष 2003-04 से संबंधित 37,400/- रु. की राशि (पिछले वर्ष 71,274/- रु.) सामान्य निधि के जरिए समायोजित की गई है।

(17) कार्यकारी समिति के निर्णय के अनुसार, पिछले वर्ष बुक खातागत स्टॉक और वास्तविक स्टॉक के बीच 6,36,094/- रु. की राशि के अंतर को वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाल दिया गया है और इसे विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों और मुख्यालयों में अनुपात के अनुसार बांट दिया गया है जिसमें से मुख्यालय के 2,96,157/- रु. के हिस्से को आय एवं व्यय लेखों में प्रभारित कर दिया गया है।

(18) कर्मचारी उपदान निधि और छुट्टी नकदीकरण निधि के वास्तविक मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ दोनों वर्षों के लिए 10% की वृद्धि पर विचार किया गया है, जिसका परिणामस्वरूप, उपदान और छुट्टी नकदीकरण पर पूर्व अवधि व्यय क्रमशः 14,42,000/- रु. और 38,70,000/- रु. से बनता है।

(19) चालू वर्ष के समूहीकरण के अनुरूप जहाँ कहीं आवश्यक पाया गया, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहबद्ध किया गया है।

चंद्र वधवा  
उपाध्यक्ष

धनन्जय वी. जोशी  
अध्यक्ष

आर. एन. पाल  
निदेशक (वित्त)

डा. देवशीष बागची  
सचिव

एस. सी. गुप्ता, उप-निदेशक  
[विज्ञापन III/IV/असा./71/07]

**THE INSTITUTE OF COST AND WORKS  
ACCOUNTANTS OF INDIA**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st July, 2007

**No. G/18-CWA/9/2007.**—In pursuance of Sub-Section 5 of Section 18 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Annual Report of the Council of the Institute and the Audited Accounts of the said Institute for the year ended 31st March, 2007 are hereby published for general information.

DR. D. BAGCHI, Secy.

**48<sup>th</sup> ANNUAL REPORT, 2006-2007**

The Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India takes pleasure in presenting the Annual Report and Audited Accounts of the ICWAI for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2007.

The Council at its meeting held on 22<sup>nd</sup> July, 2006 elected Shri Dhananjay V. Joshi, M.Com., LLB, FCS, FICWA as President, and Shri Chandra Wadhwa, M.Com., LLB, FCS, FICWA as Vice-President of the Institute for the year 2006-2007.

Due to untimely and sad demise of Dr. H R Subramanya past President and CCM on 6<sup>th</sup> December 2005 a vacancy occurred in the Council. Consequent upon declaration of results of By-Election 2006 in pursuance of Regulation 69 of the CWA Regulations, 1959 Shri A N Raman was elected to the Council of the Institute on 20<sup>th</sup> November 2006 from the Southern Region for the rest of the term of the present council 2004-2007.

The Council met nine times during the year 2006-2007.

**Committees of the Council**

The composition of various Committees constituted by the Council is given in Annexure 1.

**TRAINING, EDUCATIONAL FACILITIES & COMPUTERISATION**

**Registered Students**

During the current year, 16,837 students registered themselves with the Institute showing an increase of 17 per cent approximately over the previous year when the number was 14,343. The number of registered students at the end of the year stood at 1,40,153. The region wise break-up of the students registered during the year 2005-2006 and 2006-2007 is indicated below:

REGION	2005-2006	2006-2007
Western	2,798	2,838
Southern	5,663	2,230
Eastern	2,062	3,824
Northern	2,362	6,630
TOTAL	12,885	15,522
DENOVO	1,458	1315
GRAND TOTAL	14,343	16,837

**Coaching**

During the year, 39,412 students enrolled themselves for coaching showing a rise of 18 per cent approximately compared with previous year. The region wise break-up is given as under:

**Postal and Oral Coaching Statistics**

Course	Region	POSTAL		ORAL		TOTAL	
		05-06	06-07	05-06	06-07	05-06	06-07
FOUNDATION	NORTHERN	875	1040	809	482	1,684	1522
	EASTERN	183	236	445	389	628	625
	WESTERN	303	298	1,036	860	1,339	1158
	SOUTHERN	3,049	781	2,263	2652	5,312	3433
Sub Total		4,410	2355	4,553	4383	8,963	6738
INTER	NORTHERN	3,204	3715	1,363	2012	4,567	5727
	EASTERN	1,279	1491	1,840	2324	3,119	3815
	WESTERN	1,916	2190	3,520	4545	5,436	6735
	SOUTHERN	2,306	5619	6,192	6187	8,498	11806
Sub Total		8,705	13015	12,915	15068	21,620	28083
FINAL	NORTHERN	496	832	78	229	574	1061
	EASTERN	290	465	202	211	492	676
	WESTERN	304	546	339	606	643	1152
	SOUTHERN	424	1130	664	572	1,088	1702
Sub Total		1,514	2973	1,283	1618	2,797	4591
GRAND TOTAL		14,629	18,343	18,751	21,069	33,380	39,412

The Institute provides necessary facilities for postal coaching in the form of supply of study notes, test papers and suggested answers through Regional Councils. Besides postal coaching, the Institute provides oral coaching to the students through 107 centres spread all over the country and 1 Overseas Coaching Centre at Dubai.

#### **Practical Training Scheme**

The Institute is having a Practical Training Scheme to help the students to acquire experience in industry, service and other sectors of the economy. Reputed organizations are engaging Cost Trainees in their organizations. In addition, Cost Auditors are also providing practical training to the Cost Trainees.

#### **Revision/Updating of Study Notes and Publication of Supplements**

As usual, supplements on Direct Taxation and Indirect Taxation, based on the Finance Act 2006 were published and uploaded in our Website.

#### **Communication to the Students**

During the year, correspondence with the students was properly maintained and their queries were promptly replied to. Coaching status was regularly up-loaded in the website to facilitate communication to the students.

#### **Computerization of Coaching Status**

##### **a. Updating of Coaching Status at periodic intervals**

The coaching status of the students is continuously updated in database at headquarters. The same status is uploaded in the website at periodical intervals.

##### **b. Updating of De-Novo Status on day-to-day basis**

After expiry of seven years students apply for De-Novo Registration, consequent upon cancellation of old registration numbers and De-Novo Registration Numbers are awarded to the concerned students. The status of De-Novo Registration as on date has been uploaded in the website, so that the students by feeding their old numbers can view the corresponding De-Novo Registration numbers.

#### **Successful running of E-learning Scheme**

Institute's unique e-learning initiative to facilitate real-time, virtual learning by the students of the Institute has been improved during the current year and response from the students towards this mode of coaching was quite good. The question bank, guidance notes, e-faculty, etc. pertaining to e-learning have been revamped in line with the requirements of the industry in the modern globalized scenario.

#### **Introduction of Internet-based Education Processing System**

In line with the global environment, ICWAI has also initiated the process of implementation of Internet-based education processing system by integrating service to the students through related units of the Institute by offering instant registration, coaching,

examination application etc., thereby providing prompt service to the student community and online updation of student database.

#### **Career Counseling Initiatives**

Special initiatives for disseminating the scope of the course among the student community were taken. Chapters/Regional Councils were asked to coordinate with the local educational institutions or organize meetings of the senior students in which representatives of the Institute attended the same and highlighted the scope of Cost and Management Accountancy Profession in the emerging economic scenario. A series of Career Counselling Programmes were held during the year.

#### **Placement of students and Campus Selection**

The Institute took great initiative to strengthen the placement activities and a number of big PSUs, MNCs and Software companies showed great interest in the Institute's Campus Interview Programmes. Campus Interviews were organized at Delhi, Kolkata, Mumbai and Chennai where companies like Vedanta, UCO Bank, GE, Hawkins, Genpack, Wipro, Infosys etc. recruited around 430 final qualified students.

#### **Initiative for introduction of New Syllabus**

New Syllabus for the Institute has been framed to match the skill requirements of the Indian Industry and to make it on par with other International Management Accounting Institutes. IFAC Education Guidelines have been adhered to while framing the new syllabus. The Syllabus has been approved by the Council to strengthen four pillars of the Course Curriculum like management, strategy, financial reporting and regulatory environment. It has been aimed at catering to increased demand of cost and management accounting services having interface with IT and IT-enabled services (ITES) in the areas of service sectors including Financial Services and Capital Markets. The new syllabus is likely to be introduced by 2007-year end. The Institute has also introduced three new additional post-qualification courses viz., System Audit, Financial Service and Valuation.

#### **New Coaching Policy**

With a view to bridge the gap between theoretical knowledge and practical experience new coaching policy was introduced. Accordingly, students have been undergoing Group Discussions/Business Communication seminars, Modular Training and Computer training schemes.

#### **EXAMINATIONS**

The June and December 2006 examinations were held from 18<sup>th</sup> to 21<sup>st</sup> June and 26<sup>th</sup> to 29<sup>th</sup> December respectively. The examinations were conducted smoothly in 73 inland and 2 overseas centers. The details of applicants for June 2006 and December 2006 examinations were:



		June 2006	Dec 2006
Intermediate	Single Stage	14236	16286
	Both Stage	1946	2185
Final	Single Stage	4275	4453
	Both Stage	680	834
Foundation		2833	4257
Total		23970	28015

With the active support of the Chairman and the members of the Examination Committee and all concerned, the examination was conducted peacefully maintaining time schedules and stringent standards. Continuous and sincere effort was exerted by the Examination Directorate to give better and faster service to the students and also to make the internal systems to be more proactive.

The admit cards were sent to the students well in advance and the result was declared on the fixed dates in about two months time from the commencement of the examination. The admit cards and results were hosted in the website [www.mylcwai.com](http://www.mylcwai.com). The examination timetable was also hosted in the website.

In order to facilitate better preparation for examination, the Examination Directorate had started publishing the Examiners' and Head Examiners' comments on the performance of the students on each subject in the Student Journal. The same had been put in the website also. The student community has appreciated this as well.

Annual prize distribution ceremony was held during the National Cost Convention at Hyderabad in Mid-January 2007. It turned out to be a great event with almost cent percent participation by the successful prizewinners and their guardians. Many dignitaries and the Presidents of all the three Institutes were present during the convention.

During the year, eight meetings were held by the Examination Committee to discharge various examination related duties.

The list of examinations centers is given below.

**Examination Centers – June 2006 & December 2006**  
Inland :

Western Region	Southern Region	Eastern Region	Northern Region
Ahmedabad	Bangalore	Agartala	Allahabad
Aurangabad	Chennai	Asansol	Chandigarh
Baroda	Coimbatore	Bhubaneswar	Dehradun
Bhilai	Ernakulam	Berhampore	Delhi (3 centres)

Bhopal	Hyderabad	Bokaro	Faridabad
Bilaspur	Kottayam	Cuttack	Ghaziabad
Indore	Madurai	Dhanbad	Hardwar
Kalyan	Mangalore	Durgapur	Jaipur
Kolhapur	Mysore	Guwahati	Jalandar
Mumbai (3 centres)	Neyveli	Howrah	Jammu
Nagpur	Pondicherry	Jamshedpur	Jodhpur
Nasik	Rajahmundry	Kolkata	Kanpur
Panaji (Goa)	Salem	Naihati	Kota
Pune	Thiruvananthapuram	Patna	Lucknow
Surat	Tiruchirapalli	Ranchi	Patiala
Vindhyagar	Tirunelveli	Rourkela	Udaipur
	Thrissur	Shillong	
	Vellore		
	Vijayawada		
	Waltair		

**Overseas :**

	Dubai	Muscat
--	-------	--------

**MEMBERS' SERVICES AND MEMBERS' FACILITIES**

During the year, 633 candidates were admitted as Associate members and 155 Associate Members were elevated as Fellow Members compared to admission of 659 as Associate members and elevation of 147 as Fellow Members respectively during the previous year. As on 31<sup>st</sup> March 2007, the total number of members stood at 24998, out of which 21894 are Associate Members and 3104 are Fellow Members compared to total number of members of 15062 as on 31<sup>st</sup> March, 2006, out of which 12952 were Associate Members and 2110 were Fellow Members. The number of Members in Practice was 1477 as against 1550 in the previous year. The number of Grad. CWAs enrolled during the year were 266 as against 173 in the previous year, and the total no. of Grad. CWAs as on 31<sup>st</sup> March 2007 were 13893.

The details are indicated in the following table:

PARTICULARS	ASSOCIATE	FELLOW	MEMBERS IN PRACTICE	GRAD. CWA
OPENING AS ON 1.4.2006	12952	2110	1550	13853
Add: New Enrolment during the year	633	155	176	266
Add: Restored during the year	8320	844		
Less: Removed during the year	11	5	249	226
CLOSING AS ON 31.3.2007	21894	3104	1477	13893

3979 GI/07-9

During the year, efforts were made by the Members' Services and Members' Facilities Committee to achieve the following targets in line with the objectives of the Institute:

1. An amount of Rs.88.07 lakhs could be collected towards membership fee dues.
2. To realise the dues from Members a special drive was launched and enable them to get acquainted with various guidelines, a booklet was released and a good response to the same was received.
3. Similar drive was launched to realise the dues from Grad. CWAs. Good response was received and a number of them cleared their dues.
4. Digitalization of records of members and Grad. CWAs through scanned documents were carried out.
5. Payment Gateway system became more popular which enables the members to pay their fees throughout the world through Internet by Credit Card.
6. Special drive was launched to convert the Grad. CWAs into Associate Members of the Institute.
7. Steps towards further development of computerisation work of the Membership records were undertaken. Further system development activities are in progress.
8. In order to reduce the paper work to minimum possible and encourage members to make more use of e-mail, prompt reply to their queries through e-mail are given regularly. The website is being constantly upgraded to meet the requirements of members.
9. To meet the requirement of professional skills in the current dynamic economic scenario, Cost Accountants in practice should equip themselves with the new skills and concepts to meet the challenges and render great services to trade, commerce and industry. Accordingly, the existing scheme for mandatory training to the members in practice has been modified to make the scheme flexible.
10. List of Members and List of Members Holding Certificate of Practice have been made available in CD in addition to printed books.

The Committee hopes that the steps taken would definitely result in providing better services to the members. Valuable suggestions are sought for further improvement.

#### **RESEARCH**

The Institute is a Scientific and Industrial Research Organization (SIRO) as recognized by the Government of India.

During the year massive efforts have been made in creating infrastructures for research activities of the Institute at various places of the country. The ICWAI Research & Training Centre at 84 Harish Mukherjee Road, Kolkata, has been made operational and further creation of utilities will be taken up soon. Institute's

research activities have been mainly focused on applied research projects sponsored by government agencies, ministries & regulators as well as leading industry associations and market leaders in respective fields.

We have completed our study on Prime Cost Variation Formula for Rubber backed, cotton & steel reinforced conveyor belts sponsored by a leading enterprise in the market, M/s Phoenix-Yule Limited. It will go a long way in setting industry standards and corporate benchmark for excellence. Two big projects sponsored by Tea Board of India are in progress. One project relates to Cost of Production and Cost of Development Programmes of 1600 big gardens in the country and another relates to the Cost of Production of Small Growers and Cost of Manufacturing of Bought Leaf Factories of the country. The projects when complete will help in setting industry standards as well as driving policy decisions for the growth and prosperity of Tea Plantation and Tea Industry in the country. The Competition Commission of India has awarded the Institute a project on Tea Auction Market. A Project on E-Learning sponsored by the HRD Ministry of the Union Government was in progress.

The Institute is also undertaking in-house projects for which technical manpower of Research Directorate is being strengthened. A project on cost-benefit and knowledge productivity of E-Learning system is in progress. Research Bulletin of the Institute is being brought out twice a year, which has been acclaimed all over the country for its rich contents contributed by experts from different fields.

#### **JOURNAL**

The professional utility of the journal has been further enhanced and focus is given on the three major components of management accounting profession namely, management, strategy and accounting. An optimum blend has been attempted combining professionally useful as well as academically enriched articles and emerging tools & techniques with focus on new and emerging areas besides niche areas of cost and management accountants. Both national and global dimension of various issues at stake have been given due consideration in appropriate socio-economic perspectives. The articles, editorials, various other features and information pages of journal have been widely acclaimed. A fully computerized system of handling various queries and address change requests has improved delivery of journal to a very large extent. Uploading of journal addresses on Institute's website and net-enabled system of changing address of individual members and subscribers have further improved the scenario. The student edition of journal continues to be a student friendly guide, essential for widening knowledge and improving performance in the examinations.

#### **ICWAI NATIONAL CONVENTION, 2007**

The 48<sup>th</sup> National Cost Convention was held at Hyderabad during 18-20 January, 2007 on "Accelerating Economic Growth - Unlocking Value by Management Accountants". The Convention was

inaugurated by Dr C. Rangarajan, Chairman, Economic Advisory Council to the Prime Minister of India. S/Shri Paul A. Sharman, President and CEO of IMA – USA, and Jim Gurowk, Vice President IMA – USA, were the foreign guests of honour who addressed the Convention. Shri Dasari Narayana Rao, Union Minister of State for Coal, addressed the valedictory session and an MOU was signed with the Society of Certified Management Accountants of Sri Lanka. Shri L.R. Watawala, President of the Society, addressed the audience. Students' Convention, Practitioners' Meet and Regional Council and Chapters' Meet were held on 17.1.2007. In the Students' Convention, Presidents of the ICWAI, ICAI and ICSI shared the dais and addressed the students.

#### CONTINUING EDUCATION PROGRAMME

The Continuing Education Programme Committee is playing a very important role in disseminating knowledge through its resource faculty to around 2000 executives of Indian industry every year through its various management development programmes organized all over India and abroad. The Committee organized sixty in-house and self-run management development programmes during the year as per details given below:

Sl. No	Name of Programme	Duration	Venue
1.	Excise Audit	14-16 April	Lucknow
2.	Financial Management for OADB	17-19 April	New Delhi
3.	Airport Authority of India Assignment	21 April	New Delhi
4.	Finance for Non-finance Executives for NSC Ltd.	6 May	New Delhi
5.	Excise Audit	26-28 May	Pune
6.	ISI Programme – Six Sigma	23 June	Chennai
7.	Excise Audit	17-19 June	New Delhi
8.	Financial Management	20-23 June	Ooty
9.	Finance for Junior Finance and Accounts Officers	20-23 June	Ooty
10.	Internal Audit for NEA	21-30 June	New Delhi, Mumbai
11.	Costing for Engineers for SJVNL	26-28 June	Shimla
12.	Current Cost Management Practices in India	15 July	New Delhi
13.	New Accounting Standards and IFRS	17-20 July	Tirupati
14.	NEA Programme on Human Resource Management	18-28 July	New Delhi, Mumbai
15.	Financial Management for NGOs	27-28 July	New Delhi

16.	ONGC Programme on Basic Finance Skills for Managers	3-7 July	New Delhi
17.	Service Tax, VAT, TDS and FBT	6-7 July	New Delhi
18.	Study for Rajasthan State Mines & Minerals Ltd.	July-August	Jodhpur
19.	Corporate Tax Planning	2-4 August	Hyderabad
20.	TRAI's Regulation on Accounting Separation, Metering and Billing Accuracy and other Compliances	3-4 August	New Delhi
21.	Finance for Non-Finance Executives for MMTC Ltd.	10-11 August	New Delhi
22.	Contract Management	28-29 August	New Delhi
23.	Intensive Programme for Power Sector on Financing, Pricing and Accounting System	28-20 August	New Delhi
24.	IRCON Programme on Taxation	3-5 August	Gurgaon
25.	Advance Tax, TDS and FBT	12-14 Sept.	New Delhi
26.	Emerging Issues in Corporate Finance	18-20 Sept.	Pune
27.	Internal Auditing	9-12 October	Goa
28.	Finance for Junior Finance and Accounts Officers and Non-Executives (F&A)	9-12 October	Goa
29.	IRCON Programme on Foreign Exchange and Project Evaluation	12-14 October	New Delhi
30.	Service Tax, VAT, TDS and FBT	31 October - 3 November	Pondicherry
31.	DPE Programme on Financial Risk Management	31 October - 3 November	Pondicherry
32.	Corporate Finance	7-10 November	Darjeeling
33.	Indian and International Accounting Standards	13-16 Nov.	Ooty
34.	Project Evaluation for Ministry of Tourism	17-19 November	New Delhi
35.	Strategic Financial Management	22 Nov. - 2 December	Singapore, Bangkok and Kuala Lumpur
36.	Cost Control and Cost Effectiveness	5-7 Dec.	Chennai
37.	ONGC Programme on Planning	13-15 Dec.	Dehradun

	Superannuation		
38.	Foreign Exchange Risk Management	13-15 Dec.	New Delhi
39.	ONGC Programme on Organizational Budget (CAPEX and OPEX)	18-22 Dec.	New Delhi
40.	Advance Tax, TDS and FBT	19-22 Dec.	Bhubaneswar
41.	Finance for Junior Finance and Accounts Officers and Non-Executives	19-22 Dec	Bhubaneswar
42.	Finance and Auditing for Vigilance Officers	27-29 Dec.	New Delhi
43.	Performance Optimization and Management Audit	3-5 January	Kolkata
44.	Finance & Control Module of ERP Oracle	8 Jan–28Feb.	New Delhi
45.	International Accounting Standards and IFRS	16-19 January	Kathmandu
46.	Taxation for HUDCO	24-25 January	New Delhi
47.	Recent Trends in Financial Management	29-31 January	Hyderabad
48.	Corporate Accounting Policies, Methods and Practices	Jan. 30 – 2 February	Pondicherry
49.	ONGC Programme on Basic Finance Skills for Managers	5-9 February	New Delhi
50.	Cost Management Programme for Indian Navy	19-23 February	New Delhi
51.	Costing Methodology for Department of Posts	12-14 March	New Delhi
52.	Internal Audit for NEA	14-25 March	Delhi and Mumbai
53.	Competition Act, MCA 21 and Service Tax	6-7 May	Kolkata
54.	Cost Management for Higher Profitability	2-3 June	Guwahati
55.	Excise Audit	9-11 June	Kolkata
56.	Indirect Taxation, FBT Custom and EXIM Policy	15-16 Oct.	Kolkata
57.	VAT and Contract Management	3 November	Kolkata
58.	ONGC Programme on Cost Reduction, Cost Control and CARR (Delhi Office Prog.)	13-16 Nov.	Kolkata
59.	Companies Act and Role of Cost and Management Accountants in the event of Emergence of this Act	12 January	Kolkata
60.	Prospective Role of Cost and Management Accountants in Indirect Taxation vis-à-vis Budget 2007	27 March	Kolkata

The Committee organized an exclusive programme on Internal Auditing for Effective Management Control for the executives of Nepal Electricity Authority, Kathmandu, Nepal, at New Delhi and Mumbai. The participants were taken to various power plants for practical exposure and knowledge apart from the classroom sessions. These programmes for the international participants have been regularly organized for the past two years.

The Committee organized international programmes every year at Singapore, Kuala Lumpur and Bangkok almost for the last ten years with the help of foreign faculty members and foreign institutions. This year an exclusive international training programme was organized at the above places. International faculty from Singapore and Kuala Lumpur handled the sessions. A special interaction session was also organized with the President and Council Members of the Malaysian Institute of Certified Public Accountants at Kuala Lumpur. The programme was very well received and appreciated by all the participants from various private and public sector enterprises.

For the first time, a special programme was organized on Six Sigma – Green Belt-Black Belt jointly with the Indian Statistical Institute, which was a grand success. The Institute organized at concessional fee exclusive training programme for the members on ERP – Finance and Control Module at the training centre of Oracle India (Pvt.) Ltd.

An exclusive programme was organized on TRAI's Accounting Separation, Metering and Billing Accuracy and other Compliance for the benefit of the executives of Telecom Sector with the help of faculty drawn from Telecom Regulatory Authority of India and also from other service providers. Another programme was also organized for senior officers of the Ministry of Tourism, Government of India, and other State Governments on Project Evaluation.

A prestigious programme on Costing Methodology was organized for the senior officers of the Department of Posts, Government of India. As desired by the Department of Posts, the Committee will be organizing many more programmes on the topic at different regions for the benefit of the senior officers of the Department. An exclusive intensive training programme was organized for the power sector on Financing, Pricing and Accounting for Power Sector, which was well attended by senior executives of power companies in large number.

The Management Development Programmes were attended by junior, middle and senior level executives from finance and other disciplines of public and private sector enterprises, banks, financial institutions, insurance companies, multinationals and government departments. The in-house programmes were organized for Oil Industry Development Board, National Seeds Corporation Ltd., ONGC Ltd, Nepal Electricity

Authority, IRCON International, Ministry of Tourism, Govt. of India, Housing & Urban Development Corporation Ltd., Department of Posts, Govt. of India, Indian Navy, Govt. of India, Satluj Jal Vidyut Nigam Ltd. and MMTC Ltd.

The Committee is planning to organize around seventy-five in-house and self-run programmes during the next year at different places throughout the country to update knowledge of the executives from different sectors. Already negotiations are underway with many organizations for organizing such programmes for their executives.

#### PROFESSIONAL DEVELOPMENT (TECHNICAL)

During the year, the following professional development activities were taken up to develop the professional opportunities for members:

1. Guidance Note on Determination of Service Tax was prepared and the same was submitted to Ministry of Finance to establish the importance of cost in determination of value of service and costing systems to be adopted for valuation of notional cost relating to a service.

2. Representation was made to Shri M.Jayaraman, Chairman, Central Board of Excise and Customs, Ministry of Finance, Government of India, for empowering Cost Accountants with the audit of Service Tax under Section 14AA of Central Excise Act, 1944.

3. Representation was made to Shri P.Chidambaram, Hon'ble Minister of Finance, Government of India, for amendment of Income Tax Act, 1961 to include Cost Accountants in the definition of Accountant. The response was very positive. The matter also was taken up with the Ministry of Company Affairs.

4. Proposals for amendments in Companies Act, 1956 were placed before the Ministry of Company Affairs for making the following provisions:

i) Certification of value of inventory by Cost Accountants for the purpose of Annual Report of the companies.

ii) Mandatory cost accounting system for allocation of common expenses/assets for the purpose of accurate segmental reporting.

iii) Certification for adoption of proper transfer pricing by Cost Accountants in case of related party transactions.

5. A National Seminar on "Cost Audit – A Way Ahead" was organized on 2.2.2007 at Delhi on the advice of the Hon'ble Minister of Company Affairs to have close interaction with the users of cost audit like industry, government, consumers, shareholders, etc. to make it a more effective tool for generation of reliable and standardized cost data base and improve its utility. The seminar provided extremely good input and support on the utility of cost audit from corporate sector, financial institutions, senior executives from public and private sector undertakings, consumers' forum, etc.

6. The questionnaires for National Award for Excellence in Cost Management 2006 was reviewed by the Screening Committee of the Award under the Chairmanship of Shri D.K.Sarraf, Director (Finance), ONGC Videsh Ltd. and good improvement could be achieved. A Jury was constituted under the Chairmanship of Hon'ble Justice Shri J.S.Verma, former Chief Justice of Supreme Court of India, for selection of recipients of award. The Jury had a meeting on 1.3.2007 wherein it was decided to have a thorough review of evaluation scheme.

7. Report of the Working Group constituted by the Ministry of Company Affairs under the Chairmanship of Shri Chandra Wadhwa, Vice President, to suggest institutional framework for Corporate Valuers was submitted and the Report was highly appreciated by the Ministry. The Report proposed for a framework for developing specialized corporate valuation professionals in India and recommended that members of the three Institutes – ICWAI, ICAI and ICSI may be recognized for the purpose of registering as Corporate Valuation Professionals.

8. A Draft Cost Accounting Records (General) Rules was prepared by Shri M.L.Mehta, former Addl. Chief Adviser (Cost) with an aim to have more flexibility in easy compilation of data from ERP system/MIS for the purpose of maintenance of cost records.

9. The Draft Cost Accounting Records (Banking) Rules were presented before senior officials of Reserve Bank of India at Mumbai by Shri K.G. Goyal, Chairman of the Committee, Shri K. Narsimha Murthy, Practising Cost Accountant and other members and also to the Minister of State of Ministry of Finance, Banking (Government of India). Both RBI and the Ministry of Finance were very positive in the matter of usefulness of the Cost Accounting Records Rules in Banking Sector.

#### COST ACCOUNTING STANDARDS BOARD

The Council approved the CAS 6 on Determination of Arm's Length Price.

#### WTO AND INTERNATIONAL AFFAIRS

The Institute represented in the India-UK Accountancy Task Force in its several meetings towards evolving better cooperation in improvement of relations between Indian and British Accountancy professionals for trade in services under WTO. Shri Chandra Wadhwa, Chairman of the Committee, played a very pro-active role in enhancing opportunities for Cost Accountants in trade in accounting sectors between the two countries. The Institute took up the negotiation process for MRA with the professional bodies of developed countries like UK, USA, Canada, etc. The Institute also took part in negotiation process in trade in accountancy sector with countries like Mauritius, Singapore, Korea and other countries.

3979 GE/07-10

**MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS**

**1. E-Filing:** The Ministry of Company Affairs has launched a major e-Governance initiative known as MCA 21 Project. An important component of MCA 21 is that it facilitated e-filing of various forms and applications under the Companies Act 1956 and the Rules and Regulations framed there under. The ICWAI was a technical member on the committee constituted by the Ministry of Company Affairs for finalizing e-forms. The Committee successfully submitted its report to the Government.

**2. Working Group:** The Ministry of Company Affairs constituted a Working Group to suggest instrument of charge to be submitted along with Form 8. The ICWAI was a member in the Working Group. The Committee successfully suggested changes to the form 8 and submitted its report to the Government.

**3. Coordination Committee meeting:** The ICAI-ICWAI-ICSI Co-ordination Committee meeting was held on 22<sup>nd</sup> August 2006 at ICWAI Bhawan New Delhi-110003. The meeting was chaired by Shri Dhananjay V Joshi President ICWAI, which was attended by Shri T.N. Manoharan President ICAI, Shri H.M. Choraria President ICSI, Shri Chandra Wadhwa Vice-President, ICWAI, Shri Rakesh Singh CCM-ICWAI, Shri K G Goyal CCM-ICWAI and some Central Council Members from ICAI and ICSI also attended the meeting. Number of items relating to mutual cooperation among the members of the three Institutes was discussed to strengthen the professional capabilities of accounting fraternity in India to face the challenges of opening up of Accounting Sector under WTO. Holding of joint professional development programmes, sharing common resources and infrastructure was discussed in the meeting.

The ICAI-ICWAI-ICSI coordination committee meeting was held at ICAI, ICAI Bhawan Indraprastha Marg, New Delhi-2 on 7<sup>th</sup> May 2007. Shri Sunil Talati President ICAI chaired the meeting. Shri D.V. Joshi President ICWAI, Shri K G Goyal CCM-ICWAI, Shri Rakesh Singh CCM-ICWAI, Ms. Preeti Malhotra President ICSI and other Central Council members of ICAI and ICSI along with senior officers of the three Institutes attended the meeting. The meeting inter alia discussed issues relating to setting up of Indian Institute of Corporate Affairs by the MCA, Course on Corporate Valuation, taking stock of the position in regard to Rules already specified and the Regulations to be made under the Amended Acts, policy relating to formation of Multi-disciplinary partnership and LLPs, modalities for organizing joint programmes by the three Institutes, granting of credit hours etc.

**4. Submission of Memorandum and oral submission to the Parliamentary Standing Committee on Finance:** The Institute had submitted a memorandum to the Parliamentary Standing Committee on Finance on the Limited Liability Partnership Bill 2006, which was introduced in the Rajya Sabha on 15<sup>th</sup>

December 2006. The memorandum requested for inclusion of the name of cost accountant in the clause 11(1)(c) of the Bill. Based on the memorandum submitted by us, the Parliamentary standing committee invited the Institute to present oral evidence before them on 27<sup>th</sup> June 2007. Accordingly Shri Dhananjay V Joshi President, and Shri Chandra Wadhwa Vice-President made oral submissions. Shri A.P. Kar Sr. Director (Technical) and Shri S. Bhasker Deputy Secretary provided technical guidance and inputs.

**REGIONAL COUNCILS & CHAPTERS COORDINATION COMMITTEE**

During the 48th National Convention, the Chapters' Meet was held on 17.1.2007 at Federation of Andhra Pradesh Chambers of Commerce & Industries, Hyderabad. The said meeting was chaired by Shri Pravakar Mohanty, Chairman of the Committee and S/Shri Dhananjay V. Joshi, President, Chandra Wadhwa, Vice President, along with other Central Council Members attended. Representatives of the Regions and Chapters were present and constructive views were exchanged regarding various affairs of professional development of the Institute. The following chapters were awarded with a scroll of honour and a plaque as a mark of their commendable performance during the year:

**Name of Regions      Name of Chapters**

WIRC	Nagpur, Baroda and Bhilai
SIRC	Bangalore, Vijayawada and Ukkunagaram
NIRC	Jaipur, Lucknow and Jalandhar
EIRC	Cuttack-Bhubaneswar, Asansol and Ranchi

**WESTERN INDIA REGIONAL COUNCIL**

The WIRC undertook the following activities during the year under review :

(1) WIRC publishes News Bulletin every month, which contained information and activities carried out by the Region and its Chapters. It has seven Learning Centres. The total number of students enrolled at the centres for Foundation, Inter & Final were 1605. In order to have a better and more frequent interaction between the students and faculty, two students' representatives on the co-ordination committee were nominated.

(2) Group discussions and business communication seminars, newly introduced by the Institute, were held in October, 2006 and April, 2007 for oral/postal students. Modular Training Course was held in October, 2006 and May, 2007 for oral/postal students. It conducted free refresher course lectures for the students for December 2006 and June, 2007 examinations of Intermediate Stage-I & II on subjects like Cost and Management Accounting, Business Taxation, Management Accounting & Performance Management and Advanced Financial Accounting in October 2006 and May 2007. CMA Mrs. Varsha Pendse, Mr. Paresh Rawal, CMA M.B. Ashtamker and

Mr. Suresh Dhoot were the faculty members. 3022 students were enrolled under the correspondence course. CMA P.V. Bhattad, Chairman, Students, Members & Chapter Co-ordination Committee, took lot of efforts to improve services to Postal students.

(3) Meeting of faculty members teaching at oral and postal coaching centres was held on 25.11.2006. CMA Dr. N.M. Vechalekar, Chairman welcomed the faculty members and gave an outline of the activities undertaken to improve the quality of coaching further. CMA Sanjay Bhargave, Hon. Secretary & Treasurer and CMA Ashwin Dalwadi, Past Chairman, addressed the faculty members. CMA Sanjay Bhargave gave vote of thanks.

(4) Students' Day programme for students undergoing coaching in oral and postal was held on 10.2.2007. CMA Dhananjay V. Joshi, President, inaugurated the function. Dr. Sadanand Date, Addl. Commissioner of Police, Mumbai and Grad. Member of the Institute was the Chief Guest. CMA Dr. (Mrs.) Anjali Bhawe was guest of honour. CMA Sanjay Bhargave and CMA Ashwin Dalwadi were also present. Felicitation of meritorious students in the previous examinations was also carried out on the occasion. The examinations were conducted smoothly at three Centers at Mumbai.

(5) Computer training for intermediate and final students were imparted. 964 students underwent the training. The Computer Lab was equipped with latest software and hardware of computers were upgraded. The website was updated regularly. Online registration for seminars/CEP were made available for members through site. Suggestions/comments are requested to further improve its utility. Large number of students and members were benefited from the library facilities. From January 2007 onwards WIRC subscribed to different foreign and inland magazines for reference of students and members. Library facilities have also been provided at all Learning Centres.

(6) WIRC is having multiple ways of employment scheme for the benefit of the students. Large number of students got employment through placement services. A list of reputed organizations approaching the Region is given below.

APW President Systems Ltd., Ashapura Minechem Ltd., Balmer Lawrie Co. Ltd., Bharat Serums and Vaccines Ltd., BHEL, Birla Sun Life Ltd., BSN Medicals Pvt. Ltd., Cadbury India Ltd., Cipla Ltd., Corromandel Fertilizers Ltd., Emercon (India) Ltd., Emerson Ltd., Force Motors Ltd., Gammon India Ltd., Goldstar Jewellery Ltd., Hawkins Cookers Ltd., Hindalco Industries Ltd., Hindustan Lever Ltd., Isagro (Asia) Agrochemicals Pvt. Ltd., Ispat Industries Ltd., Kansai Nerolac Paints Ltd., Kumar Builders Ltd., Locksmiths Industries Pvt. Ltd., Micro Inks Ltd., Moraya Globals Ltd., Nicholas Piramal (India) Ltd., Nirmal Lifestyle Ltd., RPG Lifesciences Ltd., Shell Lubricants Ltd., Videsh Sanchar Nigam Ltd.

(7) Many leading organizations like Convansys, HCC Ltd., Ispat Industries Ltd., Kumar Builders, Maharashtra Economic Development Council, Nicholas Piramal India Ltd., ONIDA-MIRC Electronics Ltd., etc., have placed their requirements at the website also. UCO Bank had conducted campus interview on 7.2.2007 for recruiting fresh candidates at their various branches for the post of Generalist Officer in Junior Management Grade Scale - I. M/s. Mahindra & Mahindra Financial Services also conducted campus interview on 9.4.2007 for selecting fresh candidates in junior level officers.

(8) The CEP Training Programmes for the benefit of the practising and general members were conducted as follows :

Date	Topic	Speaker
30-09-2006	An Integrated approach to Business Planning	CMA A.N. Choksey
07-10-2006	Strategic Cost Management	CMA Girish Jakhotiya
28-10-2006	Capital Market	Mr. Prakash Gaba
11-11-2006	Export Finance	CMA Debashish Mitra
25-11-2006	Updates in Indirect Taxes – Central Excise & Ser. Tax	CMA Sanjay Bhargave
26-11-2006	Updates in Indirect Taxes – Central Excise & Ser. Tax (at Thane)	CMA Sanjay Bhargave & CMA A.B. Nawal
02-12-2006	Cost Reduction through Supply Chain Management	CMA Prof. Anil Chaudhal
09-12-2006	SEZ & EOUs – Emerging Issues	CMA A.B. Nawal
10-12-2006	Updates in Indirect Taxes – Fringe Benefits Tax and SEZ (Ahmednagar)	CMA A.B. Nawal CMA Sanjay Bhargave CA C. Chitale
22-12-2006	Special Economic Zones – A Trigger to growth of Indian Economy	CMA A.B. Nawal CMA Manoj Behede CA Ms. Monica Joshi
06-01-2007	Recent Trends in Foreign Exchange	Mr. Prakash Pethe
13-01-2007	Intellectual Property Rights	Mr. Sanjay Niphadkar, Practicing Company Sec.
17-02-2007	Regional Cost Conference 'Special Economic Zones, Central Excise & Service Tax (Indore)	CMA V.S. Datey CMA A.B. Nawal CMA Sanjay Bhargave

28-04-2007	Strategic and Operational Aspects of Cost Competitiveness	PCA Mr. Pradeep Pathak
23-06-2007	Balanced Score Card – Emerging Area for consultancy – Real Life Simulation	CMA R.N. Bhawe

(9) A Members' Meet was held on 22.12.2006. CMA Dhananjay V. Joshi, President, was the Chief Guest and CMA Chandra Wadhwa, Vice-President, was the Guest of Honour. CMA Dr. N.M. Vechalekar and CMA Sanjay R. Bhargave were also present. Past Presidents CMA P.D. Phadke and CMA V.V. Deodhar also attended the meeting. Past Chairmen CMA Ajit N. Patel, CMA G.R. Kulkarni, CMA S.R. Kale, CMA N.S. Acharya, CMA Y.R. Doshi and CMA S.R. Ray graced the occasion. CMA Dr. N.M. Vechalekar gave a brief presentation about the activities for the last 3 years. He also briefed about the CEP programmes held at various locations. CMA Dhananjay Joshi, President, gave an impressive and informative presentation about various activities of the Institute. CMA Chandra Wadhwa, Vice-President, also shared his thoughts on several issues. The presentation given by CMA Dr. N.M. Vechalekar, CMA Dhananjay V. Joshi, President and CMA Chandra Wadhwa, Vice-President, were highly appreciated. The newly elected President and Vice-President and CMA Dr. N.M. Vechalekar were felicitated in this meeting. The Past Presidents and Past Chairmen and senior most members were also felicitated.

(10) A Members' and Practitioners' Meet was organised on 18.5.2007. CMA B.B. Goel, Advisor Cost, Department of Corporate Affairs, was the Chief Guest. CMA Dhananjay Joshi, President, was the Guest of Honour. Welcome speech was given by CMA Mrs. Aruna Soman, Member. CMA B.B. Goel, the Chief Guest, answered their queries and advised the members and practitioners to sharpen their skills for professional excellence.

(11) CMA Dhananjay Joshi gave presentation on 'Limited Liability Partnership Act' and on 'Council of Valuers'. He informed the members that professional opportunities were increasing substantially in various fields and members should develop expertise in these areas. Large number of members attended this meeting.

(12) Indore-Dewas Chapter organized Regional Cost Conference on 17.2.2007 on Special Economic Zones (SEZ) and Central Excise and Service Tax. The Conference was inaugurated by Mr. Arvind Singh, Commissioner, Central Excise, Indore. CMA Dhananjay V. Joshi, President, was the Guest of Honour. Mr. Arvind Singh, Commissioner, Central Excise, in his inaugural speech told that the concept of SEZ is extremely important and useful in the current scenario but there are difficulties in implementation of the same.

CMA Dhananjay V. Joshi, President, also opined about the several problems in implementing the concept of SEZ. CMA V.S. Datey, CMA Sanjay Bhargave, CMA Ashwin G. Dalwadi, CMA A.B. Nawal, CMA S.G. Narasimhan, CMA Rajesh Shukla and Mr. V.K. Mahajan were the eminent speakers in the Conference. Chapters' Meet and Members' Meet were also arranged on the same day.

(13) Directorate of Khadi Programme and Monitoring, Khadi and Village Industries Commission, Maharashtra, assigned WIRC to conduct study for evaluating cost of 8 – Spindle Charkha and looms, at its five different places. It was also entrusted another Applied Research Study Project – study of existing Khadi Cost Chart Mechanism vis-à-vis Costing Principles during the year, and the final report was submitted. The Khadi Commission appreciated the work done at the shortest available time. CMA Sanjay Bhargave was Chief Co-ordinator of the Project. IG Mint, Govt. of India, entrusted the project entitled Applied Research Project for Security Printing and Minting Corporation of India Ltd Unit: India Govt. Mint- Mumbai to the Region for suggesting and developing a simplified the costing methodology to be adopted for scientifically ascertaining the cost of various activities carried out by the Mint. The project was completed and the final report was submitted. CMA Dr. N.M. Vechalekar coordinated the project.

(14) The Training programme 'Reliance Certified Accountants' at Jamnagar Petroleum Complex for executives of Reliance Industries Ltd. was completed. CMA Ashwin G. Dalwadi, Chief Coordinator and CMA P.D. Modh, Chairman, Ahmedabad Chapter, put lot of efforts to make the programme successful. A training programme for Govt. of India, IG Mint officers covering subjects like Financial Accounts, Cost Accounts, Company Law and other Commercial Laws, Direct and Indirect Taxation, change of accounting system from single entry to double entry system was conducted from 17-21 July, 2006. CMA Dhananjay Joshi, President, CMA V.C. Kothari, CCM., and CMA Sanjay Bhargave had taken lot of efforts for the successful completion of this training assignment. A two year training programme for the employees of IPCL Ltd. was inaugurated by CMA Dhananjay V. Joshi, President, on 29.3.2007. The subjects proposed to be covered will include Cost and Management Accounting, Financial Accounting, Corporate Laws, Direct & Indirect Taxation, etc. CMA Dr. N.M. Vechalekar would coordinate the training programme.

#### SOUTHERN INDIA REGIONAL COUNCIL

The SIRC undertook the following activities during the year under review :

(1) The 48<sup>th</sup> National Cost Convention was held at Hyderabad between 18<sup>th</sup> and 20<sup>th</sup> January, 2007 on Accelerating Economic Growth - Unlocking Value by Management Accountants. In the inaugural session,



key note address was given by Shri Paul A. Sharman, President/CEO, IMA, USA and inaugural address was given by Dr. C. Rangarajan, Chairman, Economic Advisory Council to the Prime Minister. In the plenary session, Shri B. Ramesh Kumar, CMD, NMDC, was the chairman and Shri E. Sudhir Reddy, CMD, IVRCL Infrastructures and Projects Ltd., and Shri V. Srinivas, C.F.O. Satyam Computer Services Ltd., addressed the delegates. Dr. Sudharshan Padam, Professor, Administrative Staff College, chaired technical session 1A in which Life Cycle Evaluation and Business Models and Management Accounting Interface were discussed. Ms. Indu Liberhan, Pr. Advisor (FA & FA), Telecom Regulatory Authority of India, chaired the session 1B in which Shri A.N. Raman, Management Consultant, gave presentation on Management Accounting Interface. Shri K.R. Lakshminarayana, CFO, Wipro Technologies, was the Chairman of technical session II where Shri M. Narasimha Rao, Infosys Technologies Ltd., and Dr. M. Kandan, President, SQL Star International Ltd. made presentations on Information Technology and IT Enabled Services respectively. Technical session III was chaired by S/Shri M. Gopalakrishnan, CCM where A.S. Durga Prasad, CCM, and Jim Gurowka, VP (IBD), IMA – USA made presentations on Life Cycle Evaluation and Business Model. Shri K.V. Balasubramanian, MD, Indian Immunological Ltd., chaired technical session IV where presentations on Life Cycle, Business Models and Management Accounting Interface were made. In the CEO's Forum which was chaired by Shri V.G. Narayanan, Jr. Professor of Business Administration, Harvard Business School, eminent speakers shared their experience on target costing, activity based cost management, ERP implementation and resource based dynamic strategy for cost management. During the valedictory session Shri Steve Vieweg, President & CEO, CIMA, Canada rendered Ganapathisubramanian Memorial Lecture. Prof. L.R. Watawala President, CMA, Sri Lanka also addressed the delegates. Shri Dasari Narayana Rao, Minister of State for Coal, Govt. of India, was the Chief Guest.

(2) The Regional Cost Convention which was organized on 23-24 March 2007 by the Coimbatore Chapter on Enterprise Excellence and Value Creation through Management Accounting was inaugurated by Shri D. Balasundaram, President, Indian Chamber of Commerce and Industry. Shri S. Mahalingam, Chief Financial Officer, Tata Consultancy Service, delivered the key note address. Shri Dhananjay V Joshi, President, rendered the Presidential Address. Earlier, Shri J. Sridhar, Chairman, Convention Committee, welcomed the distinguished gathering. During the plenary session S/Shri A. Venkatesan, VP – IT, Princol Ltd., T.G. Dhandapani, CIO, Sundaram Clayton Group and Sushil Baid, CFO, MALCO Ltd., spoke on Enterprise Excellence and Value Creation and shared their views. There were three technical sessions. In the valedictory session, S/Shri A. Velliangiri was the chief guest and V. Kalyanaraman, Past President – ICWAI and SAFA, was the guest speaker. Shri K.R.

Subramanian, Secretary of the Chapter, proposed vote of thanks.

(3) As per resolution adopted in the last Annual General Meeting, an Endowment Fund for conducting memorial lectures in the memory of eminent personalities, Ganapathisubramanian Memorial Fund was created and the minimum corpus fund of Rs.5 lakhs was contributed by the sponsors. The First Memorial Lecture was delivered by Mr. Steve Vieweg, President & CEO, CMA – Canada on 20.1.2007.

(4) A members' get-together was organised on 29.4.2006. Shri R. Narayanan, Chairman welcomed the members and their family. There was a cultural programme by the students, members and their wards. TV fame 'Bosky' and Mr. 'Abhaswaram' Ramji were the chief guests and distributed prizes to the participants. Senior members of Chennai were felicitated during the meet.

(5) The renovated Management Hall was inaugurated on 25.9.2006 by Shri Gopal Srinivasan, Jt. Managing Director, Sundaram Clayton Ltd. In his thought provoking address he stressed that the Institute may be renamed as Institute of Cost & Management Accountants. Members in good numbers participated in the inaugural function.

(6) A two day programme titled Cost Carnival – 2007 was organized on 9-10 March 2007 on 'Management Accounting Practices under Corporate Governance Environment'. The Carnival was well attended by the corporates and the practicing members.

(7) A Practitioners Meet was organised on 24.6.2006 on MCA-21, Cost Audit Report (Amendment) Rules 2006 and VAT. Shri Narayanaswamy, member of the profession explained various issues of MCA-21. Shri M. Gopalakrishnan, CCM, explained about the Cost Audit Report (Amendment) Rules 2006. Another meet was organized jointly with Association of Practising Cost & Management Association on 28.9.2006. Shri Dhananjay V Joshi, President, and Shri Chandra Wadhwa, Vice President, participated in the meet. Shri S. Gopalan, Past Chairman & President, APCMA, addressed the practising members.

(8) The Southern India Regional Councils of ICWAI, ICSI and ICAI jointly organized a Training Programme on MCA 21 on 2.9.2006 which was inaugurated by Regional Director, Company Law Board. Earlier, Shri S. Diraviam, Vice-Chairman, SIRC of ICSI, welcomed the guests and speakers. Representatives from Tata Consultancy Services organized the training session. Members of three Professional Institutes participated in the programme. A one-day seminar on MCA-21 and Cost Accounting Report (Amendments) Rules 2006 was held on 15.4.2006 and was inaugurated by Shri A.V. Ramana Rao, past President. A workshop on indirect taxation was held on 24.5.2006. The workshop was divided into two technical sessions. SIRC and Center

for Excellence, ICWAI jointly organized a two-day seminar on Central Excise on May 26-27, 2006. The seminar was inaugurated by Shri S. N. Balakrishnan, Commissioner-cum-Addl. Director General of Customs, Central Excise & Service Tax Audit. The two-day seminar was divided into four technical sessions. Nearly 25 practicing members attended the seminar and gave an excellent credit for the technical sessions.

(9) The Center for Excellence, Chennai and the Indian Statistical Institute Coimbatore, jointly organized a Training Programme on 'Six Sigma – Green Belt' from 23.6.2006 to 15.8.2006 which was inaugurated by Dr. R. Ramarathnam, Managing Director, Dalmia Electrodyn Technologies (P) Ltd. Prof. A. Rajagopalan of Indian Statistical Institute outlined the programme profile.

(10) A one-day seminar on Corporate Taxation was organized on 27.6.2006. Shri N. Srinivasan, Past Chairman, WIRC proposed vote of thanks. A one-day seminar on MCA-21, TDS & Service Tax was organized jointly with Pondicherry Chapter on 15.7.2006. S/Shri V. Gopalakrishnan, Chairman of the Chapter, welcomed the dignitaries and S. Hari Krishnan, Secretary, introduced the theme. Shri M. Gopalakrishnan, CCM, delivered key note address. The seminar was divided into four technical sessions.

A one-day seminar on Exports Imports Procedures & SEZ was organized on 3.11.2006 and was divided into two technical sessions. A 4-Day training programme on 'Indirect Taxation – Phase I' was organized on November 27–28 2006. The programme was divided into two phases. The first session on 'Central Excise Act' was handled by Shri P. Raveendran, Superintendent, Dept. of Central Excise. The second session on Valuation Rules under Central Excise & Cenvat was handled by Shri N. Viswanathan, Advocate & Consultant – Central Excise. The second day of the programme focused on Customs Act. Shri A.S. Hari Kumar, Asst. Director – Cost, Dept. of Central Excise and Shri P. Raveendran, Superintendent, Dept. of Central Excise, handled the sessions. A 3-day seminar on Central Excise was organized from 7–9 December 2006. The first day of the seminar focused on Central Excise Act and the second and third day sessions focused on Service Tax, Central Sales Tax, VAT and Special Audit under Section 14A/14AA. The second phase of the programme on Indirect Taxation was organized on 8-9 December 2006. The first day training focused on service tax and the final day of the training focused on Central Sales Tax, VAT & Special Audit under Central Excise. A one-day seminar on 'VAT' was organized on 21.12.2006 which was divided in three sessions. There was a panel discussion followed by the technical sessions. More than 35 Delegates drawn from industry and practitioners took part in the seminar.

(11) A training programme on Finance for Non-Finance Executives was organized on 4–5 January 2007. A one-day seminar on VAT for the practitioners was organized on 6.1.2007. The seminar was divided into four

technical sessions on VAT – An overview, Guidelines on TN VAT – Procedural Aspects, Forms & FAQ on TN VAT and Salient Features of TN VAT. There was a panel discussion followed by the technical session. A 4-Day Training Programme on Indirect Taxation for the executives of Southern Railway was organized on 31<sup>st</sup> January–3<sup>rd</sup> February 2007 and was inaugurated by Shri S. Vijayaraghavan, FA & CAO, Southern Railway. Shri M. Jeyachandren, FA & CAO, Southern Railway, also addressed the participants. Practicing Professionals of Indirect Taxation handled the sessions and the participants gave an excellent feedback for the sessions. During the valediction Ms Sujatha Jayaraj and Dr. S. Ram Mohan, FA & CAO, Southern Railway, rendered valedictory address and appreciated the Institute for the excellent arrangements and assured for more such training programmes for the benefit of their executives.

(12) An exclusive seminar on Financial Management & Management Accounting perspectives in BPO Sector was organized on 17.3.2007. The seminar was inaugurated by Shri Srinivasa Gopalan, CEO, Lister Technologies Pvt Ltd. Shri R. Narayanan, Chairman, P.D. Committee, introduced the speakers. The seminar was divided into five sessions on Accounting Standards applicable to BPO, Transfer Pricing issues of BPO, Activity Based Costing Framework as applicable to BPO Sector, Risk Management Framework in BPO Sector and Strategic Management issues in BPO Sector. Shri D.L.S. Sreshti, Chairman, proposed vote of thanks. The delegates from the BPO companies evinced keen interest and appreciated the efforts of the Institute for its thoughtful sketching of the programme.

(13) The details of other professional development meetings held during the year include topics like financial market analysis, service tax, current trends in cost management of spinning mills, quality certificate and the role of cost accountants in practice, accounting standards – an update, strategic cost management in garment manufacturing industry, ERP & business intelligence tools – global opportunities for cost accountants, competition driven cost management, VAT, international financial reporting standards, intellectual property rights, opportunities for professionals in Canada, Limited Liability Partnership, FEMA – recent developments & issues, cost management in sugar industry – recent trends, cost management in paper mills, Right to Information Act – appreciation programme, alignment – corporate synergy, shop floor cost initiatives, risk management, business ethics, costing in BPO industry, VAT in Tamil Nadu – post implementation scenario, concept of core banking and discussion on Union Budget.

#### **EASTERN INDIA REGIONAL COUNCIL**

The EIRC undertook the following activities during the year under review :

(1) A workshop on TDS and Foreign Trade was organised on 15.7.2006. Shri Mrityunjay Acharya,

Manager – Taxation, Balmer Lawrie & Co. Ltd. deliberated on TDS and Shri P.K. Ghosh, Asstt. Director General, Foreign Trade, delivered lecture on foreign trade. A good number of members attended the workshop.

(2) A campus interview was held for qualified and semi-qualified Cost Accountants on 14.8.2006 which was inaugurated by Shri Sudarshan Roy Chowdhury, Minister of Higher Education, Govt. of West Bengal. About 200 candidates attended the programme and 16 companies participated.

(3) A Coordination Committee meeting of the Chairmen and Secretaries was held on 1.9.2006. The consensus arrived on different issues was submitted to the Central Council for consideration. A seminar on ISO 9001-2000 Quality Management System on Customers' Satisfaction and ICWAI was organised on 1.9.2006 wherein Shri S. N. Pyne, former Chairman, was the speaker.

(4) A delegation consisting of the Chairman and senior members met the Commissioner, Commercial Taxes, West Bengal, on 19.10.2006 and pleaded for allowing level playing ground to the Cost Accountants under VAT Act, 2003 and rules made thereunder. The Commissioner assured the delegation to initiate steps for amendment in the Act. A delegation of the Chairman, Secretary and senior members met Shri Ajay Chakraborty, M.P., on 21.10.2006 on professional matters and change of name of the Institute. A similar delegation also met Shri Rupchand Pal, M.P., on 22.10.2006 on relevance of Cost Audit and change of name.

(5) Chairman along with Shri C.R. Chattopadhyay, former Chairman met Shri Basudeb Banerjee, Chairman, Tea Board, on 27.10.2006 and discussed about coverage of more companies under Cost Audit as also to utilize the services of practicing members for internal audit and certification works of Tea Board. On the same day they also met Shri B. Mahapatra, Regional Director, RBI, West Bengal and Sikkim, and discussed about the role of members in the areas of stock audit, risk based internal audit and concurrent audit of banks.

(6) 146<sup>th</sup> oral coaching was inaugurated on 27.10.2006. S/Shri A. K. Basu, Chairman, Tyre Corporation, Subrata Ghosh, GM (Regional Services), Indian Oil Corporation, Harijiban Banerjee and Amal Kumar Das, past Presidents, C.R. Chattopadhyay, former Chairman and Biswarup Basu, Regional Council Member, were present and addressed the students. Shri S. C. Mohanty, Chairman, presided over the meeting.

(7) Shri S.C. Mohanty met Commissioner-cum-Secretary, Dept. of Steel & Mines, on 4.11.2006 and Director of Mines, Govt. of Orissa, on 12.11.2006 respectively for recommending the names of

companies engaged in mining, processing, production and manufacturing to Govt. of India for cost audit under Cost Accounting Records (Mining & Metallurgy), Rules, 2001.

(8) A workshop was held on 11.11.2006 on Professional Tax and Fringe Benefit Tax. S/Shri M.K. Mondal, Addl. Commission, Professional Tax, Govt. of West Bengal, and Anirban Purkayastha, Asstt. Commission & PRO, Professional Tax, Govt. of West Bengal, addressed on professional tax while Shri Mrityunjay Acharya, Manager, Balmer Lawrie & Co. spoke on fringe benefit tax. Chairman and Secretary met the chairperson of W.B. Electricity Regulatory Commission on 17.11.2006 and discussed different professional matters. The chairman also met chairperson of Orissa Electricity Regulatory Commission on 25.11.2006 who assured to take steps to move to the Govt. to order cost audit for power sector industries of Orissa for the cost and management accountants.

(9) A fundamental training programme for employees of universities was held on 25-26.11.2006. 62 persons from different universities of West Bengal participated. Shri Gautam Bhattacharyya, Jt. Secretary, Govt. of W. B. inaugurated the programme. Netaji Subhas Open University, Kolkata decided to consider the qualified Institute's members equivalent to pursue Ph.D. programme under the University provided that the candidate should be a graduate from a recognised University.

(10) EIRC with Asansol chapter organized a campus interview on 10.12.2006 for qualified/semi qualified students.

(11) 28<sup>th</sup> Regional Cost Conference was held on 23-24 December, 2006 on Management Accountants – In pursuit of Excellence. Shri P.S. Shome, Chief Financial Adviser to Prime Minister, inaugurated the conference in presence of S/Shri A.K. Mahapatra, industrialist, P.S. Bhattacharya, Chairman of Coal India Ltd and P. Mohanty, past President and CCM. Eminent speakers from various disciplines spoke on different subjects.

(12) A chapter's meet was organised on 7.1.2007 on different issues relating to the profession and the Institute. Chairman along with a senior member met the Commissioner, Commercial Taxes, and submitted the second memorandum for allowing level playing grounds for cost accountants along with chartered accountants under the provisions of audit/certification under W.B. VAT Act. After several rounds of representations the Govt. has allowed level playing grounds for cost accountants under the Act.

(13) 147<sup>th</sup> session of oral coaching was inaugurated on 28.1.2007 wherein along with other dignitaries and present and past office bearers, Shri Pravakar Mohanty, past President and CCM, addressed the gathering.

(14) A seminar on Essentials of Corporate Manager was organised on 28.1.2007 wherein along with other dignitaries and present and past office bearers, Shri Pravekar Mohanty, past President and CCM, were the resource persons. At the request of Patna Chapter the Chairman visited Patna during 29-31 January 2007 and met senior officials of the Govt. for pursuing different issues relating to land for the chapter, inclusion of cost accountants under VAT Act of Bihar for special audit, cost audit for mining/electricity industries and allowing equivalence to the final examinations by the Universities of Bihar. Chairman addressed the students and members there on 30.1.2007.

(15) A workshop was held on Accounting Standard and Cost Accounting Standard on 24.2.2007 where senior members participated. Another workshop was held on Impact of Union Budget 2007 on direct tax and service tax on 24.3.2007 where some dignitaries deliberated on the subject.

(16) 148<sup>th</sup> session of oral coaching was inaugurated on 19.4.2007 where Shri S. Banerjee, Vice President, Gillanders Arbuthnot & Co., was the chief guest. Other senior faculties were also present on the occasion.

#### NORTHERN INDIA REGIONAL COUNCIL

The NIRC undertook the following activities during the year under review :

(1) NIRC celebrated 60<sup>th</sup> Independence Day on 15.8.2006 at ICWAI Bhawan, New Delhi. National Flag was unfurled and National Anthem was sung. S/Shri J.K. Puri, former President, Rakesh Singh, CCM, Chandra Wadhwa, Vice President graced the occasion by their presence. S/Shri Hari Krishan Goel, Chairman, D.C. Arya, Vice Chairman, Atul Kumar Gupta and U.K. Shukla, Members, were present. Shri Hari Krishan Goel congratulated the participants.

(2) 11<sup>th</sup> Modular Training Programme for 15 days from 1<sup>st</sup> August 2006 was organised for training the students in various fields of profession. More than 100 final students attended the programme. A seminar on Relevance of Intellectual Property Rights was held on 25.8.2006. The eloquent speaker was Shri Ajay Sahni, a senior practising lawyer. Shri Sanjay Gupta, Secretary, welcomed the members. S/Shri D.V. Joshi, President and K.G. Goyal, CCM also attended the seminar. Shri D.V. Joshi gave a brief speech on the development of the profession. Shri H.K. Goel proposed vote of thanks.

(3) A programme on MCA-21 was held on 17.11.2006. The renowned speaker was Shri Rajender Kapoor, FCS. S/Shri Sanjay Gupta, Atul Kumar Gupta, U.K. Shukla, and Rajender Kapoor explained the concept of MCA-21 with the help of power point presentation.

(4) With a view to keeping track of the social and entertainment front, the New Year Party was organised on 28.12.2006. Shri H. K. Goel welcomed Shri J.K. Puri,

former President and Chief Advisor (Cost). S/Shri Chandra Wadhwa, Vice President, Rakesh Singh and K. G. Goyal, CCM, participated in the function. Other office bearers were also present.

(5) A seminar on Personality Development & Body Language was held on 22.1.2007. The renowned speaker was Shri Ravish Bhateja. Shri Bhateja explained the concept of personality development thoroughly with the help of power point presentation. Other office bearers were also present.

(6) A farewell party was held on 4.2.2007 in honour of Shri J.K. Puri on the occasion of his retirement as Chief Advisor (Cost), Govt. of India. Other office bearers were present. S/Shri Chandra Wadhwa, Vice President, Rakesh Singh and K.G. Goyal, CCM, R.J. Goel, D.C. Bajaj and K.L. Jaisingh, past Presidents, Subhash Agrawal, past Chairman and other senior Govt. Officers were also present.

(7) 12<sup>th</sup> Modular Training Programme for 15 days was held from 1.2.2007 to 16.2.2007 and third session was organized from 18.2.2007 to 5.3.2007. Shri Mridul Tandon, Sr. Faculty, graced the occasion by his eminent presence.

(8) A Campus Interview was held on 6.4.2007. The visiting Industry was M/s Abhishek Industries Ltd. The requirement was for the post of Assistant Manager and Dy. Manager.

(9) A full day seminar on Activity Based Costing & Service Tax was organized by Faridabad Chapter jointly with NIRC on 17.3.2007. Shri R.K. Taneja, E.D. (Finance) NHPC Ltd., was the guest of honour. The delegates were also addressed by Shri Atul Kumar Gupta, former Chairman. S/Shri J.K. Puri and K. L. Jaisingh, former Presidents, Shri Chandra Wadhwa, Vice President, Shri Rakesh Singh, CCM, and other office bearers were also present.

(10) NIRC participated in 3<sup>rd</sup> Education Fair-cum-Seminar on 2-3 June, 2007. This was a mega event in which more than 100 Management and Professional Institutions participated.

(11) A seminar on Finance Act was organised on 15.6.2007 Shri Brijesh Grover, Senior Manager-Commercial was the guest speaker. The Seminar was attended by a large number of members. A seminar on Limited Liability Partnership was held on 23.6.2007. Shri Ashish Makhija, FICWA, FCA, was the guest speaker.

(12) NIRC helps the prospective employers to articulate their human resource needs and accordingly recommended names of inter/final qualified students for Industrial training and final placement to different organizations. It also organised career counseling and career fair in different senior secondary schools/colleges for students.

(13) Gandhi Jayanti was celebrated on 2.10.2006 at Allahabad chapter premises. Shri R. C. Srivastava, Chairman, unfurled the National Flag and offered flowers to picture of Gandhi Ji.

(14) Jaipur Chapter organized a seminar on VAT Registration and Documentation on 5<sup>th</sup> August, 2006. Chief Guest of the function Shri. H. L. Pandey, Commissioner (Appeal) discussed on the provisions of VAT. The Chapter organized a programme on skill in report writing and business letters as well as group discussion and business communication seminar for intermediate students on 23-24 September 2006. A function was organized on 7.10.2006 to discuss the various issues of professional interest. S/Shri D.V. Joshi, President and Chandra Wadhwa, Vice President, were present in the function. A press conference was also organized which was addressed by President and Vice President. Shri Sunil Goyal, President, SAFA, was also felicitated on this occasion. A Member meet was organized wherein in addition to President and Vice President, S/Shri K. G. Goyal and Rakesh Singh, CCMs, other office bearers were also present. A Career Counseling Programme was held on 15.12.2006. Shri B.L. Jain explained in detail the courses offered by the Institute. A seminar on role of Cost Accountant in Management of Administrative Services was organised on 16.12.2006. A seminar on Role of Special Economic Zone, SEZ in Indian Economy was held on 23.12.2006. The key speaker was Shri B.S. Meena. Dy. Commissioner Custom (SEZ).

The new session of oral coaching classes for Foundation, Inter and Final was inaugurated on 27.1.2007. Prof. N.P. Agarwal, Principal, University Commerce College, University of Rajasthan, was chief guest. The Modular Training Programme for final students was inaugurated by Shri J.P. Singhal, former Principal, Agarwal P.G. college. It also organized industrial/factory visit on 18.2.2007 at (SARAS) Jaipur Dairy Plant (RCDF Unit). A seminar was held on "Skill in report writing and business Communication for Inter students on 10-11 March, 2007. Computer training programme was also organised on 11.3.2007 for Inter and Final students.

(15) Coaching classes of Lucknow chapter were inaugurated by Shri Nilanjan Mukherji, UP Head TATA AIG on 8.7.2006. Shri Sudhanshu Dwivedi, Chairman, welcomed the chief guest. Prizes were given to meritorious students. A delegation consisting of present and past office bearers took part in the meeting with Income Tax Commissioner. Senior office bearers were present besides others. A workshop on Right to Information Act was held 30.7.2006. Shri Ishwar Chand Dwivedi, Ex-Director General Police, spoke on the occasion. A seminar on Financial Restructuring was held on 21.8.2006. Shri D.V. Joshi, President, said that revised ICWAI syllabus will have emphasis on new and emerging areas of financial management on Cost

Control such as derivative Market International Finance and Insurance Sector. Shri Chandra Wadhwa, Vice President, emphasized on greater role to be played by the Cost & Management Accountants as CMAs has proved themselves their competency in all kind of Accounting. Financial Management, Cost Control and Value Management. Shri K. G. Goyal, CCM, spoke on new changes in Insurance and Banking Sector. Shri Dwivedi welcomed President and Vice President and other dignitaries present on the occasion. Group Discussion for Inter stages I & II were held on 5-6 October, 2006. Modular training program for final students was organized from 4<sup>th</sup> to 27<sup>th</sup> October, 2006.

A two day Regional Conference was held from 23<sup>rd</sup> to 24<sup>th</sup> December, 2006 on Corporate Management - Emerging Trends. The conference was inaugurated by Dr. Ashok Bajpai, Hon'ble Minister for Agriculture and Religious Endowment on 23.12.2006. S/Shri Chandra Wadhwa, Vice President, Rakesh Singh and K.G. Goyal, CCM, besides other dignitaries graced the occasion. The conference was inaugurated by Dr. Ashok Bajpai, Hon'ble Minister for Agriculture and Religious Endowment, Govt. of UP, on 23.12.2006. Dr. Dinesh Sharma, Hon'ble Mayor, was the Chief Guest of the Session. It was chaired by Shri Rakesh Singh, CCM. Shri Subhash Agrawal, past Chairman, deliberated that MCA-21 project has relieved corporate entities/professionals from making queues in ROC and other MCA offices of filling returns and compliance of other legal requirements. Shri Rakesh Singh summed up the session and briefed the Hon'ble Mayor about the latest developments in the profession. The second session on Accounting Standards was chaired by Shri K.G. Goyal, CCM. The third session on Finance for professionals was chaired by Shri Chandra Wadhwa, Vice President. Shri K.L. Jaisingh, past President, was the Guest of Honour. The fourth session on Financial Planning and Port Folio Management was chaired and summed up by Shri Sudhanshu Dwivedi, DGM, UPPCL.

A Personality Development Programme which was organized on 7.2.2007 was imparted by Shri S.K. Sharma, a US based corporate trainer. It was well received by the participants which comprised of members, faculty members and students. Inaugural function was organised on 11.1.2007 and was inaugurated by Shri C.J. Tikku, AGM, State Bank of India and senior member of the Institute.

(16) The Ludhiana Chapter organized a Study Circle Meeting on Limited Liability Partnership (LLP) and deliberated on various aspects of the proposal contained in the concept Paper on LLPs. The discussion was initiated by Mr. R. C. Singal, a Practicing Co. Secretary and former Chairman. Business Communication Seminar and Group Discussion was held on 12.8.2006 and 13.8.2006. A Study Circle Meeting on Cost Audit in Public Sector Undertaking was held on 13.10.2006. It also organized a Business Communication and Group Discussion on

17-18 March, 2007. A talk on Union Budget was organized wherein various aspects of budgetary proposal were discussed. Present and past office bearers as also members of other professions were present. A Study Circle Meeting on Service Tax was held where various aspects of proposals contained in the Budget were discussed. A Business Communication and Group Discussion was held on 31<sup>st</sup> March and 1<sup>st</sup> April, 2007.

(17) Faridabad Chapter organized a seminar on 27.12.2006 relating to the provisions of the Fringe Benefit Tax. The Chief Guest was Dr. Raj K. Agarwal, a leading professional. The main faculty was Mr. K. S. Berk Representative of many Industries and members of the Chapter participated. Shri R.K. Taneja, past Chairman, was felicitated on his promotion as executive Director of NHPC.

(18) An examination centre was opened at Haridwar Uttarakhand. The center will cater to approximately 500 students every year of Haridwar and nearby areas including Rishikesh and Roorkee. The centre was inaugurated by Shri S.C. Singhal, Addl. General Manager (Fin.) on 26.12.2006. S/Shri Subodh Gupta, Vice Chairman, Inder Kumar, Secretary and Mukul Agarwal, Treasurer, and other members were present on the occasion.

(19) A full day Conference on Direct and Indirect Taxation was organized by the Chandigarh-Panchkula Chapter on 18.2.2007. Shri Rajesh Bindal, Hon'ble Justice Punjab & Haryana High Court, inaugurated the Conference. S/Shri D.V. Joshi, President, Chandra Wadhwa, Vice President, Rakesh Singh and K.G. Goyal, CCMs and Hari Krishan Goel, Chairman of NIRC were guests of Honour. Various issues related to direct and indirect taxes were discussed by eminent speakers. Shri Pawan Kumar Bansal, Hon'ble Union Minister of State for Finance, laid the foundation stone of chapter's proposed building on 18.2.2007.

(20) Jalandhar Chapter conducted group discussion for the students of Intermediate on 1.4.2007 and the topics of discussion were financial accounting, means of cost control, internal audit and control and budgetary control.

(21) A seminar on Valuation Rules and Cost Accounting Standard-4 was organized by the Ghaziabad Chapter on 25.8.2006 and felicitated Shri Chandra Wadhwa, Vice President who inaugurated the conference. S/Shri Alok Goswami, G.M. (Fin.), H.K. Goel of NIRC, Rakesh Singh and K.G. Goyal CCMs, Neeraj Sharma, Chairman of the Chapter, were present. Shri Sharma welcomed the chief guest and other dignitaries. The programme was coordinated by Shri Pramod Sharma, Secretary of the chapter.

#### **ANNEXURE 1**

**THE INSTITUTE OF COST AND WORKS  
ACCOUNTANTS OF INDIA  
12 SUDDER STREET, KOLKATA 700 016**

### **COMPOSITION OF STANDING AND OTHER COMMITTEES OF THE COUNCIL OF THE INSTITUTE FOR THE YEAR 2006-2007**

<b>President : Shri Dhananjay V. Joshi</b>	
<b>Vice-President : Shri Chandra Wadhwa</b>	
<b><u>STANDING COMMITTEES</u></b>	
<b><u>1. Executive Committee (Quorum – 3)</u></b>	
(i)	<b>Shri Dhananjay V. Joshi, President</b> – Chairman
(ii)	<b>Shri Chandra Wadhwa, Vice-President</b> – Member
(iii)	<b>Shri V. C. Kothari</b> – Member
(iv)	<b>Shri K. G. Goyal</b> – Member
(v)	<b>Shri Bibhabananda Majumdar</b> – Member <b>Dr Debasis Bagchi</b> – Secretary
<b><u>2. Disciplinary Committee (Quorum – 2)</u></b>	
(i)	<b>Shri Dhananjay V. Joshi, President</b> – Chairman
(ii)	<b>Shri Praveen Kumar</b> – Member
(iii)	<b>Shri V. C. Kothari</b> – Member <b>Dr Debasis Bagchi</b> – Secretary
<b><u>3. Examination Committee (Quorum – 2)</u></b>	
(i)	<b>Shri Chandra Wadhwa, Vice-President</b> – Chairman
(ii)	<b>Shri K. G. Goyal</b> – Member
(iii)	<b>Shri Bibhabananda Majumdar</b> – Member <b>Smt. Chandana Bose, Director</b> – Secretary
<b><u>OTHER COMMITTEES</u></b>	
<b><u>4. Training, Educational Facilities &amp; Computerisation Committee (Quorum – 3)</u></b>	
(i)	<b>Shri A. S. Durga Prasad</b> – Chairman
(ii)	<b>Shri M. Gopalakrishnan</b> – Member
(iii)	<b>Shri V.C. Kothari</b> – Member
(iv)	<b>Dr Sanjiban Bandyopadhyaya</b> – Member
(v)	<b>Shri R. K. Jain</b> – Member
(vi)	<b>Dr Asbok Joshi</b> – Member (Co-opted) <b>Shri A. P. Kar, Director</b> – Secretary
<b><u>5. Research &amp; Journal Committee (Quorum – 2)</u></b>	
(i)	<b>Shri A. S. Durga Prasad</b> – Chairman
(ii)	<b>Shri V. C. Kothari</b> – Member
(iii)	<b>Dr Sanjiban Bandyopadhyaya</b> – Member
(iv)	<b>Shri S.G.Y. Narayanan</b> – Member
(v)	<b>Shri D. C. Bajaj</b> – Member (Co-opted) <b>Shri Siddhartha Sen, Director</b> – Secretary
<b><u>6. Continuing Education Programme Committee (Quorum – 3)</u></b>	
(i)	<b>Dr Sanjiban Bandyopadhyaya</b> – Chairman
(ii)	<b>Shri K. G. Goyal</b> – Member
(iii)	<b>Dr D. Jagannathan</b> – Member
(iv)	<b>Shri A. S. Durga Prasad</b> – Member
(v)	<b>Shri Pravakar Mohanty</b> – Member
(vi)	<b>Shri I. P. Singh</b> – Member (Co-opted) <b>Shri D. Chandru, Jt. Director</b> – Secretary

**7. Professional Development, Banking, Insurance & PSU Committee (Quorum - 2)**

- (i) Shri K. G. Goyal - Chairman  
 (ii) Shri M. Gopalakrishnan - Member  
 (iii) Dr Sanjiban Bandyopadhyaya - Member  
 (iv) Shri Rakesh Singh - Member  
 (v) Shri V. Kalyanarman - Member  
 (Co-opted)

Shri A. P. Kar, Director - Secretary

**8. Members' Services & Members' Facilities Committee (Quorum - 2)**

- (i) Shri Bibhabananda Majumdar - Chairman  
 (ii) Shri K. G. Goyal - Member  
 (iii) Shri Pravakar Mohanty - Member  
 (iv) Dr Sanjiban Bandyopadhyaya - Member  
 (v) Shri P.D. Phadke - Member  
 (Co-opted)

Shri Kaushik Banerjee, Dy. Director - Secretary

**9. Regional Councils & Chapters Coordination Committee (Quorum - 2)**

- (i) Shri Pravakar Mohanty - Chairman  
 (ii) Shri K. G. Goyal - Member  
 (iii) Shri Bibhabananda Majumdar - Member  
 (iv) Shri Rakesh Singh - Member  
 (v) Shri Harijiban Banerjee - Member  
 (Co-opted)

Shri S. R. Saha, Joint Director - Secretary

**10. WTO & International Affairs Committee (Quorum 3)**

- (i) Shri Chandra Wadhwa - Chairman  
 (ii) Shri R. K. Jain - Member  
 (iii) Shri A. S. Durga Prasad - Member  
 (iv) Shri Pravakar Mohanty - Member  
 (v) Shri B. M. Sharma - Member  
 (vi) Shri M. K. Anand - Member  
 (Co-opted)

Shri A. P. Kar Director - Secretary

**11. Audit Committee (Quorum 2)**

- (i) Shri S.G.Y. Narayanan - Chairman  
 (ii) Shri V. C. Kothari - Member  
 (iii) Shri Bibhabananda Majumdar - Member

Shri R. N. Pal Director - Secretary

**12. Companies Act, Industrial, Commercial & Labour Laws (Quorum 3)**

- (i) Dr D. Jagannathan - Chairman  
 (ii) Shri V. C. Kothari - Member  
 (iii) Shri M. Gopalakrishnan - Member  
 (iv) Shri Rakesh Singh - Member  
 (v) Shri B. M. Sharma - Member  
 (vi) Shri R. Balakrishnan - Member  
 (Co-opted)

Shri S. Bhasker, Dy. Secretary - Secretary

**13. Direct and Indirect Taxation (Quorum 3)**

- (i) Shri B. M. Sharma - Chairman  
 (ii) Shri S.G.Y. Narayanan - Member  
 (iii) Shri V. C. Kothari - Member  
 (iv) Shri K. G. Goyal - Member  
 (v) Shri Rakesh Singh - Member  
 (vi) Shri V. S. Datey - Member  
 (Co-opted)

Shri Tarun Kumar, Asst. Director- Secretary

**14. Cost Audit & Cost Accounting Records (Quorum 2)**

- (i) Shri Rakesh Singh - Chairman  
 (ii) Shri K.G. Goyal - Member  
 (iii) Shri M Gopalakrishnan - Member  
 (iv) Shri K. C. Kohli - Member  
 (Co-opted)

Dr Amarendra Kumar, Asst. Director - Secretary

**15. Navi Mumbai Research Project Committee (Quorum 2)**

- (i) Shri V. C. Kothari - Chairman  
 (ii) Shri Pravakar Mohanty - Member  
 (iii) Shri B.M. Sharma - Member  
 (iv) Chairman, WIRC - Member  
 (Co-opted)

Shri S. C. Gupta, Dy. Director - Secretary

**16. Public Relations & Publicity (Quorum 2)**

- (i) Shri R. K. Jain - Chairman  
 (ii) Shri V. C. Kothari - Member  
 (iii) Shri K. G. Goyal - Member  
 (iv) Shri B. M. Sharma - Member  
 (v) Shri J. K. Puri - Member  
 (Co-opted)

Shri S. C. Gupta, Dy. Director - Secretary

President, Vice-President and Secretary are Permanent Invitees to all Committees except Standing Committees.

**Cost Accounting Standards Board of ICWAI (Quorum - 2)**

- (i) Shri M. Gopalakrishnan - Chairman  
 (ii) Dr D. Jagannathan - Member  
 (iii) Shri V. C. Kothari - Member  
 (iv) Shri A. S. Durga Prasad - Member  
 (v) Shri A. K. Kapoor - Member (Co-opted),  
 Adviser (Cost), Govt. of India  
 (vi) Nominee of ICSI  
 (vii) Nominee of ICAI  
 (viii) Nominee of CII  
 (ix) Nominee of FICCI  
 (x) Nominee of ASSOCHAM  
 Shri A. P. Kar, Director - Secretary

Gupta & Co.  
Chartered Accountants

53A, Mirza Ghalib Street  
Kolkata – 700 016

#### Auditor's Report

To The Council of The Institute of Cost and Works Accountants of India

1. We have audited the attached Balance Sheet of The Institute of Cost and Works Accountants of India (the Institute) as at March 31, 2007 and also the Income and Expenditure Account for the year ended on that date annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the Institute's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
2. We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
3. As required by Section 18(5A) of the Cost and Works Accountants Act, 1959 as amended by the Cost and Works Accountants (Amendment) Act, 2006, these accounts have not been considered and approved by the Council in a special meeting convened for the purpose.
4. We report as follows and draw attention to the following notes given by the management on Schedule 18:
  - a) Notes B.1 and B.2 regarding advances to Regional Councils and Chapters for Silver Jubilee Capital Grant amounting to Rs.21.32 lakhs and for construction of Building aggregating to Rs.102.02 lakhs remaining unadjusted / non-capitalized for last several years due to lack of necessary documents and information from the respective Regional Councils and Chapters. The impact of these in the accounts is not readily ascertainable at this stage.
  - b) Note 10 regarding receipts from Members / Students during the year amounting to Rs.2.33 lakhs for which the drafts have been returned, but the income has not been reversed and consequently contravenes Accounting Policy No.2(a) regarding accounting on cash basis.
  - c) Note 12 regarding non-confirmation and non-reconciliation of year-end balances due from Regional Councils (other than EIRC) and Chapters, consequently the adjustments as may be necessary are not readily ascertainable at this stage.
  - d) The management has informed us that the identification, physical verification and compilation of the fixed assets register are nearing completion and discrepancies, if any, arising out of verification and reconciliation will be carried out in the next year's accounts.
  - e) The title deeds for free hold land amount to Rs.18.23 lakhs and building aggregating to Rs.161.59 lakhs were not available for our examination.
  - f) The shares in respect of investment in Jai Brindaban Trust Fund, Mumbai, for an ownership flat were not available for our examination.
  - g) Sundry debtors amounting to Rs.4.35 lakhs, the extent to which these debts will ultimately be recovered is not ascertainable at this stage.
  - h) Chapters to whom building loans (5% & 4%) amounting to Rs.23.27 lakhs and computer loan amounting to Rs.5.73 lakhs have been given are defaulting in repayment of principal and payment of interest, where applicable. Information necessary in respect of these to determine the extent of recoverability was not available.

- i) Other receivables includes Rs.16.19 lakhs in respect of interest on building loans outstanding, including Rs.1.81 lakhs for the current year shown as income. From the available information we are unable to comment on the recoverability of this amount.
- j) Confirmations of balances of paper stock lying with the printers of Rs.10.04 lakhs were not available to us.
- k) According to the audited accounts of EIRC the amount receivable from ICWAI is Rs.21.10 lakhs and payable to ICWAI is Rs.32.42 lakhs as against Rs.13.32 lakhs and Rs.44.64 lakhs respectively as shown by ICWAI accounts. We are informed that this is being reconciled and necessary adjustments as there may be, which is not ascertainable at this stage, will be carried out next year.
- l) In respect of the Delhi unit, we have not been able to verify the programme wise income amounting to Rs.120.27 lakhs. In our opinion, the maintenance of accounts of this unit needs to be further strengthened.
- m) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the internal control system for reconciliation of tuition and registration fees, reconciliation of sale of study notes and suggested answers to Regional Councils, transactions with Regional Councils and Chapters, reconciliation of various accounts and purchase of paper and maintenance of receipt daybook requires to be strengthened.
5. From the available information it has not been possible for us to ascertain the extent of approximate adjustments arising out of the items in paragraph 4 above adversely affecting the year end position of surplus and general fund, except that, had the observations made in paragraphs 4 b) above been considered, the surplus for the year would have been Rs.207.79 lakhs (as against the reported figure of Rs.210.12 lakhs) and the balance of general fund would have been Rs.1027.77 lakhs (as against the reported figure of Rs.1030.10 lakhs).
6. Further to our comments in paragraph 4 above, we report that:
  - i) Subject to paragraphs 4 a) to l) above, we have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;
  - ii) In our opinion, the accounts are maintained in conformity with the requirements of the Cost and Works Accountants Act, 1959 as amended by the Cost and Works Accountants (Amendment) Act, 2006.
  - iii) The Balance Sheet and Income and Expenditure Account dealt with by this report are in agreement with the books of account.
- iv) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, subject to our remarks in paragraph 4 above, the said financial statements together with the accounting policies and notes thereon and attached thereto, give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:
  - (a) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Institute as at March 31, 2007; and
  - (b) in the case of the Income and Expenditure Account, of the surplus for the year ended on that date on the basis as described in Note A.2 on Schedule 18 to the accounts.

For Gupta & Co.  
Chartered Accountants

S.K.Ganguli  
Partner  
Membership No.6622

Kolkata  
July 21, 2007



**The Institute of Cost and Works Accountants of India****BALANCE SHEET as at 31st March, 2007**

Last year 2005-2006 Rs.	PARTICULARS	SCH. No.	This year 2006 - 2007	
			Rs.	Rs.
	<b>INSTITUTE FUND :</b>			
87,796,323	General Fund	(1)		103,010,405
12,529,000	Employees' Gratuity Fund	(2)		16,338,083
7,299,000	Employees' Leave Encashment Fur	(3)		12,038,744
383,648	Employees' Benevolent Fund	(4)		394,001
1,039,233	Misc. Prize & Other Fund	(5)		1,035,772
-	Student Benevolent Fund			500,000
-	Image Building Fund			500,000
<b>109,047,204</b>	<b>TOTAL</b>			<b>133,817,005</b>
	<b>REPRESENTED BY :</b>			
	Fixed Assets :	(6)		
58,683,957	a) Gross Block		59,804,682	
35,720,294	b) Less Depreciation		37,892,865	
22,963,663	c) Net Block			21,911,817
500	Investment	(7)		500
70,413,944	Current Assets	(8)	98,684,301	
18,526,366	Loans & Advances	(9)	20,738,862	
<b>88,940,310</b>			119,423,163	
3,738,194	Less : Current Liabilities & Provision	(10)	8,424,478	
<b>85,202,116</b>	<b>NET CURRENT ASSETS</b>			110,998,685
880,924	Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off)			906,003
<b>109,047,204</b>	<b>TOTAL</b>			<b>133,817,005</b>
	<b>Notes on Accounts</b>	(18)		

**Schedules referred to above form part of the Accounts**

As per our report attached.

For Gupta & Co.  
Chartered AccountantsChandra Wadhwa  
Vice PresidentDhananjay V. Joshi  
PresidentS. K. Ganguli  
Partner

Membership No.6622

R. N. Pal  
Director (Finance)Dr. Debasis Bagchi  
Secretary

Kolkata

Dated : 21st July, 2007

3979 GF/07-13

**INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT**  
**for the year ended 31st March, 2007**

Last year 2005 - 2006	PARTICULARS	Sch. No.	This year 2006 - 2007
Rs.			Rs.
	<b>INCOME :</b>		
8,195,135	Annual Members' Subscription	(11)	8,828,825
44,846,376	Tuition Fees & Others	(12)	65,264,507
25,450,616	Examination Fees & Others	(13)	34,904,645
13,090,964	C. E. Programme Income		12,007,973
-	Oracle Training - Income		2,170,000
380,782	Journal Fee (Incl. Advt.)		463,092
100,000	Research Study Project		155,000
280,059	Publication Income		80,335
2,029,997	Interest		2,563,734
<b>94,373,929</b>	<b>Total :</b>		<b>126,438,111</b>
	<b>EXPENDITURE :</b>		
36,177,377	Establishment	(14)	40,871,653
10,282,942	Office Expenses	(15)	13,179,119
44,080	Statutory Audit Fee		56,180
55,423	Internal Audit Fee		56,150
2,168,791	Travelling & Conveyance		3,760,326
8,501,685	Exam. Exp. incl. S/Ans. & Exam. Form consumed		10,400,979
2,688,820	Council & Comm. Meeting Exp.		3,443,191
1,111,319	Election Expenses		1,412,852
2,373,103	Journal Expenses		2,413,347
7,166,809	Contribution to Regional Councils	(16)	9,067,537
119,212	Contribution to Chapters (Grant)		128,298
896,460	Membership Subscription To Foreign Bodies		993,849
111,406	Conference & Meeting International		287,332
49,034	Research Study Project		91,100
9,386,768	C. E. Programme Expenses		8,489,211
-	Oracle Training - Expenses		1,972,855
576,148	Professional Development Expenses		727,052
1,445,006	Non Moving Stock Written Off		296,157
-	Sundry Debtors - Written Off		225,519
4,369,109	Study Materials incl. Prospectus Consumed		4,917,669
166,662	Publication Stock Consumed		65,707
2,440,036	Depreciation		2,569,997
<b>90,130,190</b>	<b>TOTAL</b>		<b>105,426,080</b>
4,243,739	Surplus for the year c/d		21,012,031
<b>94,373,929</b>	<b>TOTAL</b>		<b>126,438,111</b>
4,243,739	Surplus for the year b/d		21,012,031
-	Contribution to Image Building Fund		500,000
-	Contribution to Student Benevolent Fund		500,000
20,000	Prior Period Income	(17)	299,556
618,965	Prior Period Expenses		8,113,000
<b>3,644,774</b>	<b>Net Surplus transferred to General Fund</b>		<b>12,198,587</b>

**Schedules referred to above form part of the Accounts**

As per our report attached.

For Gupta & Co.

Chartered Accountants

S. K. Ganguli

Partner

Membership No. 6622

Kolkata, Dated : 21st July, 2007

Chandra Wadhwa

Vice President

R. N. Pal

Director (Finance)

Dhananjay V. Joshi

President

Dr. Debasis Bagchi

Secretary

**SCHEDULE FORMING PART OF ACCOUNTS****SCHEDULE NO.1 : GENERAL FUND ' as at 31st March,2007**

2005-2006 (Rs.)		2006 - 2007 (Rs)	
80,561,994	Balance as per last account		87,796,323
	Add :		
1,164,825	i) Capitalization of Chapter's Building -		
71,274	ii) Transfer from Non Specific Deposit	37,400	
184,397	iii) Unlinked Transaction in Bank Account(Net)	-	37,400
81,982,490			87,833,723
	Less :		
15,425	i) Adjustment of Debtors		
81,967,065			87,833,723
	iii) Capital Grants to Regional Councils :		
86,726	for Library	95,000	
9,000	for Furniture	9,000	104,000
81,871,339			87,729,723
330,570	Add : Entrance Fee (Member)	350,775	
1,949,640	Entrance Fee (Student)	2,731,320	3,082,095
84,151,549			90,811,818
3,644,774	Add : Net Surplus for the year :		
	Income & Expenditure Account		12,198,587
87,796,323	Total		103,010,405

**SCHEDULE NO. 2 : EMPLOYEES' GRATUITY FUND As at 31st March,2007**

10,784,000	Balance as per last account		12,529,000
2,554,245	Add : Contribution for the year		4,447,250
13,338,245			16,976,250
859,711	Add : Interest earned on Investment of Fund for the year		990,638
14,197,956			17,966,888
1,668,956	Less : Gratuity paid to Employees' during the year		1,628,805
12,529,000	Total		16,338,083

**SCHEDULE NO. 3 : EMPLOYEES' LEAVE ENCASHMENT FUND As at 31st March,2007**

6,890,000	Balance as per last account		7,299,000
2,592,602	Add : Contribution for the year		7,255,135
9,482,602			14,554,135
	Add : Interest earned on Investment of Fund for the year		2,603
9,482,602			14,556,738
2,183,602	Less : Paid to Employees during the year		2,517,994
7,299,000	Total		12,038,744

**SCHEDULE NO. 4 : EMPLOYEES' BENEVOLENT FUND As at 31st March,2007**

377,246	Balance as per last account		383,648
	Add : Contribution during the year		
6,008	Employer's	5,868	8,802
3,004	Employees'	2,934	
21,610	Add : Interest earned on Investment of Fund for the year		23,900
407,868			416,350
24,220	Less : Paid to Employees during the year		22,349
383,648	Total		394,001

## SCHEDULE NO. 5 : MISC. PRIZE &amp; OTHER FUND AS AT 31.03.2007

Name of the Prize Fund	Opening Balance (Rs.)	Add : during the year (Rs.)	Income credited (Rs.)	Total (Rs.)	Cost of Prizes (Rs.)	Closing Balance (Rs.)
B.D. Puri Prize Fund	10,743.02		692.00	11,435.02	3,056.00	8,379.02
Wazir Debi Puri Prize Fund	10,575.17		683.00	11,258.17	3,056.00	8,202.17
B. C. Chakraborty Prize Fund	12,068.70		405.00	12,473.70	-	12,473.70
D. D. Kalra Prize Fund	14,418.30		374.00	14,792.30	293.00	14,499.30
A. K. Biswas Prize Fund	36,676.92		1,311.00	37,987.92	3,723.00	34,264.92
Bikramjit Mazumdar Prize Fund	12,022.30		276.00	12,298.30	416.00	11,882.30
B. N. Ganguly Prize Fund	8,569.30		240.00	8,809.30	300.00	8,509.30
K. Ramachandran Prize Fund	6,619.26		376.00	6,995.26	600.00	6,395.26
Sm. Rajamma M.R.S. Iyengar Prize	6,646.70		287.00	6,933.70	400.00	6,533.70
U. N. Sur / D. Merry Sur Prize Fund	13,028.50		575.00	13,603.50	1,000.00	12,603.50
Maujram Jain Prize Fund	18,566.00		952.00	19,518.00	600.00	18,918.00
Pune Chapter of Cost Accountants	12,436.00		692.00	13,128.00	1,000.00	12,128.00
Gangadas Mundhra Prize Fund	8,681.17		799.00	9,480.17	3,056.00	6,424.17
V. Srinivasan Prize Fund	9,788.17		829.00	10,617.17	3,056.00	7,561.17
V. K. Cansal & S. P. Cansal	33,656.00		1,572.00	35,228.00		35,228.00
J. N. Bose Prize Fund	8,904.17		656.00	9,560.17	3,056.00	6,504.17
Subhas Adhya Prize Fund	4,876.52		-294.48	5,171.00	400.00	4,771.00
N. Sarkar Prize Fund	14,113.06		567.75	14,680.81	600.00	14,080.81
G. Indira Debi Prize Fund	17,424.28		787.00	18,211.28	3,056.00	15,155.28
Pusparani De Prize Fund	11,506.72		900.00	12,406.72	2,588.58	9,818.14
Srinivasan Jagannathan Prize Fund	26,967.79		1,258.00	28,225.79	3,056.00	25,169.79
Sultan Chand Prize Fund	44,109.00		1,312.00	45,421.00	1,530.00	43,891.00
K. K. Dutta Prize Fund	22,087.19		630.00	22,717.19	1,528.00	21,189.19
Kedarnath Prahaldrai Dhanuka Prize	26,893.00		787.00	27,680.00	612.00	27,068.00
Later Mrs. Dhanapati Goel Prize Fund	25,418.08		1,104.00	26,522.08	3,056.00	23,466.08
Kanshi Ram Prabhakar Prize Fund	24,157.36		1,104.00	25,261.36	3,056.00	22,205.36
Mandakini Vasant Limaye Prize Fund	3,946.50		263.00	4,209.50	400.00	3,809.50
Lt Colonel Ambuja Nath Bose Prize	41,720.17		1,576.00	43,296.17	3,056.00	40,240.17
M. Krishna Murthy Prize Fund	10,508.00		524.00	11,032.00	500.00	10,532.00
Laxmibai Dhandopant Kavishwar P	8,690.00		263.00	8,953.00		8,953.00
Smt. Kamala Mukherjee Prize Fund	16,701.00		798.00	17,499.00		17,499.00
P. Ganguly Memorial Prize Fund	126,915.00		5,752.00	132,667.00	5,000.00	127,667.00
Principal Smt. V.J. Talati Prize Fund	32,242.68		1,436.00	33,678.68	1,294.29	32,384.39
Annapurna & Rebatl R Bhattacharjee	24,155.00		1,152.00	25,307.00	765.00	24,542.00
Endowment Lecture Fund - A.V.S.P	12,609.00		624.00	13,233.00		13,233.00
Northern Coal Field Merit Award Pr	100,176.00		6,629.00	106,805.00	2,327.00	104,478.00
K.G. Goyal Hindi Medium Prize Fund	21,649.00		2,376.00	24,025.00	633.00	23,392.00
Ranjay Kumar Basu Memorial Prize	20,148.00		1,636.00	21,784.00	527.00	21,257.00
Diamond Jubilee Prize Fund	102,092.68		11,296.00	113,388.68	1,528.00	111,860.68
Students Benevolent Fund	76,727.00		1,876.00	78,603.00		78,603.00
Ganapathi Subramanian Memorial Fund		500,000		500,000.00	500,000	-
					(Disbursed)	
<b>TOTAL :-</b>	<b>1,039,232.71</b>	<b>500,000.00</b>	<b>55,664.23</b>	<b>1,594,896.94</b>	<b>559,124.87</b>	<b>1,035,772.07</b>

SCHEDULE NO. 6 : FIXED ASSETS AS AT 31ST MARCH, 2007

Description of Assets	Gross Block				Depreciation				Net Block	
	Opening Cost 01.4.06	Addition during the period	Less : Sale/ Adjustment of Fixed Assets during the period	Total as on 31.03.2007	Upto 1.4.06	For the year	Less : Depre- ciation on Sale/ Adjustment of Fixed Assets during the year	Upto 31.03.2007	This year 2006-2007	Last year 2005 - 2006
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
<b>FREEHOLD LAND</b>										
Headquarter	140,000			140,000	-			-	140,000	140,000
Regional Councils & Chapters	3,488,583			3,488,583	-			-	3,488,583	3,488,583
<b>FREEHOLD BUILDING</b>										
Headquarter	2,707,998			2,707,998	1,713,786	99,421		1,813,207	894,791	994,212
Regional Councils & Chapters	35,641,687			35,641,687	20,029,462	1,561,222		21,590,684	14,051,003	15,612,225
<b>LEASEHOLD LAND :</b>										
Regional Councils & Chapters	407,070			407,070	153,975	13,496		167,471	239,599	253,095
(Durgapur, Nagpur, Ukkunagram, Visakhapatnam, Pune & Bhillai)										
<b>FURNITURE &amp; FITTINGS :</b>										
Headquarter	2,676,189	310,202		2,986,391	2,125,799	86,059		2,211,858	774,533	550,390
<b>LIBRARY BOOKS :</b>										
Headquarter	882,330	22,431		904,761	551,203	35,355		586,558	318,203	331,127
<b>OFFICE EQUIPMENTS :</b>										
Headquarter	3,482,272	172,270		3,654,542	2,249,810	210,710		2,460,520	1,194,022	1,232,462
<b>GENERATORS :</b>										
Headquarter	280,545			280,545	276,938	902		277,840	2,705	3,607
<b>LIFT :</b>										
Headquarter (EIRC Premises)	416,062			416,062	360,525	13,884		374,409	41,653	55,537
<b>MOTOR CAR :</b>										
Headquarter	477,546	496,939	477,546	496,939	377,398	69,724	397,426	49,696	447,243	100,148
<b>COMPUTER :</b>										
Headquarter	8,083,675	596,429		8,680,104	7,881,398	479,224		8,360,622	319,482	202,277
<b>Total :</b>	58,683,957	1,598,271	477,546	59,804,682	35,720,294	2,569,997	397,426	37,892,865	21,911,817	22,963,663

SCHEDULE NO.7 : INVESTMENT (AT COST) AS AT 31ST MARCH 2007

2005-2006 (Rs.)	2006 - 2007 (Rs.)
<b>SHARES (GENERAL FUND) :</b>	
500	500
5 Shares of Rs. 100/- each	
Jai Brindaban Premises Tr Fund, Bombay	
<b>TOTAL</b>	<b>500</b>

3979 GT/22-16

**SCHEDULE NO.8 : CURRENT ASSETS**  
as at 31st March,2007

Last year 2005-2006 Rs.	PARTICULARS	This year 2006-2007	
		Rs.	Rs.
2,607,016	Publication Stock (at Cost)		2,183,598
812,506	Paper Stock (at Cost)		1,004,214
2,084,212	Study Material incl. Prospectus Stock (at Cost)		1,679,270
4,735	Stock Silk Ties		4,735
1,959,917	Other Receivables		2,053,686
9,755,240	Sundry Debtors (Net of Rs.1,60,158/-)		6,852,588
	<b>Cash and Bank Balances :</b>		
38,205	In hand (including Cash and Postage Stamps)	16,624	
329,387	At Post Office		
	<b>Balances with Scheduled Banks :</b>		
10,928,497	On Current Account	16,975,083	
25,445	On Savings Account	178,661	17,170,368
	<b>Fixed Deposits :</b>		
11,144,645	Employees' Gratuity Fund	15,175,000	
-	Employees' Leave Encashment Fund	5,000,000	
29,550,000	Institute's Fund	46,353,046	
360,861	Employees' Benevolent Fund	394,348	
813,278	Misc. Prize & Other Fund	813,448	67,735,842
<b>70,413,944</b>	<b>Total</b>		<b>98,684,301</b>

**SCHEDULE NO.9 : LOANS AND ADVANCES**

	Building Loan to Chapters :		
2,236,441	5% Building Loan	2,236,441	
96,241	4% Building Loan	90,062	2,326,503
597,414	Computer Loan to Chapters	(B)	573,306
10,202,000	Advance to Regional Councils & Chapters for Building cons.	(C)	10,802,000
2,132,138	Silver Jubilee Cap.Grants(Adv.)to Chaters	(D)	2,132,138
811,101	Loan to Regional Council - EIRC		811,101
977,921	Building Loan to Employees		829,422
6,900	Vehicle Purchase Advance to Employees		32,300
147,226	Other Advances		474,433
181,485	Festival Advance to Employees		174,605
665,598	Advance Membership Subscription to Foreign Bodies - CAPA & IFAC		715,200
2,370	Salary Advance to Employees for Provident Fund Contribution		491,002
89,361	Prepaid Expenses		830,796
380,170	Deposits		546,056
<b>18,526,366</b>	<b>Total</b>		<b>20,738,862</b>

**SCHEDULE NO. 9(A) : BUILDING LOAN TO CHAPTERS**  
as at 31st March 2007

Last year 2005 - 2006		Name of the Chapter	This year 2006 - 2007	
4% Loan Rs.	5% Loan Rs.		4% Loan Rs.	5% Loan Rs.
6,241		Goa	62	
	100,000	Kolhapur-Sangli		100,000
	82,800	Aurangabad		82,800
	200,000	Coimbatore		200,000
	150,000	Ranipet Vellore		150,000
90,000		Howrah	90,000	
	150,000	Bokaro Steel City		150,000
	200,000	Durgapur		200,000
	200,000	Asansol		200,000
	200,000	Dhanbad - Sindri		200,000
	191,897	Serampore		191,897
	186,744	Cuttack-Bhubaneswar		186,744
	135,000	Jaipur		135,000
	200,000	Udaipur		200,000
	100,000	Kanpur		100,000
	140,000	Kota		140,000
<b>96,241</b>	<b>2,236,441</b>	<b>Total</b>	<b>90,062</b>	<b>2,236,441</b>

  

Amount Rs.	Realisation of Building Loan during 2006 - 2007	Amount Rs.
	Goa Chapter	6,179
	<b>Total :</b>	<b>6,179</b>

**SCHEDULE NO. 9(B) : COMPUTER LOAN TO CHAPTERS as at 31st March, 2007**

2005-06 (Rs.)	Name of the Chapter	2006-07 (Rs.)
64,150	Goa	64,150
62,150	Ahmedabad	62,150
6,240	Visakhapatnam	-
49,429	Cochin	40,561
12,267	Neyveli	10,267
34,001	Trivandrum	27,001
64,150	Howrah	64,150
64,150	Durgapur	64,150
64,150	Asansol	64,150
53,773	Cuttack-Bhubaneswar	53,773
58,804	Jaipur	58,804
64,150	Udaipur	64,150
<b>597,414</b>	<b>Total</b>	<b>573,306</b>
<b>Amount</b>	<b>Realisation of Computer Loan during 2006 - 2007</b>	<b>Amount</b>
1,460	Cochin Chapter	8,868
2,000	Neyveli Chapter	2,000
9,073	Trivandrum Chapter	7,000
2,000	Visakhapatnam Chapter	6,240
<b>14,533</b>	<b>Total :</b>	<b>24,108</b>

**SCHEDULE NO. 9(C) : ADVANCE TO REGIONAL COUNCILS & CHAPTERS FOR CONSTRUCTION OF BUILDINGS**

3,892,000	N.I. R.C.	3,892,000
2,700,000	W.I.R.C.	2,700,000
300,000	Bhilai	300,000
300,000	Udaipur	300,000
300,000	Lucknow	300,000
200,000	Nasik-Ojhar	200,000
300,000	Cuttack-Bhubaneswar	300,000
300,000	Durgapur	300,000
300,000	Bokaro Steel City	300,000
-	Hyderabad Chapter	600,000
300,000	Asansol	300,000
200,000	Kanpur	200,000
300,000	Dhanbad - Sindri	300,000
300,000	Mysore	300,000
300,000	Serampore	300,000
210,000	Kota	210,000
<b>10,202,000</b>	<b>Total</b>	<b>10,802,000</b>

**SCHEDULE NO. 9(D) : SILVER JUBILEE CAPITAL GRANTS (ADVANCE) TO CHAPTERS as at 31st March, 2007**

100,000	Kanpur	100,000
100,000	Durgapur	100,000
100,000	Asansol	100,000
32,138	Jaipur	32,138
100,000	Ahmedabad	100,000
100,000	Howrah	100,000
100,000	Jamshedpur	100,000
100,000	Naihati Ichapur	100,000
100,000	Faridabad	100,000
100,000	Chandigarh - Pachkula	100,000
100,000	Cuttack-Bhubaneswar	100,000
100,000	Bokaro Steel City	100,000
100,000	Vijaywada	100,000
100,000	Kalyan-Ambarnath	100,000
100,000	Baroda	100,000
100,000	Bhopal	100,000
100,000	Trivandrum	100,000
100,000	Nagpur	100,000
100,000	Goa	100,000
100,000	Lucknow	100,000
100,000	Nashik Ojher	100,000
100,000	Mysore	100,000
<b>2,132,138</b>	<b>Total</b>	<b>2,132,138</b>

**SCHEDULE NO. 10 : CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS**  
as at 31st March, 2007

Last year 2005 - 2006	PARTICULARS	This year 2006 - 2007
Rs.		Rs.
	<b>Current Liabilities :</b>	
455,186	Library Deposit	455,286
2,347,009	Sundry Creditors	4,376,635
588,249	Other Liabilities - Net	2,402,557
27,750	Book Overdraft	-
320,000	Provisions	1,190,000
<b>3,738,194</b>	<b>Total</b>	<b>8,424,478</b>

**ANNEXURE TO SCHEDULE NO.10 SCHEDULES OF PROVISIONS :**

30,000	Provision for Grants to Co-op. Cr. Soc. Pvt. Ltd.	40,000
140,000	Provision for Golden Jubilee Contribution to Regional Councils & Chapters	-
-	Provision for Staff Welfare	1,000,000
150,000	Provision for Rates & Taxes	150,000
<b>320,000</b>	<b>Total</b>	<b>1,190,000</b>

**SCHEDULE NO. 11 : INCOME**

**ANNUAL MEMBERS' SUBSCRIPTION :**  
for the year ended 31st March, 2007

6,925,800	Annual Membership Fees	6,799,321
817,800	Members Certificate of Practice Fee	750,420
451,285	Grad C.W.A. Fees	966,574
250	Members Complaint Fee	50
-	Certified Facilitation Centre Fee	43,060
-	Nomination Fee	269,400
<b>8,195,135</b>	<b>Total</b>	<b>8,828,825</b>

**SCHEDULE NO. 12 : INCOME TUITION AND OTHER FEES :**

for the year ended 31st March, 2007

2,924,460	Student Registration Fee	4,099,325
23,712,503	Tuition Fees	39,412,957
3,346,093	Computer Training (Net of Rs.25,85,325/-)	5,135,463
900	Recognition Fee	-
53,850	Annual Recurring Fees	52,030
5,505,641	Service Fees	6,521,835
1,412,168	Revalidation of Coaching Completion Certificates Fees	1,645,214
2,515,683	Sale of Prospectus	2,529,610
5,345,953	Sale of Study Notes	5,834,638
29,125	Sale of Postal Coaching, Revalidation & Denovo Forms	33,435
<b>44,846,376</b>	<b>Total</b>	<b>65,264,507</b>

**SCHEDULE NO. 13 : INCOME EXAMINATION AND OTHER FEES :**

for the year ended 31st March, 2007

22,513,309	Examination Fees	30,945,974
264,725	Verification of Answers Paper Fees	370,326
1,373,664	Sale of Suggested Answer including Scanner	1,790,286
1,011,237	Sale of Exam. Forms	1,058,063
287,681	Sundry Income	739,996
<b>25,450,616</b>	<b>Total</b>	<b>34,904,645</b>

**SCHEDULE NO. 14 : ESTABLISHMENT**

for the year ended 31st March, 2007

26,866,280	Salaries & Allowances	29,513,275
2,554,245	Employer's Cont. to Employees' Gratuity Fund	3,005,250
2,455,815	Employer's Cont. to Employees' Provident Fund	2,716,091
6,008	Employer's Cont. to Employees' Benevolent Fund	5,868
2,592,602	Employer's Cont. to Employees' Leave Encashment	3,385,135
1,191,126	Medical Expenses	1,583,012
163,000	Leave Travel Allowance to Employees	385,000
52,070	Employer's Contribution to Employees E.D.L.I.	53,934
37,288	RPFC Administration & E.D.L.I. Inspection Charges	41,191
258,943	Training & Development (H.R.D.)	182,897
<b>36,177,377</b>	<b>Total</b>	



**SCHEDULE NO. 15 : EXPENDITURE OFFICE EXPENSES**  
for the year ended 31st March, 2007

Last year 2005 - 2006 Rs.	PARTICULARS	This year 2006 - 2007 Rs.
1,604,880	Printing & Stationery	2,205,847
2,644,855	Postage, Telegrams, Telephones & Fax	2,363,498
729,124	Electricity Charges	838,019
31,278	Generator Expenses	20,924
147,510	Rates & Taxes	167,858
48,580	Insurance	46,102
1,405,904	Repair & Maintenance	2,698,701
797,569	Car Expenses	1,116,872
6,800	Interest on Caution Money Deposit	6,800
553,532	Study Material Distribution Expenses	757,530
742,707	Legal Charges	107,090
154,237	Bank Charges	66,290
322,246	Computer Expenses incl. Hire Charges	295,252
55,910	Public Relation Expenses	59,020
52,776	Watch & Ward Expenses	65,045
130,494	Books & Periodicals	130,580
52,750	Delegate Fee	10,000
204,180	Gazette Notification	221,415
206,276	Staff Welfare	1,259,923
268,175	Administrative Charges	490,379
125,179	Sundry Expenses	262,176
10,262,942	<b>Total</b>	<b>13,179,119</b>

**SCHEDULE NO. 16 : REVENUE GRANTS TO REGIONAL COUNCILS INCLUDING  
REIMBURSEMENT OF REVENUE EXPENSES**  
for the year ended 31st March, 2007

A) Amount reimbursed to the Regional Councils during the year on following accounts and merged with Income & Expenditure Account :

Last year 2005 - 2006 Rs.	PARTICULARS	E.I.R.C. Rs.	S.I.R.C. Rs.	W.I.R.C. Rs.	N.I.R.C. Rs.	This year 2006-2007 Rs.
22,466	Repair & Maintenance	31,767	32,643	6,000	17,683	88,093
65,910	Rates & Taxes		885		28,217	29,102
88,376	<b>Total (A) :</b>	<b>31,767</b>	<b>33,528</b>	<b>6,000</b>	<b>45,900</b>	<b>117,195</b>

300,000	T.A. Grants	100,000	100,000	100,000	100,000	400,000
240,000	Running Expenses Grant	60,000	60,000	60,000	60,000	240,000
6,626,809	Revenue Grants & Other	1,045,037	3,296,350	1,477,900	2,608,250	8,427,537
7,166,809	<b>Total (B) :</b>	<b>1,205,037</b>	<b>3,456,350</b>	<b>1,637,900</b>	<b>2,768,250</b>	<b>9,067,537</b>

7,255,165	<b>Total (A) + (B) :</b>	<b>1,236,804</b>	<b>3,489,878</b>	<b>1,643,900</b>	<b>2,814,150</b>	<b>9,184,732</b>
-----------	--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**SCHEDULE NO. 17 : PRIOR PERIOD INCOME/EXPENSES**  
for the period ended 31st March, 2007

Last year 2005 - 2006 Rs.	PARTICULARS	This year 2006-2007 Rs.
	<b>Income :</b>	
20,000	C.E. Programme - Income	35,000
-	Interest	27,972
-	Service Fee	282,300
-	Cheque Returned & Others	(45,716)
20,000	<b>Total :</b>	<b>299,556</b>
	<b>Expenses :</b>	
228,784	Office Expenses	631,730
20,668	Journal Expenses	-
295,939	Membership Subscription to Foreign Body (S)	-
32,133	C.E. Programme Expenses	40,838
9,441	C.C.M.	-
-	Establishment	13,132
-	Revenue Grant	2,115,300
-	Employers Contribution to Employees Gratui	1,442,000
-	Employers Contribution to Employees Leave	3,870,000
32,000	PD Expenses	-
618,965	<b>Total</b>	<b>8,113,000</b>

3979 9707-15

**NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS  
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2007**

**SCHEDULE NO. 18**

**A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICY**

**1. Fixed Assets :**

a) Fixed Assets are stated in the accounts at cost less depreciation provided at diminishing value method irrespective of the date of purchase at the rate prescribed under the Income Tax Rules from time to time.

b) Leasehold lands are being amortized over the period of lease.

c) Assets under creation are shown as capital work in progress.

**2. Income and Expenditure Recognition :**

a) Incomes are normally treated in the accounts on cash basis except Programme Fee, Research Fee, Interest Income and transactions with the Regional Councils and Chapters in respect of sale of various publications etc. of the Institute.

b) Expenditures other than Annual Grants to Chapters is considered on mercantile basis. Election related expenses are charged off in the accounts over three years.

**3. Investments :**

Investments are stated at cost.

**4. Inventories :**

Inventories are comprised of various publications, papers and study materials, which have been valued at Cost of Purchase plus other related incidental charges. The Stock of Publication and Study Materials are valued at weighted average cost and Stock of Paper is valued by using First in First out method. However, un-consumable / un-saleable publications and study materials are not included in stock value.

**5. Employees' Retirement Benefits :**

a) Gratitudes are provided in the Accounts on the basis of actuarial valuation in accordance with the Payment of Gratuity Act, 1972.

b) Provident Funds are paid to the Trustees as per the Institute's Rules in this regard and Institute's contribution are charged against revenue each year.

c) Leave Encashment benefit on retirement is provided on the basis of actuarial valuation.

**6. Foreign Currency Transactions :**

Foreign currency transactions are accounted for in the accounts on Collection/Payment in rupee, i.e. when it is received and incurred in rupee value. All transactions made in foreign currencies for monetary items are translated at the rate prevailing on date of transactions or at the closing rates.

**7. Prior Period Income/Expenditure :**

Prior period specific revenue portion is shown below the line of the income and Expenditure Accounts and other adjustments for prior period are done to and from General Fund.

**B. NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS :**

1. The unadjusted balance amounting to Rs.21,32,138/- (Previous Year Rs.21,32,138/-) towards Silver Jubilee Capital Grants(Advance) could not be adjusted for want of relevant documents.

2. Unadjusted balance in Advance to Regional Councils and Chapters for construction of building is Rs.1,02,02,000/- (Previous Year Rs.1,02,02,000/-) which is pending Capitalization for want of relevant documents and information.

3. Exemption in respect of Income Tax has been granted u/s 10(23A) read with Section 11 of the Income Tax Act, 1961. Accordingly, no provision for Income Tax has been made.

4. Employees' Leave Encashment Fund as at 31<sup>st</sup> March 2007 is Rs.1,20,38,744/- (Previous Year Rs.72,99,000/-) as per actuarial valuation as against the investment including accrued interest thereon of Rs.50,02,603/- Thus there is short fall of investment amounting to Rs.70,36,141 (Previous Year Rs.72,99,000/-). Fund management has already been handed over to Life Insurance Corporation of India.

5. Employees' Gratuity Fund as at 31<sup>st</sup> March, 2007 is Rs.1,63,38,083/- (Previous Year Rs.1,25,29,000/-) as per actuarial

valuation as against the investment including accrued interest thereon of Rs. 1,52,08,332/- Thus there is short fall of investment amounting to Rs.11,14,340/- (Previous Year Rs. 12,13,764/-). Fund management has already been handed over to Life Insurance Corporation of India.

6. Employees' Benevolent Fund as on 31<sup>st</sup> March, 2007 is Rs.3,94,001/- (Previous Year Rs. 383648/-) as against the investment including accrued interest thereon of Rs.438019/- (Previous Year Rs. 4,13,906/-).

7. All Prize Funds and Students' Benevolent Fund maintained by the Institute have been incorporated in the accounts together with relevant investments thereof in terms of the decision of the Council. Since the funds have been sponsored by the different donors, the Income / Expenditure thereof have no bearing with the Institute's Accounts.

8. As recommended by the Executive Committee provision for Students' Benevolent Fund for Rs.500,000, Image Building for Rs.500,000 and Staff Welfare for Rs.10,00,000 have been made.

9. As per past practice, the accounts of the Regional Councils and Chapters are not incorporated in these accounts, though at the time of computation of Trust Income under the Income Tax Act, 1961 these are considered.

10. Receipts from Members/Students for the current year includes return drafts to the tune of Rs.233205 /-. Steps have been taken for realization of the same.

11. Election related expenses (1/3 portion) amounting to Rs.8,80,924/- (2004-07) and Rs.5,31,928/- on account of By-Election Expenses for Southern Region has been charged to the Income & Expenditure Account and Rs.9,06,003/- (2007-2011) has been shown under the head Misc. Expenses to be charged in the next years as per Accounting Policy No. 2(b).

12. Confirmation of Account Balances from different Regional Councils and Chapters are awaited and the balances reflected in these accounts are as per books.

13. Other Advances include Rs.2,88,384/- due from certain Past Council Members owing to disallowances by the MCA, Govt. of India and presently the matter is sub-judice.

14. During the year the stocks have been valued on the basis of Physical quantity as against the Book quantity in earlier year. As a result of this change the stocks are lower by Rs.3,77,498/-.

15. Provision made for Golden Jubilee contribution to the Regional Councils and Chapters amounting to Rs.1,40,000/- is no longer required and is written back and it has been included in the Sundry Income in the Current Year.

16. As per decision of the 238<sup>th</sup> Executive Committee Meeting held on 8-9/5/93, Rs.37,400/- pertaining to the year 2003-04 has been adjusted through General Fund (Previous Year - Rs.71,274/-).

17. As per Executive Committee decision, the difference of Rs.6,36,094/- between the book stock and physical stock arising last year have been written off during the year apportioning to different Regional Councils and Headquarters of which, the share of Headquarter of Rs.2,96,157/- has been charged to Income & Expenditure Account.

18. For the purpose of actuarial valuation of Employee's Gratuity Fund and Leave Encashment Fund, escalation by 10% has been considered for both the year, as a result, the prior period expenditure comes to Rs.14,42,000/- and Rs.38,70,000/- on account of Gratuity and Leave Encashment respectively.

19. Previous year's figures have been regrouped wherever found necessary to conform to the current year's groupings.

Chandra Wadhwa  
Vice President  
R. N. Pal  
Director (Finance)

Dhananjay V. Joshi  
President  
Dr. Debasis Bagchi  
Secretary

Kolkata  
Dated 21<sup>st</sup> July, 2007

S. C. GUPTA, Dy. Director

[ADVT. III/IV/Ext'y/71/07]